छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय दैनिक

SUNDAY

रायपुर, रविवार, 14 सितंबर 2025

वर्ष - 67 | अंक - 150 | पृष्ठ - 12

मूल्य - 4.00 रु.

www.deshbandhu.co.in खबरें लगातार ...

प्रेस पंजीयन- 06072/59

पत्र नहीं मित्र

देशबन्धु

देश विदेश

- ट्रंप ने सोरोस पर लगाया 'दंगों की फंडिंग' का आरोप
- कतर के प्रधानमंत्री करेंगे ट्रंप से मुलाकात
- पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने की गिलगित-बाल्टिस्तान में राहत व बचाव कार्यों की निंदा

पृष्ठ 7

मोदी का मणिपुर दौरा बहुत देर से उठाया गया कदम : प्रियंका गांधी पृष्ठ 2

- **मड़ई**
  सोन नगरी लंका- तिरसूल- सुदरसन चक्र के बनइया पृष्ठ 6

- पाक को हराकर सुपर-4 में स्थान बनाने उतरेगा भारत
- जापान के खिलाफ ड्रॉ खेलने के बाद भी फाइनल में पहुंची भारतीय टीम

पृष्ठ 8

हिंसा के 2 साल बाद मणिपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, बोले

मणिपुर मां भारती के मुकुट पर सजा रत्न

■ चुराचांदपुर में 7,300 और इंफाल में 1,200 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास व उद्घाटन

इंफाल, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मणिपुर के चुराचांदपुर और इंफाल पहुंचे। उन्होंने चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ और इंफाल में 1,200 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शिलान्यास और उद्घाटन किया। मणिपुर में मई, 2023 में हिंसा भड़कने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला दौरा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मणिपुर को मां भारती के मुकुट पर सजा मुकुट रत्न बताया और कहा कि हमें मणिपुर की विकासवादी छवि को निरंतर मजबूत करना है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा ➤➤ शेष पृष्ठ 7 पर ➤

पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ा मिजोरम
मोदी ने 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई

आइजोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली बैराबी-सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है। मिजोरम के लिए एक ऐतिहासिक दिन, क्योंकि यह भारत के रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने तीन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बैराबी-सैरांग नई रेल लाइन 8,070 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुई है। यह केंद्र सरकार की विश्वस्तरीय ➤➤ शेष पृष्ठ 7 पर ➤

मणिपुर दौरे पर खरगे ने उठाए सवाल

864 दिन बाद सिर्फ 3 घंटे का दौरा पीड़ितों का अपमान



नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर शनिवार को दावा किया कि हिंसा के 864 दिन बाद 'सिर्फ तीन घंटे' के लिए जाना एक मजाक और राज्य की पीड़ित जनता का घोर अपमान है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर संवैधानिक उत्तरदायित्व का परित्याग करने का भी आरोप लगाया और तंज कसते हुए यह सवाल किया कि 'आपका राजधर्म कहां है?

कांग्रेस अध्यक्ष ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "नरेन्द्र मोदी जी, मणिपुर में आपका तीन घंटे का दौरा करुणा नहीं है, बल्कि यह प्रहसन, प्रतीकात्मकता और पीड़ित लोगों का घोर अपमान है। आज इंफाल और चूड़ाचांदपुर में आपका तथाकथित रोड शो, राहत शिविरों में लोगों की चीखें सुनने से कायरतापूर्ण तरीके से मुंह फेरने के अलावा कुछ और नहीं है। उन्होंने कहा, 'हिंसा के 864 दिन हो गए, 300 लोगों की जान गई, 67,000 लोग विस्थापित हुए और 1,500 से अधिक लोग घायल हुए।

आपने तब से 46 विदेश यात्राएं कीं

खरगे ने कहा, 'आपने तब से 46 विदेश यात्राएं कीं, लेकिन अपने ही नागरिकों के साथ सहानुभूति के दो शब्द साझा करने के लिए एक भी यात्रा नहीं की। आपकी मणिपुर की आखिरी यात्रा जनवरी, 2022 में हुई थी और वह भी चुनाव के लिए थी। उन्होंने दावा किया, 'आपके 'डबल इंजन' ने मणिपुर ➤➤ शेष पृष्ठ 7 पर ➤

नवाचार और उद्यमिता में छत्तीसगढ़ को मिली राष्ट्रीय पहचान

एनआईटी रायपुर एफआईईई को मिला भारत इन्क्यूबेटर अवार्ड

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। नई दिल्ली में आज आयोजित चौथे भारत उद्यमिता शिखर सम्मेलन में एनआईटी रायपुर एफआईईई फाउंडेशन फार इनोवेशन एंड इंटरप्रीन्यूवरशिप को प्रतिष्ठित भारत इन्क्यूबेटर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। एनआईटी रायपुर एफआईईई को देश में स्टार्ट-अप और नवाचार इको-सिस्टम में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

तकनीकी नवाचारों को धरातल पर उतारने में प्रभावी भूमिका के लिए मिला पुरस्कार एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और एंटरप्राइजिंग जोन-ईजेड द्वारा नई दिल्ली में चौथे भारत उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनिंदर सिंह सिरसा ने एनआईटी रायपुर एफआईईई के फैकल्टी इंचार्ज डॉ. अनुज कुमार शुक्ला को भारत इन्क्यूबेटर अवार्ड प्रदान किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ से जुड़े दो अन्य स्टार्ट-अप्स, रस लग्ज़री ऑयल्स और आत्मिक भारत को भी स्टार्ट-अप श्रेणी में सम्मानित किया गया। ये दोनों स्टार्ट-अप्स एनआईटी रायपुर एफआईईई के इन्क्यूबेशन सेंटर में विकसित हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर एनआईटी रायपुर को बधाई देते ➤➤ शेष पृष्ठ 7 पर ➤

सार संक्षेप

मां-बेटे ने 13वीं मंजिल से कूदकर दी जान

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र में स्थित ऐस सिटी सोसाइटी में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक महिला और उसके 11 वर्षीय बेटे ने 13वीं मंजिल की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही सोसाइटी में हड़कंप मच गया और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। मृतका की पहचान साक्षी चावला (37) और उनके पुत्र दक्ष चावला (11) के रूप में हुई है। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें दोनों ने दुनिया छोड़ने की इच्छा जताई थी। पुलिस के अनुसार, परिवार लंबे समय से मानसिक तनाव में था। मृतक बच्चा दक्ष मानसिक रूप से बीमार था, जिससे परिवार पर काफी दबाव था।

दीपोत्सव में होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का ग्रीन आतिशबाजी शो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग अयोध्या में दीपोत्सव-2025 की तैयारियों में जुटा है। इस बार 19 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण मुक्त ग्रीन आतिशबाजी शो आयोजित किया जाएगा। राम की पैड़ी पर होने वाला यह दीपोत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ऐतिहासिक रूप लेगा। इस वर्ष दीपोत्सव में सरयू घाटों पर 26 लाख से अधिक मिट्टी के दीप प्रज्वलित होंगे और नदी तट को विशेष सजावट से संवारकर आकर्षक बनाया जाएगा। शो का डिजाइन अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों जैसे- रियो डी जेनेरियो (ब्राजील) के रेबेलियन आतिशबाजी शो, फ्रांस के बैस्टिल डे और ब्रिटेन की गाई फॉक्स नाइट की तर्ज पर तैयार किया जाएगा।

सुशीला कार्की ने तय की अगले आम चुनावों की तारीख

काठमांडू। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने पहली मंत्रिमंडल बैठक में संसद को भंग करने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री ने आगामी संसदीय चुनाव के लिए तारीख भी 05 मार्च 2026 तय कर दी है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संसद को भंग करने तथा अगले चुनाव कराने की सिफारिश का समर्थन किया है। श्रीमती कार्की ने शुक्रवार रात को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 61 (तीन) और (चार) के तहत नियुक्त किया गया, जो राज्य प्रमुख को अंतरिम सरकार के नेता को नामित करने का अधिकार देता है।

प्रदेश में बदले जाएंगे नीट यूजी- पीजी में भर्ती के नियम : जायसवाल

■ बांड राशि के प्रावधान में भी होगा बदलाव

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। प्रदेश में नीट यूजी-पीजी में प्रवेश के नियम बदले जाएंगे।25 लाख और 50 लाख के बांड राशि जमा करने के प्रावधान में भी बदलाव होगा। स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने नियम में संशोधन के लिए स्वास्थ्य सचिव को निर्देशित कर दिया है।

स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने चर्चा करते हुए कहा, हर एक वो नियम बदला जाएगा जो छात्रों के हित में नहीं है।नीट यूजी- पीजी में 25 लाख और 50 लाख के बॉण्ड राशि प्रावधान में बदलाव किया जाएगा। इससे गरीब बच्चे आसानी से मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश ले सकेंगे। प्रवेश के लिए पालकों को संपत्ति गिरवी नहीं रखना पड़ेगा।नियम में बदलाव के लिए स्वास्थ्य सचिव को निर्देशित किया गया है।स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा, करोड़ों रुपए छात्रों के डॉक्टर बनने में सरकार खर्च करती हैं, ऐसे में पढ़ाई करके भागे ना इसलिए कुछ नए नियम जोड़े जाएंगे। नियम में बदलाव के बाद लगभग 90 लाख राशनकार्डधारी परिवार के बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर पाएंगे।

यूजी में भर्ती के लिए 25 लाख का संपत्ति बॉन्ड देना होता है तो वहीं पीजी में भर्ती के लिए 50 लाख और संपत्ति बॉन्ड कलेक्टर के तहसीलदार से प्रमाणित करके जमा कराना पड़ता है। इस मामले में जूडो संरक्षक डॉ. राकेश गुप्ता ने बड़ा खुलासा करते हुए अधिकारियों पर अपने फायदे के लिए प्रदेश में अलग नियम बनाने के आरोप लगाए थे। इस मामले में डॉ. राकेश गुप्ता ने सवाल उठाते हुए कहा था कि नीट यूजी पीजी में भर्ती के लिए देश में कहीं नियम नहीं है वो नियम छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। जबकि पूरे देश में नीट रैंक के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

व्यावसायिक शिक्षक भर्ती में दोषी अधिकारियों पर होगी एफआईआर : शिक्षा मंत्री

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। व्यावसायिक शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में अब दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसका आदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है और प्रबंध संचालक राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा को निर्देशित किया है।

व्यावसायिक शिक्षक भर्ती में घोटाले को उजागर होने के बाद भारी बवाल मचा था।जिसके बाद विभाग ने संज्ञान लिया। विभागीय जांच में भी घोटाले की पुष्टि हुई, जिसके बाद भर्ती पर रोक लगाई गई।अब इस मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कड़ा एक्शन लिया है।

दोषी अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई होगी- स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने यह भी कहा है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।बच्चों के सामने मारपीट करने वाले शिक्षकों पर भी एफ आई आर दर्ज होगी। उन्होंने कहा, स्कूल में शराब पीकर आने वाले शिक्षकों को निलंबित किया जा रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया में अलग-अलग जिलों के शराबी शिक्षकों का वीडियो खबू वायरल हो रहा है। इस पर शिक्षा मंत्री ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि ठेका कंपनियों ने सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षक की भर्ती को बाजार बना दिया है 2-3 लाख रुपए की मोटी रकम देकर कोई भी हेल्थकेयर, आई टी, प्लंबर या ब्यूटी एंड वेलनेस जैसे ट्रेड्स में शिक्षक बन सकता है।उन्होंने यह भी दावा किया था कि 1500 से ज्यादा पदों के लिए रेट कार्ड सेट था, पैसा दो और नौकरी लो। नियम-कायदे ताक पर रखे गए और यहां तक ➤➤ शेष पृष्ठ 7 पर ➤

लोकतंत्र तभी फलता-फूलता है, जब विधायी संस्थाओं में खुले मन से हो चर्चा : रमनसिंह

■ संसदीय सम्मेलन में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह 11 से 13 सितंबर तक कर्नाटक की राजधानी बेंगलूरू में आयोजित (सीपीए) राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 11वें सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने 'संवाद और चर्चा- जन विश्वास का आधार, जन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है' विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा भी उपस्थित थे।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संसद और विधानसभाएं किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली की रीढ़ होती हैं। वे सिर्फ कानून बनाने वाली मशीनें नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा मंच है, जहां जनता के विश्वास और आकांक्षाओं को आकार दिया जाता है। विधायी संस्थाओं में संवाद और चर्चा केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र तभी फलता-फूलता है, जब विधायी संस्थाओं में खुले मन से संवाद और तर्कपूर्ण चर्चा हो।

समस्याओं को सुलझाने का केंद्र हैं विधायी संस्थाएं- डॉ. रमन सिंह ने कहा कि विधायी संस्थाओं में होने वाली बहसें केवल वाद-विवाद नहीं होती, बल्कि वे राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय करने वाली बौद्धिक कसरत होती है। उन्होंने इस बात पर बल ➤➤ शेष पृष्ठ 7 पर ➤

प्रदेश में 155 पीजी बॉन्डेड चिकित्सकों की संविदा नियुक्ति

■ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में होगा महत्वपूर्ण सुधार

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। राज्य शासन द्वारा चिकित्सा स्नातकोत्तर (एम.डी./एम.एस./डिप्लोमा) पाठ्यक्रम में प्रवेशित एवं वर्ष 2025 की विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित हुए पीजी बॉन्डेड चिकित्सकों को उनके अनुबंध की शर्तों के अनुरूप संविदा आधार पर नियुक्त किया गया है। इस संबंध में कुल 155 चिकित्सकों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं, जिनकी सेवाएं आगामी आदेश तक प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में ली जाएंगी।

इन नियुक्तियों के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में महत्वपूर्ण सुधार होगा। विशेष रूप से जिला अस्पतालों को इन नियुक्तियों का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और रोगियों को समय पर आवश्यक उपचार उपलब्ध हो सकेगा।

जारी आदेशानुसार, प्रथम चरण की काउंसलिंग में 133 तथा द्वितीय चरण में 22, इस प्रकार कुल 155 पीजी बॉन्डेड चिकित्सकों की संविदा नियुक्ति की गई है। इन्हें राज्य के जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थापित किया गया है।

रूस से तेल आयात बंद करें नाटो देश: ट्रंप

■ चीन पर भी 100 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगाने का किया आह्वान

वाशिंगटन, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के सदस्य देशों से रूस से कच्चे तेल का आयात बंद करने और चीन पर 50 से 100 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगाने का आह्वान किया।

श्री ट्रंप ने ट्रुथसोशल पर शनिवार को नाटो देशों को लिखे एक पत्र को सार्वजनिक किया है। इसमें नाटो पर रूस के खिलाफ जीतने के लिए अपनी पूरी प्रतिबद्धता न दिखाने का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि कुछ देशों का रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखना 'स्तब्धकारी' है। उन्होंने सभी नाटो देशों के तैयार होने के बाद रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की भी बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस से तेल खरीद जारी रखने से उसके साथ 'आपकी सौदेबाजी की क्षमता' प्रभावित होती है। उन्होंने कहा है कि वह रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं और नाटो देश जब इसके लिए तैयार हों तो बता दें। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा नाटो देशों को एक समूह के रूप में चीन पर 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगाना चाहिये जिसे बाद में यूक्रेन-रूस युद्ध की समाप्ति के बाद पूरी तरह हटा लिया जाना चाहिए। उनकी राय में यह कदम इस युद्ध को समाप्त करने में बेहद मददगार होगा।

18 से शुरू होगी राजिम से रायपुर के लिए ट्रेन

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। छत्तीसगढ़ के रेलयात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. जहां नवापारा-राजिम से रायपुर के लिए ट्रेन शुरू होने जा रही है.सीएम

■ सीएम साय दिखाएंगे हरी झंडी

विष्णु देव साय 18 सितंबर सुबह 11 बजे हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करेंगे।

नवापारा- राजिम क्षेत्रवासियों के लिए इंतजार की खत्म अब खत्म होने वाली है. 18 सितंबर से राजिम से रायपुर के बीच ट्रेन शुरू होने जा रही है. सीएम विष्णु देव साय राजिम से 11 बजे हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। जिसकी ➤➤ शेष पृष्ठ 7 पर ➤

एमबीबीएस-बीडीएस में एडमिशन का दूसरा राउंड शुरु

■ 938 सीटों के लिए 17 सितंबर तक पंजीयन

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। छत्तीसगढ़ में नीट-यूजी 2025 के तहत एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए दूसरा चरण काउंसलिंग का कल यानी 13 सितंबर से आगाज हो गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बताया कि पहले राउंड के बाद राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में 938 सीटें खाली रह गई हैं। अब इन सीटों को भरने के लिए पात्र अभ्यर्थियों को दोबारा मौका दिया जा रहा है।

इस बार हर चरण में विद्यार्थियों को नया पंजीयन करना होगा। इसके लिए अंतिम तिथि 17 सितंबर तय की गई है, जबकि कॉलेज/संस्था चयन की डेडलाइन 18 सितंबर रखी गई है। पहले से पंजीकृत उम्मीदवार भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वहीं, पहले से दाखिला ले चुके छात्रों को अपग्रेडेशन का विकल्प दिया जाएगा।

सीटों का आवंटन-चिकित्सा शिक्षा आयुक्त ने बताया कि काउंसलिंग से संबंधित सभी जानकारी, रिक्त सीटों की सूची और शेड्यूल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। सीटों का आवंटन पूरी तरह प्रावीण्यता के आधार पर राज्य स्तरीय काउंसलिंग समिति द्वारा किया जाएगा।

3 मेडिकल कॉलेजों में बढ़ीं सीटें-राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग मेडिकल असेसमेंट एवं रेटिंग बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद राज्य के तीन मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाई गई है, जिसमें श्री शंकराचार्य इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भिलाई 150 से बढ़कर 200 सीटें, अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च, भिलाई 100 से बढ़कर 150 सीटें, श्री बालाजी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रायपुर 150 से बढ़कर 250 सीटें।

टैरिफ वार *अमेरिका के 50 फीसदी आयात शुल्क लगाने से सामने आ रही चुनौतियां*

दूसरे देशों के रास्ते विकल्प तलाश रहे सर्राफा व्यापारी

60 से 70 फीसदी गहनों का निर्यात अमेरिका को किया जाता है

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगने के बाद भारतीय सर्राफा व्यापारी दूसरे देशों के रास्ते वहां अपने सोने-चांदी के जेवरात निर्यात करने के विकल्प तलाश रहे हैं।

दिल्ली के भारत मंडपम में शनिवार से गहने-जेवरातों की तीन दिवसीय प्रदर्शनी 'अपना दिल्लीवाला शो' के उद्घाटन के बाद आयोजकों ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि देश का 60 से 70 प्रतिशत गहनों का निर्यात अमेरिका को किया जाता है। निश्चित रूप से अमेरिका के 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने से चुनौतियां सामने आई हैं, लेकिन उसके लिए वैकल्पिक बाजार तलाशे जा रहे हैं। प्रदर्शनी की आयोजक कंपनी इनफॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया के प्रबंध निदेशक योगेश मुद्रास ने कहा कि अमेरिका में सऊदी अरब से भी सोने और हीरे के जेवरातों का आयात किया जाता है। वहां भारतीय कारीगर भी इस उद्योग में बड़ी संख्या में काम करते हैं। सर्राफा कारोबारी अब ऐसे ही देशों को निर्यात बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।

***यूरोपीय संघ के देश शामिल** - इनमें ब्रिटेन, यूरोपीय संघ के देश और पश्चिम एशिया के देश शामिल हैं। हालांकि उन्होंने उम्मीद जतायी कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार पर जारी वार्ता सफल रहेगी। सोने की ऊंची कीमतों के प्रभाव के बारे में पूछे गये एक सवाल के जवाब में द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (टीबीजेए) के चेयरमैन रामअवतार वर्मा ने कहा कि सोने के दाम फिलहाल घटने की संभावना नहीं है।*

***सोने की वास्तविक मांग कम हुई**- उन्होंने कहा, सोने ने पहले भी कई मौकों पर 'लंबी छलांग' लगाई है और उसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि अब यह नीचे आएगा। लेकिन सोना कभी वापस नीचे नहीं आया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में सोने की वास्तविक मांग कम हुई है, लेकिन दाम बढ़ने के कारण राजस्व लगातार बढ़ रहा है।*

टीबीजेए के सीनियर चेयरमैन नवीन कुमार जिंदल ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर में हाल में किये गये सुधारों में सोने पर कर कम नहीं किया गया। उन्होंने कहा सोने पर जीएसटी तीन प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि जब सोने के दाम कम थे उसकी तुलना में अब इस पर जीएसटी से सरकार को कई गुणा आमदनी हो रही है। इसलिए इस पर कर कम करके सरकार इस उद्योग का समर्थन कर सकती है।

उवाच

"यह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों पर सीधा हमला है। सरकार जितना अधिक युवाओं का दमन करेगी, बिहार के युवा उतनी ही ताकत से इसका जवाब देंगे। आने वाले समय में यह जनविरोधी सरकार सत्ता से बाहर होगी।"

–कुणाल, भाकपा-माले के राज्य सचिव

तापमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली	35.0	26.0
मुंबई	28.0	26.0
कोलकाता	31.0	27.0
चेन्नई	30.0	27.0

मोदी का मणिपुर दौरा बहुत देर से उठाया गया कदम : प्रियंका गांधी

■ **मणिपुर दौरे में देरी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को लिया आड़े हाथ**

वायनाड, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की महासचिव और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मणिपुर दौरे में देरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। प्रियंका गांधी ने शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि आखिरकार उन्होंने दो साल बाद यह फैसला लिया कि उनके दौरे का कुछ फायदा है। उन्हें बहुत पहले ही यह दौरा कर लेना चाहिए था। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने दौरा करने से पहले ही वहां इतने लंबे समय तक यथास्थिति बने रहने दिया, जिसके परिणामस्वरूप इतने सारे लोग मारे गए और असंख्य लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा।

मोदी को बहुत पहले ही सोचना चाहिए था

प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्रियों की यह परंपरा नहीं रही है। चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, जब भी कोई दुखद घटना घटित होती थी, वे जाते थे। आजादी के बाद से यही परंपरा रही है। इसलिए दो साल बाद यह जिम्मेदारी निभाना बहुत कम और बहुत देर से उठाया गया कदम है। मुझे लगता है कि उन्हें इस बारे में बहुत पहले ही सोचना चाहिए था। सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार को वायनाड पहुंचीं और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढने के उद्देश्य से 10 दिवसीय दौरे पर अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में डेरा

मुझे खुशी है कि आखिरकार मोदी ने दो साल बाद यह फैसला लिया कि उनके दौरे का कुछ फायदा है : प्रियंका गांधी वाड्रा

जमाई हुई हैं। वह स्थानीय निवासियों से भी बातचीत कर रही हैं ताकि उनकी चिंताओं को समझा जा सकें और उनके समाधान में आने वाली बाधाओं की पहचान की जा सकें। वहीं कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने नागपुर में ओबीसी की बैठक पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज नागपुर में ओबीसी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में हम मोर्चा को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। हमने सभी सीमाओं को परे रखकर इस बैठक में सभी पार्टी के नेताओं को शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया है। जिस तरह से ओबीसी आरक्षण में किसी दूसरे को घुसाने की कोशिश की गई, वो निंदनीय है। दूसरी तरफ, जहां ये लोग मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, तो वहीं ओबीसी समुदाय को यह कहकर आश्वस्त कर रहे हैं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आपके हितों पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दो रोटियां हैं, लेकिन खाने वाले पांच हैं। तो ऐसी स्थिति में अब सरकार क्या हासिल करना चाहती है। जिस तरह से मौजूदा समय में रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, उसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हमारे पास कई ऐसे नेताओं के नाम हैं जो अभी ओबीसी का प्रमाणपत्र लेकर घूम रहे हैं।

हिंसा के दौरान नहीं ली लोगों की सुध : विजय वडेट्टीवार

कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने मोदी के मणिपुर आगमन की आलोचना की। विजय वडेट्टीवार ने बातचीत में कहा कि जब मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा था, वहां के लोगों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। तब प्रधानमंत्री ने वहां जाने की जरूरत नहीं समझी और आज जब वहां पर हालात सामान्य हो रहे हैं, स्थिति पटरी पर आ रही है, तो प्रधानमंत्री वहां गए। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मणिपुर की जातीय हिंसा में करीब 250 से भी ज्यादा लोग मारे गए। कई महिलाओं की अस्मत लूटी गई। लेकिन, अफसोस, तब प्रधानमंत्री ने वहां के लोगों की सुध लेने की जरूरत नहीं समझी। जब मणिपुर को मोदी की आवश्यकता थी, तब उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।

भाजपा दफ्तर के बाहर संविदा कर्मियों ने किया प्रदर्शन

पटना, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। पटना में शनिवार को भापजा कार्यालय के बाहर विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन से ठीक पहले हुआ। नड्डा पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने वाले थे। हंगामे के कारण नड्डा ने भाजपा दफ्तर में बैठक नहीं की। भाजपा दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे कर्मियों से बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मुलाकात की। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करते हुए आश्वासन दिया कि वे इस मामले में विभागीय मंत्री से चर्चा करेंगे। हंगामे के कारण जेपी नड्डा के कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है।

जेपी नड्डा ने भाजपा दफ्तर नहीं बल्कि सर्किट हाउस में ही पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बता दें कि दो दिन पहले भी इसी स्थान पर संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन किया था, जिसके दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया था। इस दौरान कई कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। अब राजस्व विभाग की ओर से इन कर्मियों को राहत मिलती नजर आ रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन संविदाकर्मियों की सेवा समाप्त की गई थी, वे अब इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इसके लिए वे कार्यालय समय में विभाग में उपस्थित होकर या ईमेल के माध्यम से पर अपना अपील अभ्यावेदन भेज सकते हैं। अब तक 100 से अधिक संविदाकर्मी अपील प्रस्तुत कर चुके हैं, और अन्य बर्खास्त कर्मियों को भी विभिन्न माध्यमों से सूचना दी जा रही है ताकि वे इस प्रक्रिया में शामिल हो सकें। इस निर्णय से विशेष सर्वेक्षण अमीन, कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और लिपिक वर्ग के उन संविदा कर्मियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें हड़ताल के कारण सेवा से हटा दिया गया था।

जम्मू-कश्मीर में मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़

■ **एनसीबी ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार**
■ **10.7 किलोग्राम से अधिक चरस की जब्त**

श्रीनगर, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। जम्मू-कश्मीर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), श्रीनगर जोन ने दक्षिण कश्मीर में मादक पदार्थ के एक बड़े तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया और 10.7 किलोग्राम से अधिक चरस जब्त की। अधिकारियों ने बताया कि एक विशेष खुफिया सूचना के आधार पर, एनसीबी ने 19 अगस्त को अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके में एक लक्षित अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 10.735 किलोग्राम चरस जब्त की गई। यह इस साल की सबसे बड़ी चरस बरामदगी में से एक है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिजबेहरा अनंतनाग निवासी फिरदौस, लाल बाजार, श्रीनगर निवासी जान मोहम्मद बाबा और श्रीगुफवारा, अनंतनाग निवासी मोहम्मद लतीफ के रूप में हुई है। एनसीबी ने एक बयान में कहा कि आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जाँच से पता चला है कि फिरदौस पर पहले भी बिजबेहरा पुलिस स्टेशन और एनसीबी जम्मू में दर्ज अन्य एनडीपीएस मामलों में मामला दर्ज है, और जान मोहम्मद बाबा पर पहले एनसीबी जम्मू द्वारा दर्ज एक एनडीपीएस मामले में मामला दर्ज है। बयान में कहा गया है, मामले में आगे-पीछे के संबंधों की पहचान के दौरान यह पता चला कि उक्त प्रतिबंधित पदार्थ मोहम्मद लतीफ नामक व्यक्ति से खरीदा गया था, जिसे भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और वह अवैध माध्यमों से इसके अंतर-राज्यीय परिवहन में भी मदद कर रहा था। यह जब्ती एनसीबी के श्रीनगर कार्यालय के महत्व को रेखांकित करती है, जिसे जम्मू-कश्मीर में नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने की केंद्र सरकार की रणनीति के तहत स्थापित किया गया है। एनसीबी नशीली दवाओं के व्यापार और उससे जुड़ी गतिविधियों को रोकने, युवाओं को इसके हानिकारक प्रभावों से बचाने और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में मज़बूत अंतर-एजेंसी समन्वय स्थापित करने और सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सार संक्षेप

जम्मू-कश्मीर के गंदरबल में जालसाज गिरफ्तार

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के गंदरबल जिले में पुलिस ने शनिवार को एक जालसाज को मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है जिसने कथित तौर पर खुद को उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी बताकर नौकरी दिलाने के नाम पर आम लोगों से धोखाधड़ी की है। पुलिस के मुताबिक गंदरबल पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है, आरोपी की पहचान गंदरबल के बाकुरा निवासी इलियास हमीद भट की रूप में हुई।

कोल्हापुर में व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या

कोल्हापुर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फुलेवाड़ी रिंग रोड के गंगई लॉन में शनिवार सुबह सात से अधिक लोगों ने धारदार हथियारों से हमला करके एक घोषित अपराधी की नृशंस हत्या कर दी, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने कहा कि सात से अधिक लोगों के एक समूह ने 27 वर्षीय महेश राख पर कई हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि यह हमला एक पुरानी रंजिश के चलते किया गया है। हमले में एक और युवक गंभीर रूप से घायल है। महेश राख ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि घायल व्यक्ति इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, आगे की जांच चल रही है।

नंदकिशोर ने हिंदी दिवस की दी बधाई व शुभकामना

पटना। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नन्द किशोर यादव ने शनिवार को हिंदी भाषियों, हिंदी के विद्वतजनों, साहित्यकारों और हिंदी प्रेमियों को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। यादव ने कहा कि हिंदी न केवल एक भाषा है बल्कि यह भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। यह दिन हमें अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व और सम्मान की भावना विकसित करने का अवसर प्रदान करता है।

भाजपा नेता की कार से करोड़ों का नशीला पदार्थ बरामद

आगर मालवा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा कोतवाली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा नेता की कार से करोड़ों रुपए कीमत का केटामाइन, एम.डी. ड्रग्स, केमिकल्स और प्रयोगशाला उपकरण जब्त किए हैं। हालांकि भाजपा नेता मौके से भागने में सफल हो गया। पुलिस के अनुसार 12 सितम्बर को मुखबिर की सूचना पर गणेश गौशाला, आगर-बड़ौद रोड पर खड़ी आर्टिगा कार और इग्निस कार की घेराबंदी की गई। पुलिस को देखते ही आर्टिगा कार चालक और भाजपा नेता राहुल आंजना भाग निकला, जबकि ईश्वर मालवीय निवासी थडौदा और दौलत सिंह आंजना निवासी गुराडिया बड़ौद को गिरफ्तार कर लिया गया।

सेनिया घराने के उमाशंकर बिस्मिलाह खां पुरस्कार से सम्मानित

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सितार वादक उमाशंकर को बिहार सरकार द्वारा बिस्मिलाह खां (स्थापित) पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें यह पुरस्कार कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर एक उत्कृष्ट कलाकार के रूप में राज्य का मान बढ़ाने के लिए सन् 2023-24 के लिए प्रदान किया जा रहा है। उमाशंकर सेनिया घराने के ख्यातनाम सितार वादक पद्मभूषण पं. देबू चौधरी के शिष्य हैं। इस घराने की जड़ें अकबर के नवरत्नों में शुमार तानसेन से जुड़ी हुई हैं। वाद्य संगीत सितार की इनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना में पंडित आशीष चटर्जी के सानिध्य में हुई। उमाशंकर ने भारत के अनेक छोटे बड़े शहरों के साथ ही अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, डेनमार्क, चीन, सउदी अरब, सिंगापुर जैसे कई देशों में भारतीय शास्त्रीय संगीत का परचम लहराया है। उमाशंकर ने रंगमंच के संगीतकार के रूप में भी उमाशंकर ने बहुत ख्याति अर्जित की है। इन्होंने दिल्ली की दीवार, सूरज का सातवां घोड़ा, सौदागर, नुगरा का तमाशा, नदी के द्वीप, राम की शक्ति पूजा, कनुप्रिया, छाया शकुंतला जैसे हिन्दी के कई प्रसिद्ध नाटकों में संगीत दिया है। निराला, अज्ञेय, कुमार अनुपम आदि हिन्दी के अनेक नामचीन कवियों की कविताओं को संगीतबद्ध किया और उनका नाट्य प्रदर्शन कर एक नये कलेवर में ढाला है।

चुनावी राजनीति करती है भाजपा : तेजस्वी

■ **नड्डा व प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर साधा निशाना**

पटना, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह लोग चुनाव के वक्त ही बिहार को याद करते हैं। चुनाव बीतते ही बिहार को भूल जाते हैं। इस बार जितनी बार भी आएंगे, जनता उन्हें खाली हाथ वापस भेज देगी। तेजस्वी ने आगे कहा कि भाजपा केवल चुनावी राजनीति करती है और जनता की सेवा के लिए उसका कोई विजन नहीं है। उन्होंने दोहराया कि इस बार बदलाव निश्चित है क्योंकि जनता बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध से ऊब चुकी है।

बिहार अधिकार यात्रा से लाएंगे बदलाव

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बेबाक राय व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने 16 सितम्बर से शुरू होने वाली बिहार अधिकार यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही, उन्होंने भाजपा नेताओं के प्रस्तावित बिहार दौरे पर तल्ख टिप्पणी की। बिहार अधिकार यात्रा को लेकर सवाल किए जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछली बार हमारी यात्रा 20 से अधिक जिलों तक हुई थी। अब जो जिले छूट गए थे, वहां जाएंगे और जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। यात्रा के नाम में बदलाव को लेकर उन्होंने कहा कि यह उनकी पार्टी की अलग यात्रा है और संयुक्त यात्राओं से अलग है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इस बार बिहार में निश्चित तौर पर बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अपराध से परेशान हैं। प्रदेश में जिस तरह से भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा है, लोग निराश हैं और मौजूदा सरकार से गुस्सा है। ऐसे में इस बार बदलाव निश्चित है। नेपाल की हालिया राजनीतिक स्थिति पर बात करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वहां की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। हम आशा करते हैं कि वे नेपाल की जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। नई सरकार लोगों के सपनों को पूरा करेगी।

यह लोग चुनाव के वक्त ही बिहार को याद करते हैं, चुनाव बीतते ही बिहार को भूल जाते हैं : तेजस्वी यादव

एनडीए के लिए आखिरी यात्रा साबित होगी बिहार अधिकार यात्रा : मृत्युंजय तिवारी

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव की बिहार में शुरू होने वाली बिहार अधिकार यात्रा को राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एनडीए के लिए आखिरी यात्रा बताई है। बिहार की राजधानी पटना में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव 16 से 20 सितम्बर तक बिहार अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं। इस यात्रा का मुख्य मुद्दा वोट चोरी, महंगाई, गरीबी, पलायन, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे होंगे। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा में जो जिले छूट गए थे, उन जिलों में तेजस्वी यादव जाएंगे। वहां की जनता की मांग पर वे यात्रा करेंगे। पिछली यात्रा में वे उन जिलों तक नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए अब तेजस्वी यादव उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे। यह बिहार के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। वोट का अधिकार, जो बिहार की जनता से छीना जा रहा है, उसके खिलाफ यह यात्रा है।

हर गांव तक यह बात पहुंच गई कि वोट चोरी से जीते जा रहे चुनाव : गहलोत

■ **कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान का किया जिक्र**

जयपुर, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान का जिक्र करते हुए कहा है कि यह बात हर गांव तक पहुंच गई कि वोटों की चोरी हो रही है इसलिए चुनाव जीते जा रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। गहलोत शनिवार को यहां पीसीसी मुख्यालय पर प्रदेश कांग्रेस की इस अभियान पर आयोजित बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबसे पहला काम होता है चुनाव आयोग का कि वह निष्पक्ष चुनाव कराए, कोई पार्टी जीते, कोई उम्मीदवार जीते अलग बात है, फिर जिस प्रकार का व्यवहार किया गया ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रश्न उठाया कि हमें मशीन रीडेबल नहीं दे रहे हो, वर्ना हम फटाफट इस काम को कर सकते थे, हमें मजबूरी में छह महीने लगे, छह महीने में नतीजे पर पहुंचे हम लोग, लगभग एक लाख फर्जी वोट निकले अगर चुनाव आयोग उस वक्त जांच करवा देता तो उसमें कितने वोट कहां गड़बड़ हुई कहां नहीं हुई स्पष्ट हो जाता। गहलोत ने कहा कि पहले शक था इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन पर देशवासियों को क्योंकि अब अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी जापान सब जगह वोट बैलेट से होता है।

चुनाव आयोग की गलतियों से बना गंभीर बिन्दु

गहलोत ने कहा कि आजादी के वक्त पाकिस्तान बना था तब कितने लोग हिन्दुस्तान आए होंगे कितने लोग पाकिस्तान गए होंगे तब भी इलेक्शन कमीशन ने चुनाव करवा दिए जबकि शिक्षा नहीं थी उस वक्त में, लोग चिह्न को नहीं समझते और पढ़ नहीं सकते थे, उससे लगाकर आज तक का इतिहास है, चुनाव लगातार हो रहे हैं, चुनाव आयोग के जो चेयरमैन और उनके जो मेंबर हैं उनकी गलतियों से उनके व्यवहार से यह स्थिति बनी है देश के अंदर और यह इतना गंभीर बिन्दु बन गया।

नफरत फैलाने वालों की खैर नहीं : सिद्धारमैया

मैसूर, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भड़काऊ भाषणों के खिलाफ कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी भी धर्म या राजनीतिक का हो। भाजपा नेता सीटी रवि और निलंबित भाजपा विधायक बसनगौड़ा यतनाल पर कथित भड़काऊ बयानों के लिए दर्ज की गई एफआईआर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि मैं भी एक हिंदू हूं और मेरे नाम में ईश्वर और राम का नाम है लेकिन शांति बनाए रखना जरूरी है। जब भाजपा नेता भड़काऊ बयान देते हैं तो पुलिस क्या करे यह राजनीति नहीं है; यह सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा के बारे में है। उन्होंने यह टिप्पणी गणेश जुलूस के दौरान हसन रोड हादसे में कई लोगों के मारे जाने के बाद की।

प्लेटफॉर्म कोचिंग के संचालक 2.40 करोड़ की धोखाधड़ी में गिरफ्तार

पटना, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। पटना के पीरबहोर इलाके से हरियाणा पुलिस ने प्लेटफॉर्म कोचिंग के संचालक संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। उन पर 2.40 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने और एक साइबर ठगी गिरोह से जुड़े होने का आरोप है, जो आम लोगों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगता था। इस गिरोह का मामला सबसे पहले हरियाणा के रोहतक थाने में सामने आया था, जिसके बाद जांच के आधार पर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। पुलिस पूछताछ के दौरान संजय सिंह ने पहले खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया, लेकिन जब उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स सामने रखी गईं, तो वे चुप हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कबूल किया कि वे आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे और मजबूरी में इस गिरोह से जुड़ गए। उन्होंने बताया कि उनका काम सिर्फ ठगी से आए पैसे मंगाने का था। पूछताछ में संजय ने गिरोह के मुख्य सरगना के बारे में भी खुलासा किया है, जो बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। हरियाणा पुलिस अब कोर्ट की प्रक्रिया पूरी कर आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर हरियाणा ले जाएगी। इस मामले में पुलिस ने एक और युवक को शक के आधार पर हिरासत में लिया था, लेकिन उसकी संलिप्तता सामने नहीं आई। उसने पूछताछ में बताया कि उसने पहले ही संजय सिंह को इस काम से मना किया था। गिरफ्तार संचालक ने अपने कोचिंग संस्थान के लिए बनाए गए ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में ठगी से कमाए पैसे मंगवाए थे। पुलिस को उसके मोबाइल से कई संदिग्ध नंबर और डिजिटल सबूत भी मिले हैं।

साइबर ठगी गिरोह से जुड़े होने का आरोप

चिंता कश्मीर के बागवान अब असामान्य मौसम पैटर्न से जूझने को मजबूर

पेड़ों से सेबों के अचानक झड़ने की धटना से किसान चिंतित

■ **सुरेश एस डुग्गर**

जम्मू, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। कभी बाढ़, कभी गर्मी और कभी सूखे से परेशान कश्मीर के बागवान अब असामान्य मौसम पैटर्न से जूझने को मजबूर हैं। जिसका परिणाम यह है कि उनकी कीमती फसल सेब पेड़ों से अपने आप झड़ रही है। यह पूरी तरह से सच है कि कश्मीर भर के सेब उत्पादक नए संकट से जूझ रहे हैं।

क्योंकि कटाई के मौसम के चरम पर बागों से बड़े पैमाने पर फल गिरने की खबरें आई हैं। पहले से ही खराब मौसम, कीटों के प्रकोप और परिवहन व्यवधानों से जूझ रहे किसानों का कहना है कि यह अप्रत्याशित घटना उन्हें भारी आर्थिक नुकसान की ओर धकेल रही है। कई महीनों से, घाटी के बागवान लंबे समय तक सूखे, ओलावृष्टि, तेज हवाओं और स्पाइडर माइट व रस्टिंग जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। राजमार्ग बंद होने से आपूर्ति श्रृंखला और भी बाधित हो गई, जिससे देरी हुई और माल ढुलाई की लागत बढ़ गई। अब, जब बागवान अपनी साल भर की मेहनत का फल लेने के लिए तैयार थे, सेब की अचानक गिरावट ने उन्हें स्तब्ध कर दिया है। शोपियां के बागवान अब्दुल राशिद ने बताया कि मैंने अपने जीवन में पहली बार पेड़ों से इस तरह सेब गिरते हुए देखा है। हमने पूरे साल कड़ी मेहनत की, कीटों और शुष्क मौसम से लड़ा, लेकिन अब कटाई के दौरान लंबे समय तक बारिश के कारण फल बड़ी संख्या में गिर गए हैं। यह दिल दहला देने वाला है। किसानों का कहना है कि गिरे हुए सेब तुरंत अपनी गुणवत्ता खो देते हैं और दोयम दर्जे के सेब बन जाते हैं, जिससे बाजार में उनकी कीमत बेहद कम मिलती है। पुलवामा के एक उत्पादक गुलाम नबी कहते थे कि हमने पहले भी मौसम और कीटों से होने वाले नुकसान का सामना किया है, लेकिन फलों का अचानक गिरना बिल्कुल नई बात है। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो हम अपनी उपज का एक बड़ा हिस्सा खो सकते हैं। हमारे परिवार पूरी तरह से इन बागों पर निर्भर हैं, और इस तरह के नुकसान से हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। वैसे कृषि विशेषज्ञ इस संकट के पीछे असामान्य मौसम पैटर्न को मुख्य कारण बताते हैं।

■ **भारी आर्थिक नुकसान की ओर धकेल रही अप्रत्याशित घटना**

उनका कहना है कि लंबे समय तक नमी की स्थिति फलों के तने और जुड़ाव को कमज़ोर कर देती है, जिससे समय से पहले ही सेब गिर जाते हैं। बागवानी वैज्ञानिक डा. शब्बीर अहमद डार ने बताते थे कि फसल के दौरान लगातार बारिश से पेड़ों पर शारीरिक दबाव पड़ता है। मिट्टी व हवा में नमी का असंतुलन सीधे फल धारण क्षमता को प्रभावित करता है। लेकिन हमें इसकी सीमा का आकलन करने और भविष्य के लिए निवारक उपाय सुझाने के लिए व्यवस्थित क्षेत्र सर्वेक्षण की आवश्यकता है।

हालांकि बागवानी विभाग के अधिकारियों ने कई जिलों से संकटकालीन काल प्राप्त होने की बात स्वीकार की। एक वरिष्ठ बागवानी अधिकारी ने कहा कि हालांकि अत्यधिक वर्षा तत्काल कारण प्रतीत होती है, हम मिट्टी के पोषण और बाग प्रबंधन प्रथाओं जैसे अन्य कारकों का पता लगाने के लिए काम करेंगे।

उल्टा पुल्टा

बंता - तुम खाली पेट होने पर कितने केले खा सकते हो...?
संता (कुछ पल सोचकर कहा) - मैं 6 केले खा सकता हूं।
बंता ने हंसते हुए जवाब दिया - गलत जवाब दोस्त,पहला केला खा लेने के बाद तुम्हारा पेट खाली कहां रहेगा...? इसलिए खाली पेट होने पर तुम केवल एक ही केला खा सकते हो।

भाजपा सरकार बिजली दर में बढ़ोतरी वापस ले : महंत

बिजली हाफ योजना बंद करना जनता से बेमानी है

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि, प्रदेश में बिजली की कीमतों में प्रति यूनिट 20 पैसे की बढ़ोतरी ने आम जनता के साथ-साथ राज्य के किसानों की भी कमर तोड़ दी है। इस वृद्धि ने घरेलू उपभोक्ताओं, उद्योगों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से,कृषि क्षेत्र को सीधे प्रभावित किया है, जिससे राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। ऊर्जा विभाग स्वयं मुख्यमंत्री विशणुदेव साय के पास है। ऊर्जा विभाग के वर्तमान आकड़े अनुसार एकल बत्ती 15-लाख 16-हजार 283, कृषि पम्प कनेक्शन 5-लाख 94-हजार 277, एल.टी(घरेलु) कनेक्शन 63-लाख 45-हजार 448, एच.टी(व्यवसायिक) कनेक्शन 3-हजार 8-सौ 99 है।

मूल्य वृद्धि का कोई ठोस कारण नही है

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि, यह वृद्धि तब हुई है जब छत्तीसगढ़ कोयला और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। हम न केवल अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि इन संसाधनों की आपूर्ति दूसरे राज्यों को भी करते हैं। ऐसे में बिजली मूल्य वृद्धि का कोई ठोस कारण नहीं दिखता, महंगाई के इस दौर आम जनता आर्थिक बोझ से परेषान है।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि, प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा हमारी 'बिजली हाफ योजना' को बंद करने से जनता पर आर्थिक बोझ की दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ, बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं, वहीं दूसरी तरफ रियायती योजना को लगभग खत्म कर दिया गया है, जिससे आम नागरिकों और किसानों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं।बिजली दरों में लगातार हो रही वृद्धि ने घरेलू बजट को बुरी तरह प्रभावित किया है और छोटे व्यवसायों की लागत कई गुना बढ़ गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। इस अप्रत्याशित वृद्धि से आम नागरिकों में भारी असंतोष है, क्योंकि उनकी दैनिक जीवन की लागत लगातार बढ़ती जा रही है।

किसानों पर प्रभाव

श्री महंत ने कहा कि, कृषि प्रधान राज्य होने के नाते, छत्तीसगढ़ के किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर बिजली पर निर्भर हैं। बिजली की बढ़ती कीमतें सीधे तौर पर उनकी उत्पादन लागत में वृद्धि कर रही हैं।कई छोटे और सीमांत किसान अब अपनी फसलों की सिंचाई के लिए बिजली का खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी पैदावार और आजीविका पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। यह स्थिति न केवल किसानों की आर्थिक स्थिरता को चुनौती देती है, बल्कि राज्य की खाद्य सुरक्षा को भी खतरे में डालती है।

उन्होंने कहा सरकार बढ़ी हुई बिजली दरों को तुरंत वापस ले। किसानों के लिए कृषि पंपों पर विशेष सब्सिडी या रियायती बिजली दर लागू करे। किसानों के लिए कृषि पंपों पर विशेष सब्सिडी या रियायती बिजली दर लागू करे। राज्य में बिजली उत्पादन और वितरण प्रणाली में सुधार किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी वृद्धि को रोका जा सके।

दस सालो में पहली बार होगी सितंबर में मानसून की विदाई

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)।प्रदेश में कर्ब तीन माह तक बरसे मानसूनी बादलों ने अब विदाई की राह पकड़ ली है।दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई का शुरुआत पश्चिमी राजस्थान से 15 सितंबर से होने की संभावना है। इस वर्ष मानसून की विदाई की शुरुआत पिछले 10 सालों में पहले होने की संभावना बन रही है।

मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दाब का क्षेत्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश-दक्षिण तटीय उड़ीसा के ऊपर स्थित है तथा इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा और उससे लगे उत्तर आंध्र प्रदेश तथा दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों में पहुंचने की संभावना है। मानसून द्रोणिका माध्य समुद्र तल पर श्रीगंगानगर, रोहतक, सिवनी,

राजनांदगांव और उसके बाद पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में स्थित निम्न दाब के केंद्र तक स्थित है। एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पश्चिम विहार और उससे लगे झारखंड के ऊपर 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है।

एक द्रोणिका पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में स्थित निम्न दाब के केंद्र से उत्तर आंध्र प्रदेश विदर्भ तक छत्तीसगढ़ होते हुए 3.1 किलोमीटर से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है।

प्रदेश में आज हल्की से मध्यम वर्षा होगी

प्रदेश में कल 14 सितंबर को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।

प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने तथा भारी वर्षा होने की संभावना है। भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्यत: सरगुजा संभाग के जिले और बस्तर संभाग के जिले संभावित है।

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर रायपुर में लाखों की ठगी

दो महिलाओं ने ट्रासपोर्टर को ठगा

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)।शेयर मार्केट में निवेश पर चार गुना मुनाफा देने का झांसा देकर राजधानी के ट्रांसपोर्टर डाकेश्वर सिंह से 71.50 लाख की ऑनलाइन ठगी हो गई ट्रांसपोर्टर की सोशल मीडिया में श्रेया नाम की युवती से दोस्ती हुइ उसने शेयर मार्केट की बातें शुरू की और झांसा दिया कि वह ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ी है जिसमें निवेश करने पर मोटा मुनाफा होता ह उसने कुछ स्क्रीनशॉट भी भेजे और ट्रांसपोर्टर को एक गुप्र से जोड़ दिया ट्रांसपोर्टर युवती के झांसे में आ गया उन्होंने अलग.अलग किश्तों में 19.50 लाख जमा कर दिए कुछ दिन बाद जब उसने पैसा निकालने की कोशिश की तो श्रेया ने टैक्स जमा करने की बात कही तब ट्रांसपोर्टर को अहसास हुआ कि वे ठगी के शिकार हो गए है।

इसी दौरान सोशल मीडिया पर जुड़ी एक अन्य युवती आराध्या से बातचीत हुइ उसने ट्रांसपोर्टर से कहा कि देश में अभी शेयर मार्केट के नाम पर बहुत ठगी हो रही है इसलिए किसी पर भरोसा न करें आराध्या ने दावा किया कि वह अधिकृत कंपनी से जुड़ी हुई ह ट्रांसपोर्टर इस बार भी उसके झांसे में आ गया और 52 लाख से ज्यादा का निवेश कर दिया अब पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है पुलिस ने जांच शुरू कर दी है इस मामले में सरस्वती नगर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक कोटा निवासी डाकेश्वर सिंह 47 का ट्रांसपोर्ट का कारोबार है जून में उनके

सोशल मीडिया अकाउंट पर श्रेया अग्रवाल की फ्रेंड रिचेस्ट आई दोनों में वाट्सएप पर बात होने लगी श्रेया के कहने पर 2 से 15 जुलाई के बीच डाकेश्वर ने 19.50 लाख जमा कर दिए एप में 78 लाख का मुनाफा दिखने लगा इसके बाद आराध्या के कहने पर 2 से 15 अगस्त के बीच 52 लाख और जमा कर दिए दोनों युवतियां बार.बार टैक्स जमा करने का दबाव बनाने लगीं इसके बाद ही उन्हें ठगी का एहसास हुआ।

दूसरी बार में छह लाख देकर भरोसा जीता

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि पहली ठगी के कुछ दिन बाद एक अन्य महिला आराध्या अग्रवाल फेसबुक से जुड़ी कारोबारी ने उसे पहले वाली ठगी की बात बताई उसने भरोसा दिलाया कि उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म असली है उसने कारोबारी को भरोसा दिलाया कि उसके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर निवेश कर फायदा मिल सकता ह कारोबारी ने पांच लाख रुपए लगाए और तुरंत छह लाख रुपए वापस भी मिले यही भरोसा ठगों की चाल थी फिर फर्जी ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाकर कारोबारी से दो अगस्त से 31 अगस्त के बीच अलग.अलग खातों में 52 लाख रुपए और जमा करा लिए रकम वापसी मांगी तो पेनाल्टी की बात कहकर टालते रहे आखिरकार कारोबारी को दूसरी बार ठगी का अहसास हुआ और इस बार एफआईआर दर्ज कराई।

जरासी लापरवाही, पूरी जमापूंजी ले सकती हैं

ट्रांसपोर्ट कारोबारी की कहानी उन तमाम लोगों के लिए चेतावनी है जो सोशल मीडिया पर आए निवेश के ऑफर को सच मान लेते है ठग पहले भरोसा जीतते हैं फिर धीरे.धीरे रकम बढ़वाकर पूरा बैंक बैलेंस साफ कर देते हैं सिर्फएक गलत क्लिक एक झूठी दोस्ती या एक नकली ऐप किसी की जिंदगीभर की मेहनत को पल भर में लूट सकता है।

दुकान से मोबाइल चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। बीते जुलाई माह में आरंग बस स्टैंड स्थित शुभकामना मोबाइल दुकान में हुई चोरी मामले में आरंग पुलिस ने एक नाबालिग सहित 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 14 मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकल को जब्त किया है। पूरे मामले का खुलासा थाना प्रभारी राजेश सिंह ने किया। टीआई ने बताया कि 04 .05 जुलाई 2025 की रात बस स्टैंड के पास स्थित शुभकामना मोबाइल दुकान में चोरी हुई थी। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर कई कंपनियों के मोबाइल चोरी किए थे। पीड़ित की शिकायत पर आरंग पुलिस में मामला दर्ज कर जांच में लिया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर आसपास के लोगों

14 मोबाइल फोन बरामद



से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया। टीम के सदस्यों ने घटना स्थल व उसके आसपास लगे सीसीटीव्ही कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही प्रकरण में मुखबिर लगाए थे। हाल ही में जेल से रिहा हुए चोरी के आरोपियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र करने के साथ ही चोरी के पुराने आरोपियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर उनकी गतिविधियों पर निगाह रखी जा रही थी। तकनीकी विश्लेषण सहित अन्य माध्यमों से भी लगातार अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी में लगी टीम के सदस्यों को प्रकरण में संलिप्त आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों ने मंदिर हसौद रायपुर निवासी आरोपी नवीन बंजारे एवं अश्वनी बंजारे उर्फ़बंटी और एक नाबालिक को पकड़ा। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर तीनों से कड़ाई से पूछताछ करने पर तीनों ने मोबाइल दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। तीनों आरोपी अपचारी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की विभिन्न कंपनियों के कुल 14 नग मोबाइल फोन एवं घटना में उपयोग की गई बाइक सहित कुल जुमला लगभग 2,20,000६.रुपए जब्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए सभी को जेल भेजा गया।

थाना परिसर में परिवार के 5 लोगों ने की आत्महत्या की कोशिश

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर जिले से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आयी है। जहां थाना परिसर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की है। पीड़ित महिला ने गांव के दबंगों पर प्रताड़ना और हुक्का.पानी बंद करने का आरोप लगाया है। अंबागढ़ चौकी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

महिला ने दो बच्चों पर डाला पेट्रोल

इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। जहां अंबागढ़ चौकी थाना परिसर में एक महिला अपने बच्चों पर और खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि महिला का परिवार चौकी ब्लॉक के पांगरी गांव का रहने वाला है। जो कि गांव के दबंगों की शिकायत लेकर थाने पहुंची थी। इस परिवार ने दबंगों पर प्रताड़ना और हुक्का.पानी बंद करने का आरोप लगाया है। फिलहाल अंबागढ़ चौकी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

इधर भिलाई में भी अपनी पत्नी से विवाद के बाद पति ने आत्महत्या की कोशिश की है। पति ने खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग लगा ली है। जिसके कारण शख्स झुलस गया है। बताया जा रहा है कि वह पत्नी और बच्चों से मारपीट करता था। जिसकी शिकायत आज पत्नी ने महिला थाना में की थी। जिसके बाद पति ने इस तरह आत्महत्या करने की कोशिश की है। यह घटना वैशालीनगर थाना क्षेत्र की है।

बृजमोहन ने अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय जंबूरी की तैयारियों की समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)।भारतीय स्काउट्स एंड गाइड्स छत्तीसगढ़ राज्य परिषद की बैठक आज रायपुर सांसद एवं संस्था के अध्यक्ष श्री बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में आगामी कार्यक्रमों, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जंबूरी की तैयारी, सदस्यता विस्तार तथा समाजोपयोगी अभियानों पर विस्तृत चर्चा कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि युवाओं के मानसिक, शारीरिक विकास के साथ देश सेवा में कार्य कर रहे स्काउटिंग को लोग और अच्छे से जाने इस हेतु नव भारत निर्माण थीम पर मै 33 जिलों में दौरा करूंगा।

श्री अग्रवाल ने कहा कि भारतीय स्काउट्स एंड गाइड्स एक गौरवशाली संस्था है, जिससे जुड़ना स्वयं में गर्व की अनुभूति है। यह संगठन केवल अनुशासन और सेवा भाव ही नहीं सिखाता, बल्कि समाज निर्माण में भी अहम भूमिका निभाता है। इस अवसर पर राज्य मुख्य आयुक्त डा सोमनाथ यादव ने बताया कि आगामी दिनों में राज्य पुरस्कार जांच शिविर संभाग स्तर पर आयोजित किया जाएगा,वही उन्होंने बताया कि नवंबर माह में लखनऊ में आयोजित जंबूरी मे राज्य से 3 सौ से अधिक स्काउट्स गाइड्स हिस्सा लेंगे, इसी तरह प्राकृतिक आपदा में स्काउट्स गाइड्स की भूमिका को लेकर प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। डॉ सोमनाथ यादव ने बताया कि बच्चों को साहसिक कार्यों में भी हिस्सेदारी हो इस हेतु लगातार एडवेंचर कैंप आयोजित किए जा रहे है। आगामी 23 से 29 नवम्बर तक लखनऊ में होने वाली राष्ट्रीय जंबूरी में राज्य के 313 रोवर्स-रेंजर्स भाग लेंगे।

महिला वकील से पड़ोसियों ने की मारपीट

बिल्ली पालने को लेकर विवाद, पड़ोसी बोले-आरोप गलत वकील होने का धौंस दिखाती है

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)।इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहने वाली एक महिला वकील को उसके ही पड़ोसियों ने मारा है। बताया जा रहा है कि बिल्ली पालने को लेकर विवाद हुआ था। जिसके बाद बात मारपीट तक पहुंच गई। महिला वकील का आरोप है कि पड़ोसी ने उसका बाल खींचा और मारपीट के बाद मोबाइल तोड़ा गया। मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का है। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि महिला वकील होने का धौंस दिखाती है। कोई मारपीट नहीं हुई है उसके आरोप गलत है। महिला वकील के मुताबिकए उनकी सोने के चेन भी गायब है।

दोनों पक्ष ने एक.दूसरे पर लगाया आरोप-इस मामले में महिला वकील का कहना है कि उसके साथ पड़ोसी ने बेरहमी से मारपीट की है। पड़ोसियों को बिल्ली पालने को लेकर जबरन विवाद किया। फिर गाली गलौज के बाद हाथापाई शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर पड़ोसियों का कहना है कि विवाद की शुरुआत महिला वकील ने की है।

पड़ोसियों ने कहा कि महिला ने बिल्ली पाल रखा है। जो उत्पात करती है। उसे जब मना किया गया तो वह वकील हूंए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते करके कहने लगी। विवाद की शुरुआत उसने की थी। फिलहाल इस मामले में डीडी नगर पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है।

बिरगांव से 7 साल की बालिका का अपहरण

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। राजधानी के उरला से बालिका के अपहरण होने की जानकारी सामने आई है पुलिस ने मामले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर बालिका की तलाश शुरू कर दी है। बताया गया कि बालिका नाम अपहृता अवनि जोशी पिता

धर्मराज जोशी उम्र 7 वर्ष इंद्रानगर शुक्रवारी बाजार निवासी बताई गइ है। बालिका इंद्रानगर शुक्रवारी बाजार उरला में घर के पास आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रही थी जहां अंतिम बार देखी गई है एबाद रात्रि तक घर नहीं आई है, पिंक कलर का फ्रॉक पहनी है । बालिका का पता तलाश की जा रही है ।

भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के 400 शिक्षकों का आज होगा सम्मान

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। अखिल विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार के नेतृत्व में आयोजित होने वाली भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में सहयोग करने वाले शिक्षकों और प्राचार्यो का सम्मान गायत्री परिवार ट्रस्ट समता कॉलोनी रायपुर के द्वारा 14 सितंबर रविवार को गायत्री शक्तिपीठ समता कॉलोनी रायपुर में दोपहर 12 बजे किया जाएगा। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ श्री टंकाराम वर्मा और छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री रूपनारायण जी सिन्हा विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के प्रांतीय संयोजक श्री श्याम बैस ने जानकारी देते हुए बताया कि अखिल विश्व गायत्री परिवार छत्तीसगढ़ के द्वारा समूचे छत्तीसगढ़ में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसमें फिलहाल रायपुर जिले में शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा वहीं आने वाले समय में अलग-अलग स्थानो पर भी शिक्षकों का सम्मान का कार्यक्रम तय किया जाएगा।

श्री श्याम बैस ने आगे यह भी बताया कि इस परीक्षा का उद्देश्य स्कूली बच्चों में भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता पैदा करना और उन्हें इसके महान तत्वों से अवगत कराना है। साथ ही प्रदेश स्तर पर सर्वप्रथम आने वाले छात्रों को गायत्री परिवार के द्वारा हरिद्वार दर्शन और भ्रमण भी कराया जाता है।

गायत्री परिवार ट्रस्ट के मीडिया प्रभारी आरके शुक्ला ने जानकारी देते हुए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के बारे में बताया कि इस परीक्षा में बैठने से विद्यार्थियों को कई तरह के लाभ भविष्य के लिए मिलता है जिसमें विद्यार्थी भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से परिचित होते है।- व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों की पुन:स्थापना और अभिवर्धन करने की जानकारी मिलती है, युवाओं को भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक करके राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की जानकारी के साथ ही विद्यार्थियों को अपने आत्म-विकास के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह परीक्षा मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति के महत्व और मूल्यों के बारे में जानने का अवसर मिलता है, और उन्हें अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में सहयोग करने वाले शिक्षकों का सम्मान 14 सितंबर रविवार को किया जाएगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित इस परीक्षा का उद्देश्य स्कूली बच्चों में भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता पैदा करना है।

सम्मान समारोह के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आयोजित बैठक में विशेष रूप से गायत्री परिवार ट्रस्ट के सहायक प्रबंध ट्रस्टी सदाशिव हथमल ट्रस्टी श्रीमती आदर्श वर्मा जी ट्रस्टी श्री हनुमान प्रसाद जी अग्रवाल ट्रस्टी श्री दीनानाथ जी शर्मा ट्रस्टी श्री शैलेश वर्मा के साथ जिला समन्वयक लच्छू राम निषाद, परीक्षा प्रभारी श्री रामपाल तिवारी, के साथ भारी संख्या में गायत्री परिवार के पदाधिकारी और परिजन मौजूद रहेंगे।

जन्म दिन की बधाई

याशी राय को 4 वर्ष के होने पर जन्म दिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं

शुभेच्छु- दादी, बड़ी मम्मी-बड़े पापा, मम्मी-पापा, चाचा-चाची एवं परिवार

अनेकांतवाद हर व्यक्ति की आवश्यकता : मनीष सागर

रायपुर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। टैगोर नगर पटवा भवन की धर्मसभा में शनिवार को परम पूज्य उपाध्याय प्रवर युवा मनीषी मनीष सागरजी महाराज ने कहा कि व्यवहार में आपको अनेकांतवादी बनना होगा। अनेकांतवाद हर व्यक्ति की आवश्यकता है। वस्तु खुद अनेकांत है। वस्तु के अनेक गुण होते हैं। इसलिए वस्तु को अनेक नजरिये से देखना है। वस्तु अनेक पक्ष वाली होती है। उसे एक तरह से नहीं समझा जा सकता। वक्ता यदि अनेकांत वाला है तो श्रोता को भी अनेकांत वाला होना चाहिए। उपाध्याय भगवंत ने कहा कि परमात्मा ने कोई कथन कहा है तो इसके दूसरे भी आयाम है। परमात्मा के कथन को यदि एकांत से ग्रहण कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। परमात्मा के कथन को समझना होगा कि वह किस अपेक्षा से बोला गया है। इसलिए हमें जिनवाणी समझ में नहीं आती है। जिनवाणी को अनेकांत से सुनकर उस दृश्य को बनाना होगा। जब तक हम अनेकांत दृष्टि से नहीं समझेंगे, तब तक जिनवाणी समझ में नहीं आएगी। उपाध्याय भगवंत ने कहा कि सिद्धांत बनाने में कंजूसी ना करें। सिद्धांत परिपूर्ण बनाओ। सिद्धांत सही बनेगा तो आचरण में ला पाएंगे। सिद्धांत नहीं बनाएंगे तो आचरण में आएगा नहीं। लक्ष्य निर्धारित करना होगा। तभी उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप चलना शुरू करोगे। जिनवाणी को समझने का प्रयास कर रहे। जिनवाणी को नहीं समझा तो असरकारी नहीं होगी। जैन धर्म के तीन मुख्य सिद्धांत अहिंसा, अनेकांत और तीसरा अपरिग्रह है।

उपाध्याय भगवंत ने कहा कि अहिंसा को समझना थोड़ा आसान है और अपरिग्रह को भी समझा जा सकता है। अनेकांत को समझना कठिन हो जाता है। अहिंसा अर्थात किसी को सताना नहीं। किसी से हिंसा नहीं करना। वहीं जो हम वस्तु का संग्रह करते हैं। वस्तु के प्रति राग, इच्छाएं होती है यह परिग्रह है। इसके विपरीत अनासक्ति का जीवन अपरिग्रह है। अपरिग्रह को समझना इसलिए कठिन है। वस्तु खुद अनेकांत है। इसलिए वस्तु को अनेक नजरिए से देखना होता है। उस नजरिया से हम वस्तु को समझेंगे। तभी अनेकांत दृष्टि से हम वस्तु के अनेक गुण को समझ पाएंगे।

आज लिटिल मास्टर शतरंज प्रतियोगिता, ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से करेंगे पुरस्कृत

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। प्रदेश की राजधानी रायपुर में 14 सितंबर को लिटिल मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है. छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ और अंबुजा सिटी मॉल के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया है. अंबुजा सिटी मॉल में ही सुबह 11 बजे इसका आयोजन होगा. 500 रुपए इसकी एंट्री फीस रखी गई थी. ग्रैंड मास्टर थिप्से शामिल- यह आयोजन ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से के छत्तीसगढ़ आगमन पर हो रहा है. राज्य के खिलाड़ियों का शतरंज खेल के प्रति इससे मनोबल बढ़ेगा. साथ ही अर्जुन अवॉर्डी ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से की उपस्थिति से छत्तीसगढ़ के शतरंज खिलाडी अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे. 14 सितंबर को लिटिल मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है ।

सरयूपारीण ब्राम्हण सभा ने शिक्षकों का किया सम्मान

◆ **ब्राह्मण समाज के आधा दर्जन पार्षद भी सम्मानित**

रायपुर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। सरयूपारीण ब्राम्हण सभा रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रथम बार आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में 154 ब्राम्हण समाज के शिक्षकों का सम्मान करते हुए मुख्य अतिथि श्रीमती मीनल चौबे महापौर ने शिक्षकों को समाज का निर्माता बताया। उन्होंने कहा की जिसके जीवन में अच्छे शिक्षक आते हैं उस शिष्य का जीवन धन्य हो जाता हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजेश्री महंत रामसुंदर दास ने कहा की शिक्षा की जीवन भर सम्मान पाता हैं अन्य लोगों का सेवा निवृत लोग सम्मान करना भूल जाते हैं वही दूसरी ओर एक शिक्षक के पढ़ाए हुए शिक्षा के उस उस शिक्षक का सामान करते हैं। इस अवसर पर ब्राम्हण समाज के निर्वाचित बद्री प्रसाद गुप्ता, मुरली शर्मा, श्रीमती सरिता दुबे, श्रीमती स्वप्निल मिश्रा, श्रीमती ममता तिवारी देवदत्त द्विवेदी, श्रीमती सुमन पाण्डेय, का समाज के द्वारा सम्मान किया गया। साथ ही ब्राम्हण समाज के शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े सेवा निर, प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक एवं डिग्री धारो का महापौर श्रीमती मीनल चौबे, महेंद्र अग्रवाल, सुरेश शुक्ला द्वारा सम्मानित किएय गया। सरयूपारीण ब्राम्हण सभा के अध्यक्ष डॉ सुरेश शुक्ला ने कहा की यह पहला अवसर हैं जब ब्राम्हण समाज के शिक्षिकों का सम्मान ब्राम्हण सभा के द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर समाज के प्रमुख रमाकांत शुक्ला, अवध बिहारी दुबे, आर.एल द्विवेदी, व्ही के मिश्रा, आदि के साथ 154 शिक्षक शिक्षक सम्मानित किए गए। इस अवसर पर मुख्य रूप से डी एस परोहा, रमाकांत शुक्ला, अवध विहारीदुबे, राम मूरत तिवारी, कैलास तिवारी, आर एल द्विवेदी, राजेन्द्र शर्मा, व्ही के मिश्रा, शिव प्रसाद मिश्रा, प्रमोद शर्मा, उमाकांत तिवारी, संगमलाल त्रिपाठी, अभय तिवारी, के एन तिवारी, शिवम त्रिपाठी, उमाकांत पान्डेय, रमाकांत द्विवेदी बैजनाथ मिश्रा, अंकुश शुक्ला, राजीव मिश्रा, मित्रेशदुबे, प्रवीण चौबे, कुसुम त्रिपाठी, बृजेश त्रिपाठी, अपर्णा तिवारी, शशि मिश्रा, प्रमिला शुक्ला, मिनाक्षी त्रिपाठी, कुसुम शुक्ला, निशाकान्त त्रिपाठी, आदि उपस्थित थे।

आप पार्टी सह प्रभारी का छग प्रवास-व्यापक संगठनात्मक दौरा

◆ **सिंधु भवन में रायपुर लोकसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन सम्पन्न हुआ- विजय झा**

रायपुर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी मुकेश अहलावत विधायक, का छत्तीसगढ़ का व्यापक दौरा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कर्मचारी विंग के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार झा ने बताया कि वे जोन वार संगठनात्मक बैठक लेकर प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में चुनावी वादों व नरेंद्र मोदी के गारंटी के विरुद्ध किए जा रहे जन विरोधी कार्यों तथा शिक्षा स्वास्थ्य पानी बिजली की गिरते स्तर पर पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का विस्तृत मार्गदर्शन करेंगे। जिसमें प्रदेश में जारी एनएचएम आंदोलन के संबंध में भी समीक्षा करेंगे। श्री झा ने बताया है कि 11 सितंबर को बिलासपुर जांजगीर लोकसभा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की बैठक अकलतरा में सम्पन्न हुई, जिसमें हजारों की संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए। इसी कड़ी में 12 सितंबर को दुर्ग जोन में दुर्ग व राजनांदगांव लोकसभा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन संपन्न हुआ। आज 13 सितंबर को रायपुर जोन जिसमें रायपुर महासमुंद लोकसभा के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की प्रातः 11 शंकर नगर बीटीआई मैदान स्थित सिंधु भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक सम्पन्न हुई। आप पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू, महासचिव एवं प्रमुख प्रवक्ता सूरज उपाध्याय, उत्तम जायसवाल, तेजेंद्र तोड़ेकर, भानु प्रकाश चन्दा, नंदन सिंह, देवलाल नारेटी, दुर्गा झा व, एम एम हैदरी, परमानंद जांगडे, अजीम खान, इमरान खान, मनोज चक्रधारी, संतोष कुशवाहा, नवनीत नंदे, विजय गुरूबक्षानी, पुनारद निषाद, कलावती मार्को, शिव शर्मा, सागर क्षीरसागर, आर एस ठाकुर, नरेंद्र ठाकुर आदि के नेतृत्व में हजारों पदाधिकारियों ने सिंधु भवन में आयोजित साथी बैठका में शामिल हुए।

तेरापंथ युवक परिषद की रायपुर में मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव 17 को

◆ **रक्तदान के प्रति जागरुकता लाने रायपुर के 17 कलेक्शन सेंटरों तक जाएगी जागरुकता रैली**

रायपुर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। राजधानी रायपुर मेगा ब्लड डोनेशन का साक्षी बनने जा रहा है। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद 17 सितंबर को पूरे देश में मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव का आयोजन करेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ में 100 से अधिक सेंटर्स में रक्तदान किया जाएगा। रायपुर में 17 सेंटर्स रक्तदान के लिए बनाए गए हैं। 17 सितंबर को मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव के पहले तेरापंथ युवक परिषद रायपुर राजधानी रायपुर के सभी 17 कलेक्शन सेंटर्स तक जागरुकता रैली निकालेगी। उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद का नाम सर्वाधिक रक्त संग्रहण में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। एक बार फिर से नए कीर्तिमान रचने की तैयारी है। राजधानी रायपुर भी इस महा रक्तदान शिविरों का साक्षी बनेगा। इस नेक कार्य के प्रति जागरुकता फैलाने का भी विशेष प्रयास किया जाएगा। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य रक्त की कमी को दूर करना और जरूरतमंद मरीजों की मदद करना है। साथ ही रक्तदान के प्रति जागरुकता बढ़ाना है। पूरे समाज में इसका बढ़ चढ़कर सहयोग करने की सहमति दी है।

राज्य आंदोलनकारी हजारों के साथ 26 वां राज्योत्सव मनाएंगे

रायपुर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। ठाकुर प्यारेलाल सिंह मार्ग हांडीपारा स्थित छत्तीसगढ़ी भवन में आज दोपहर 02 बजे राज्य आंदोलनकारी छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी एवं छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा प्रदेश समिति की संयुक्त बैठक हुई! बैठक की अध्यक्षता छसपा अध्यक्ष किसान मोर्चा के संस्थापक इंजी. दाऊ जी.पी. चंद्राकर ने किया !बैठक में रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, धमतरी, बेमेतरा, कवर्धा, बालोद, बलोदा बाजार, बिलासपुर जिला के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए! बैठक के मुख्य मुद्दों पर विस्तार से राज्य आंदोलनकारी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल दुबे ने विचार रखा जिसमें राज्य आंदोलनकरियों का 26 वां राज्योत्सव को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया !राज्योत्सव के एक मंच पर 1000 छत्तीसगढ़ी कलाकारों द्वारा कार्यक्रम पेश किया जाएगा !जिसके लिए प्रभारी टीम का गठन किया गया जिसमें जागेश्वर प्रसाद, चेतन देवांगन, लालाराम वर्मा, विमल ताम्रकार, वेगेंद्र सोनवेर, श्यामू राम सेन, अशोक कश्यप, जगदम्बिका साहू, राजपाल टंडन, छन्नू साहू, रोहित चंद्रवंशी अंकित साहू शामिल है !आयोजन समिति सभी कार्यक्रम के अध्यक्ष दीनदयाल वर्मा, जी. पी. चंद्राकर, अनिल दुबे बनाये गए हैं! दूसरा मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के छत्तीसगढ़ आगमन पर किसान मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल से मिलने के लिए डी एम महासमुंद और डी एम रायपुर के माध्यम से अनुमति हेतु आवेदन दिया गया है! राज्य आंदोलनकरियों का मुख्य केंद्र राज्य आंदोलनकारी स्थल छत्तीसगढ़ी भवन के मुख्य द्वार पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया! बैठक का संचालन जागेश्वर प्रसाद ने किया!

साहित्य का अनोखा संगम 'हिंद युग्म उत्सव' का चौथा संस्करण रायपुर में

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। साहित्य प्रेमियों के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक बड़ा तोहफा आने वाला है। देश का एकमात्र घुमंतू साहित्य समारोह 'हिंद युग्म उत्सव 2025' का चौथा संस्करण 20 और 21 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। यह उत्सव पहली बार रायपुर पहुंच रहा है, जहां देशभर से करीब 100 लेखक, कवि और कलाकार जुटेंगे। समारोह का केंद्र रहेगा प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल, जिनकी कविताओं पर नाट्य प्रस्तुतियां और एक विशेष डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। इस दो दिवसीय आयोजन में कविताओं, कहानियों, संगीत और कला का बेहतरीन मेल होगा। साहित्यिक चर्चाएं, लेखकों से

मुलाकात, सिनेमा विशेषज्ञों के सत्र, हिंदवी का 'कैंपस कविता' कार्यक्रम, ओपन माइक सेशन जहां 200 नई प्रतिभाएं अपनी कला दिखाएंगी। संगीतमय शामें, स्टैंड-अप कॉमेडी, बच्चों-बड़ों के लिए टेराकोटा-पेंटिंग वर्कशॉप, किताबों की प्रदर्शनी-बिक्री, एआई पर विशेष सत्र, नई किताबों का विमोचन और स्टोरीटेलिंग जैसे कई आकर्षण होंगे। गौरतलब है कि हिंद युग्म उत्सव हर साल अलग शहर में होता है जो लेखकों, विचारकों, कलाकारों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को एक मंच देता है। इससे पहले बाड़मेर, वाराणसी और भोपाल में इसके संस्करण सफल रहे। रायपुर संस्करण साहित्य-कला के उत्सव को और समृद्ध करेगा जहां किताबों का जश्न मनाया जाएगा।

सृष्टि सेवा का संकल्प ईंधन का हो कम उपयोग

रायपुर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। सृष्टि सेवा संकल्प, रायपुर इकाई के कार्यकर्ताओं को राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक ने समिति को प्रशिक्षण देने हेतु आर. के. पाटले, अनुसंधान सहायक एवं डॉ. संगीता श्रीवास्तव, बॉटनिस्ट वन औषधि पादप बोर्ड द्वारा हमें प्रशिक्षण प्राप्त हुआ प्रशिक्षण में महेश देवांगन भी सहयोगी रहे विभाग की डॉ. संगीता श्रीवास्तव एवं आर.के. पाटले ने प्रशिक्षण दिया। सृष्टि सेवा संकल्प एक संस्था है जो प्राकृतिक रूप से निर्मित सृष्टि के संधारण हेतु अपनी ओर से अनेकों प्रयास कर रही है जिसमें वृक्षारोपण एवं उनका संरक्षण भी एक भाग है। संस्था की नीमा गुप्ता ने वन विभाग से वृक्षों के सम्बन्ध में शिक्षित करने हेतु निवेदन किया था जिस संबंध में कार्यवाही की गई। सृष्टि सेवा संकल्प प्लास्टिक का उपयोग ना करने, आस पास में स्वच्छता, ईंधन का काम उपयोग, इत्यादि हेतु प्रयास कर रही है। संस्थान अनेकों विद्यालयों में सम्पर्क कर विद्यार्थियों के मन में सृष्टि के संरक्षण हेतु भाव उत्पन्न करना चाह रही है क्योंकि वे ही देश के भविष्य हैं। इस संबंध में उनका मानना है कि वे यह कार्य तब कर पाएंगे जब वे प्रशिक्षित हों जो लेने को वे तैयार हैं।

वन विभाग ने संस्था को आश्वासन दिया है कि वह उन्हें एवं विद्यार्थियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित करने को तत्पर है। इस प्रशिक्षण में नीमा गुप्ता, यशेंद्र गुप्ता, ममता मांडवी, श्रीमती बालिका साहू, दीपाली निगम, जय कुमार गायकवाड़, नितिन सचदेवा, अभिमन्यु, शेखर इत्यादि शामिल रहे।

धारदार चाकू के साथ युवक पकड़ाया

रायपुर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। उरला पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति धारदार चाकू रखा है एएवं लहराकर लोगों को आतंकित कर रहा है सुचना पर पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही किया गया जिसमें आरोपी शनि ध्रुव पिता झावेन्द्र ध्रुव उम्र 21 साल साकिन स्वास्थ्य केन्द्र के पास अछोली थाना उरला थाना उरला जिला रायपुर के कब्जे से 01 नग लोहे का धारदार चाकु घेराबंदी कर पकड़कर जप्ती की गई ए आरोपी के विरूद्व धारा 25 27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।

हिंदी दिवस पर अमन का पैग़ाम द्वारा विशेष सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम

रायपुर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। हिंदी दिवस के अवसर पर अमन का पैग़ाम के तत्वावधान में रायपुर स्थित मरीन ड्राइव पर एक विशेष सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन 14 सितम्बर को शाम 7 बजे किया जाएगा। इस अवसर पर हिंदी भाषा की महत्ता, उसकी क़ौमी भूमिका तथा सामाजिक सौहार्द और भाईचारे में उसके योगदान पर विचार-विमर्श एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होंगी। आयोजकों का कहना है कि यह कार्यक्रम समाज में यह संदेश देने का प्रयास है कि 'हिंदी हमारी क़ौमी ज़ुबान है ङ्क क़ौमी एकता और भाईचारे का आधार।' कार्यक्रम का उद्देश्य यह उजागर करना है कि भाषाएँ केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने और आपसी मोहब्बत व एकजुटता को मज़बूत करने का माध्यम हैं। हिंदी, हमारी साझा संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। कार्यक्रम विवरण- स्थान- मरीन ड्राइव, रायपुर, तारीख़- 14 सितम्बर, समयः शाम 6.30

गाइड ज्ञानेश्वारी साहू ,खुशी जायसवाल, रोवर दानेश्वर साहू ,वासुदेव रेजर रूचिता बोस मेघा मिश्रा को राष्ट्रपति पुरस्कार

रायपुर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। रायपुर के होनहार गाइड ज्ञानेश्वरी साहू ए खुशी जायसवाल और रोवर दानेश्वर साहू वासुदेव रेंजर रुचिता बोसए मेघा मिश्रा को राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त होने पर यह सम्मान केवल आपका ही नहीं बल्कि पूरे रायपुर जिले और छत्तीसगढ़ का गौरव है । दिल्ली के भारत मंडपम में यह ऐतिहासिक पल हम सभी के लिए गर्व का क्षण बना। आपकी इस उपलब्धि ने स्काउट गाइड परिवार को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है । साथ ही रोवर लीडर दिलीप पटेलए रेंजर लीडर गाइड कैप्टन अनीता सरकार मार्गदर्शक को भी ढेर सारी शुभकामनाएँ । आपका अथक परिश्रम और प्रेरणा हम सबके लिए मिसाल है। यह सफलता सिर्फएक पुरस्कार नहींए बल्कि रायपुर की पहचान और छत्तीसगढ़ का गौरव है।

सौर ऊर्जा पहले सभी सरकारी दफ्तरों में लगाए जाएं: कांग्रेस

◆ **मुफ्त बिजली का दावा हवा हवाई जनता दोगुना बिजली बिल से परेशान**

रायपुर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। बिजली बिल हाफ योजना पुनः शुरू करने की मांग करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की सरकार ने सोलर पैनल बनाने वाले अपने पूंजीपति मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए बिजली बिल हाफ योजना को बंद किया है जिसका परिणाम इस माह हर घर में दोगुना बिजली बिल आया है जिसके चलते गृहस्थ जीवन में खर्च बढ़ गया है आम लोगों का घरेलू बजट बिगड़ गया है। जनता वैसे ही महंगाई से परेशान है उस पर बिजली बिल हाफ योजना बंद करना कुठाराघात साबित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है बिजली बिल हाफ योजना पुनः शुरू की जाए ताकि जनता को महंगी बिजली बिल से राहत मिल सके। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार मुफ्त बिजली का दावा कर रही है वह सिर्फ हवा हवाई है धरातल में उतरने में उन्हें सालों लग जाएंगे। इससे आम जनता को कोई लाभ नही होगा। सरकार सौर ऊर्जा को जो प्रमोट कर रही है आम जनता के ऊपर जबरिया थोपने का प्रयास कर रही है यह उचित नहीं है सौर ऊर्जा को सरकार पहले अपने सभी सरकारी संस्थानों मे लगाये मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के दफतरों और बंगलो की बिजली सप्लाई तत्काल बंद करें और वहां सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन कर अतिरिक्त बिजली को आम लोगों के लिए बिजली विभाग के माध्यम से दे। वैसे भी सरकारी विभागों के द्वारा बिजली कंपनी को करोड़ों रुपए का बिल देना होता है जो सरकारी खजाने से जाता है बिजली कंपनी का करोड़ों रुपए का बिल का बकाया आज भी सरकारी विभाग भुगतान नहीं कर रहे हैं बिजली कंपनी को भी नुकसान हो रहा है सरकारी खजाने को भी नुकसान हो रहा है। श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ़ की सुविधा दिया था। जिसके कारण हर घर में 40 से 50हजार रु की बचत होती थी। अब योजना बंद होने से अब हर घर के ऊपर 1000रु से लेकर 2000 रु तक की अतिरिक्त बिजली खर्च बढ़ गया है। बिजली का बिल परेशान करने वाला है सरकार का योजना बंद करने का फैसला आम जनता के लिए घातक साबित हो रहा है।

प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप्प गृहमंत्री इस्तीफा दें : विकास

रायपुर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप्प हो चुकी है।प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से आपराधिक ग्राफ अत्यधिक बढ़ गए हैं। लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार और गृहमंत्री विजय शर्मा को जनता की तनिक भी चिंता नहीं है।अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। राजधानी रायपुर के रिहायशी क्षेत्र में हुई घटनाओ से आम लोगों में भय का माहौल निर्मित हो रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ा है। बलात्कार ही नहीं हत्या, लूट, अपहरण जैसे अपराधों के मामलों में भी रायपुर प्रदेश में सबसे आगे है। आंकड़ों के मुताबिक दुष्कर्म के मामले में रायपुर पहले पायदान पर है, जबकि बिलासपुर दूसरे और कोरबा तीसरे नंबर पर है। इन झकझोर देने वाले आंकड़ों का खुलासा राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्वयं विधानसभा सत्र के दौरान किया है। उपाध्याय ने सोशल न्यूज़ के आंकड़ों के अनुसार बताया कि प्रदेश की राजधानी रायपुर डकैती को छोड़कर हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार के मामलों में भी सबसे आगे है। यहाँ पिछले एक साल में हत्या के 93, लूट के 80, अपहरण के 515, चोरी के 1645, डकैती के 9 और बलात्कार के 268 केस दर्ज किए गए हैं। 2024 में 247 और इस साल यानी 2025 में अब तक 21 मामले रेप के सामने आए हैं। इन सब आंकड़ों में बलात्कार के आंकड़े सबसे ज्यादा चौकाने वाले हैं। प्रदेश में एक साल के भीतर बलात्कार के कुल 3191 केस दर्ज किए गए हैं। इस हिसाब से रोज प्रदेश में 8 से 9 महिलाएं हवस का शिकार बन रही हैं। इस तरह से छत्तीसगढ़ में हर 3 घंटे में एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना हो रही है। उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार जनता को सुरक्षा मुहैया कराने में पूरी तरह फेल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार अपराधों को छिपाने और राजनीतिक हित साधने में व्यस्त हैं। जतना की सुरक्षा की जिम्मेदारी ट्रिपल इंजन सरकार की है ।और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केन्द्र सरकार की नाकामी भी लगातार सामने आ रही है।प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप्प हो चुकी है, जिसे प्रदेश के मुख्यमंत्री साय और गृहमंत्री विजय शर्मा अनदेखा कर रहे हैं।इसलिए गृहमंत्री विजय शर्मा अपने पद से तत्काल इस्तीफा दें।

साहित्य

अतीत की विरासत, वर्तमान की शक्ति और भविष्य का स्वप्न

■ महिमा सामंत

हिन्दी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान, एकता का सूत्र और जनमानस की आत्मा है। यह वह माध्यम है जिसमें संतों की वाणी, कवियों की भावनाएँ, कथाकारों की दृष्टि और स्वतंत्रता सेनानियों का जोश एक साथ बहता है। हिन्दी दिवस, जो प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को मनाया जाता है, हमें इस भाषा के ऐतिहासिक महत्व और भविष्य की संभावनाओं की याद दिलाता है। 1949 में संविधान सभा द्वारा हिन्दी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा दिया जाना न केवल प्रशासनिक निर्णय था, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता का सांस्कृतिक प्रतीक भी था।

हिन्दी की जड़ें बहुत गहरी और विस्तृत हैं। इसका विकास संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए मध्यकाल में अवधी, ब्रज और खड़ी बोली जैसे स्वरूपों में हुआ। भक्ति युग में कबीर, तुलसीदास, सूरदास और मीरा बाई जैसे कवियों ने इसे जन-जन की भाषा बनाया। आधुनिक काल में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और प्रेमचंद ने इसे सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनाया। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उदन्त मार्तण्ड जैसे अख़बारों ने हिन्दी को एक नई दिशा दी। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी ने हिन्दी को 'जन-संपर्क की भाषा' बताते हुए इसे आंदोलन के केंद्र में रखा, जिससे यह राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गई।

14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा में पारित प्रस्ताव ने हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया। अंग्रेज़ी को 15 वर्षों तक सह-भाषा बनाए रखने का निर्णय भी लिया गया, ताकि प्रशासनिक कामकाज में संतुलन बना रहे। यह एक दूरदर्शी नीति थी जिसने बहुभाषी भारत में एकता और कार्यकुशलता को सुनिश्चित किया। हिन्दी दिवस इस ऐतिहासिक घटना का स्मरण मात्र नहीं, बल्कि भाषा के विकास और प्रसार के प्रति नए संकल्प का अवसर है।

आज हिन्दी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत के अलावा नेपाल, मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद-टोबैगो, गुयाना, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका में भी हिन्दी बोलने वाले समुदाय मौजूद हैं। शिक्षा, शोध और मीडिया में हिन्दी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। विज्ञान, तकनीक और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में हिन्दी माध्यम के पाठ्यक्रम और शोध कार्य उपलब्ध हो रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से भी हिन्दी कंटेंट और विज्ञापन भारतीय बाज़ार के सबसे बड़े उपभोक्ता वर्ग तक पहुँचते हैं। फिल्मों, टीवी, और सोशल मीडिया ने हिन्दी को वैश्विक दर्शकों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हिन्दी केवल साहित्यिक मंचों या सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित न रहकर, हमारे संपूर्ण शिक्षा-तंत्र का अभिन्न हिस्सा बननी चाहिए। यदि विद्यार्थियों को अपनी जड़ों से जोड़ना है और राष्ट्रीय एकता को मज़बूत करना है, तो प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक , स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर तक हिन्दी विषय को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

तकनीक ने हिन्दी को नई गति दी है। ई-लर्निंग और ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी में पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। अनुवाद तकनीकें हिन्दी को अंतर्राष्ट्रीय संवाद से जोड़ रही हैं।

नई पीढ़ी के लिए हिन्दी के सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं। अंग्रेज़ी के बढ़ते प्रभुत्व और शहरी क्षेत्रों में औपचारिक हिन्दी लेखन में गिरावट चिंता का विषय है। तकनीकी शब्दावली में एकरूपता की कमी भी एक बाधा है। लेकिन अवसर भी अनेक हैं-तकनीकी, वैज्ञानिक और व्यवसायिक शब्दावली का विकास, मोबाइल एप्स, डिजिटल गेम्स और ऑडियोबुक्स में हिन्दी का बढ़ता उपयोग, तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में वास्तविक समय अनुवाद तकनीक के माध्यम से हिन्दी को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की संभावना।

2050 तक हिन्दी वैश्विक डिजिटल भाषाई समुदायों में अग्रणी हो सकती है। इसके लिए उच्चारण, लिप्यंतरण और शब्दावली में मानकीकरण की आवश्यकता है। साथ ही, ,द्ध, वॉयस रिकग्निशन और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों में हिन्दी का समावेश होना चाहिए। विदेशों में हिन्दी अध्ययन केंद्रों की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके शिक्षण-प्रशिक्षण को बढ़ावा देना भी ज़रूरी है।

हिन्दी दिवस को केवल औपचारिक भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित न रखकर इसे रचनात्मक और प्रभावशाली तरीकों से मनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, 24 घंटे का ऑनलाइन 'हिन्दी डिजिटल मैराथन' आयोजित किया जा सकता है, जिसमें देश-विदेश के हिन्दी लेखक, पत्रकार और विद्यार्थी जुड़ें। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों के हिन्दी रूप खोजने की प्रतियोगिताएँ भाषा को आधुनिक संदर्भ में समृद्ध करेंगी। हिन्दी आधारित एप्स और डिजिटल टूल्स के प्रदर्शन के लिए 'हिन्दी इनोवेशन फेयर' आयोजित किया जा सकता है। अन्य भाषाओं के प्रसिद्ध अंशों का रचनात्मक हिन्दी अनुवाद कराने की गतिविधि भी रोचक होगी। युवाओं को आकर्षित करने के लिए हिन्दी में मीम प्रतियोगिता और साहित्यिक गेम्स बनाए जा सकते हैं। पुस्तकालयों, कॉलेजों और क्लबों में हिन्दी पुस्तकों का आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। इसके साथ ही, उद्यमियों को केवल हिन्दी में अपने विचार प्रस्तुत करने का मंच देकर व्यवसायिक जगत में भी हिन्दी का उपयोग बढ़ाया जा सकता है।

हिन्दी दिवस और हिन्दी का महत्व एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। लेकिन असली उद्देश्य केवल अतीत की गौरवगाथा सुनाना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भाषा को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखना है। तकनीक, रचनात्मकता और वैश्विक दृष्टिकोण के साथ जब हिन्दी आगे बढ़ेगी, तभी यह अतीत की विरासत से निकलकर भविष्य की शक्ति बन पाएगी।

लघुकथा

अविश्वास

■ रविशंकर सिंह

एक आदिवासी गांव। एसडीओ अपनी टीम और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ वहां मौजूद थे। उन्होंने गांववालों की ओर देखकर मृदु स्वर में कहा, 'आप सबको साक्षरता अभियान के तहत पढ़ना-लिखना सिखाया गया है, है न?'

सामाजिक कार्यकर्ताओं आत्मविश्वास से कहा, 'जी हां, सर! हमने यहां के कई आदिवासी भाइयों और बहनों को अक्षर ज्ञान दिया है।

एसडीओ ने मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए कहा, 'बहुत अच्छा! तो क्यों न हम इसकी पुष्टि कर लें?' सरकारी कर्मचारी आगे बढ़े। उन्होंने आदिवासियों को कागज और कलम थमा दिया। कुछ पल बीते। फिर कुछ और पल। कोई नहीं लिख रहा था।

एसडीओ ने असमंजस भरी नजरों से गांववालों को देखा। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, 'अगर आप लोग कागज पर नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं। लीजिए, ये लकड़ी के टुकड़े हैं। जमीन पर अपना नाम और पता लिखिए।'

इस बार कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। गांव के लोगों ने झटपट लकड़ी के टुकड़े उठाए और जमीन पर अपना नाम-पता उकेर दिया।

एसडीओ ने आश्चर्य जताते हुए कहा, 'ज.तो आपको सच में लिखना आता है! फिर आपने कागज पर लिखने से मना क्यों किया?'

भीड़ से एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। वह शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, 'क्योंकि हमें आप लोगों पर विश्वास नहीं है।'

एसडीओ चौंक गए, 'क्या मतलब?'

बूढ़े की आंखें गीली हो गईं, 'आप लोग कोरे कागज पर हमारा नाम-पता लिखवा लेते हैं, फिर उसी कागज के सहारे हमारा जंगल, हमारी जमीन और हमारा पानी छीन लेते हैं। अब वह गलती नहीं करेंगे।'

एसडीओ के पास उत्तर नहीं था।

बीड़ी

■ विनोद दास

कान पर रखो अधजली बीड़ी

वह अपने दाएँ हाथ में लेता है
और बेचैनी से इर्द-गिर्द देखता है

वह बेहद परेशान है
उसे आस-पास कहीं आग दिखाई नहीं देती

और मैं चकित हूँ
कि आग उसके भीतर है

और वह उसे देख नहीं पा रहा है
दोष उसका नहीं है

मैं सोचता हूँ
वक़्त इतना ख़राब आ गया है

और चीज़ें इतनी अस्पष्ट हो गई हैं
वह भला क्या

किसी की भी आँखों में
मोतियाबिंद झिलमिला सकता है

सहसा एक सुर्ख़ बिंदी दिखाई देती है
वह उसकी तरफ़ रपटता है

किंतु सिगरेट को देखते ही
उसके हाथ की बीड़ी डटकर

उसकी उँगलियों से और अधिक सट जाती है
यह ठंड की रात है

और ठंड
बीड़ी के तंबाकू तक पहुँच गई है

सामने से बीड़ी पीता एक आदमी आता है
अधजली बीड़ीवाला उसे रोकता है

बीड़ी से बीड़ी मिलती है

आग से आग फैलती है

मुझे लगता है
जैसे गुपचुप कोई तैयारी चल रही है

अब बीड़ियाँ सुलग गई हैं
और चमक रही हैं अँधेरे में

गमछे की गंध

■ ज्ञानेन्द्रपति

गु म स ंके त

चोर का गमछा
छूट गया
जहां से बक्सा उठाया था उसने,
वहीं-एक चौकोर शून्य के पास
गेंडुरियाया-सा पड़ा चोर का गमछा
जो उसके मुंह ढंकने के आता काम
कि असूर्यम्पश्या वधुएं जब, उचित ही, गुम हो गई हैं इतिहास में
चोरों ने बमुश्किल बचा रखी है मर्यादा
अपनी ताड़ती निगाह नीची किए
देखते, आंखों को मैलानेवाले
उस गर्दखोरे अंगोछे में
गन्ध है उसके जिस्म की
जिसे सूंघ/पुलिस के सुंघिनिया कुत्ते
शायद उसे ढूंढ निकालें
दसियों की भीड़ में
हमें तो
उसमें बस एक कामगार के पसीने की गन्ध मिलती है
खटमिट्ठी
हम तो उसे सूंघ/केवल एक भूख को
बेसंभाल भूख को
ढूंढ़ निकाल सकते हैं

चाय की गुमटी

■ भूपेन्द्र भारतीय

आज सुबह से रूक-रूककर तेज बारिश हो रही थी। सितंबर माह का पहला सोमवार व भादो की बरखा पूरे रंग में। तहसील के सामने वाली चाय की गुमटी में बैठा- नयाराम तहसीलदार की बाट देख रहा था। आज तहसील में ज्यादा भीड़ नहीं थी। दोपहर की घड़ी आ गई थी। लग रहा था जैसे सूरज देवता बादलों के पार आराम कर रहे है। अब तक तहसील में कोई ज्यादा चहलपहल नहीं। सुबह से बरस रहे भादो के कारण तहसील के आसपास वाली दुकानें भी बंद थी। कुछ ही लोग दिख रहे थे। नयाराम को अपने गाँव से तहसील आये दो घंटे बीत चुके थे। इन दो घंटों में उसने दो चाय व आठ-दस बीड़ी पी ली। नयाराम उसके हल्के के पटवारी को भी निरंतर मोबाइल लगा रहा था लेकिन पटवारी का सुबह से मोबाइल बंद आ रहा था। दो-तीन बार तहसील के चपरासी से तहसीलदार के आने के बारे में पूछ चुका था। चपरासी का एक ही जवाब रहता- 'साहब क्षेत्र में दौरे पर है, कोई भरोसा नहीं कब तक आऐंगे।'

नयाराम, 'चपरासी के एक पंक्ति के जवाब को सुनकर गर्दन लटकाते हुए फिर चाय की गुमटी की ओर चल देता।' 'वह आज की बरखा को देखकर सोच रहा था कि ऐसी बारिश में तहसीलदार साहब क्षेत्र का दौरा कैसे कर लेते है! देखो, अधिकारियों को भी कितनी परेशानियां हैं।'

नयाराम के पिता की मृत्यु हुए करीब एक वर्ष से ऊपर हो गया था, लेकिन नयाराम के पिता उसकी बातों व उनकी पुश्तैनी भूमि के कागजों में अब तक जिंदा थे। गुमटी में बैठे-बैठे उसे अपने 'जीसाहब' की बहुत सी बातें रह-रहकर याद आ रही थी। नयाराम अपने पिता को 'जीसाहब' संबोधित करके बोलता था। बारिश एक बार फिर तेज हो गई थी। बीड़ी का करीब आधा बंडल वह फूंक चुका था। मन बहलाने व समय काटने के



लिए नयाराम के पास बीड़ी ही अंतिम साधन उपलब्ध था। चाय का बजट लगभग समाप्त हो चुका था। आधे दिन से ऊपर का समय बीत चुका था। चाय की गुमटी वाला नयाराम की बेचैनी को देखकर उससे बातचीत करने लगा ;-

क्यों भाई - कबसे बैठे हो ? किसका इंतजार कर रहे हो ? पटवारी-तहसीलदार या फिर किसी दलाल का...!

नयाराम बोला- अरे भाई तहसीलदार व हमारे पटवारी दोनों की बाट देख रहा हूँ। लेकिन देखो, आधा दिन से ऊपर हो गया है किसी के दर्शन नहीं है अब तक। इतनी भी बारिश नहीं हो रही है कि तहसील तक नहीं पहुंच सकते। 'सरकारी अधिकारी होकर कोई जिम्मेदारी नाम की भी चीज होती है या फिर जनता जाए भाड़ में।'

चाय वाला हल्की मुस्कान के साथ बोला- अरे भाई यहां तो ऐसा ही चलता है। लगता है तुम्हें अभी तक यहां के कामकाज का ढंग पता नहीं है। यहां सीधे-सीधे काम करवाना श्रीहरि के दर्शन प्राप्त करने जैसा है भाई !

नयाराम, चायवाले को अपनी कहानी बताने लगा। उसके पिता की मृत्यु से लेकर पीछले एक वर्ष से ऊपर अपनी भूमि का मृतक नामांतरण करवाने के लिए पटवारी, तहसीलदार, चपरासी आदि के चक्कर लगा रहा था।

चायवाले ने नयाराम को एक ओर चाय देते हुए कहा कि- %पहले शांति से यह चाय पी लो, फिर मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताता हूँ।%

नयाराम ने चाय पीने के बाद एक ओर बीड़ी जला ली। इसबार उसने चायवाले की ओर भी बीड़ी का बंडल बढ़ाया। चायवाले ने भी उसमे से एक बीड़ी जला ली। बीड़ी पीते हुए चायवाला कहने लगा;- देखो भाई आज का दिन तो गया। अब साहब का आना मुश्किल लगता है। लगता है साहब आज क्षेत्र के दौरे पर लंबे निकल गए है! तुम कल जल्दी आ जाना, मैं तुमको एक व्यक्ति से मिलवा दूंगा। वह तुम्हारा काम बहुत आसानी से व जल्दी कर देगा। 'बस तुम्हें थोड़ा खर्चा करना होगा। चलेगा?'

नयाराम थोड़ा चौंकते हुए उदास स्वर में बोला- लेकिन कितना भाई ?

चायवाला बोला अरे, डरो मत। ज्यादा खर्चा नहीं होगा, तुम्हारा काम कम में ही हो जाऐगा।

'नयाराम सोच में पड़ गया।'

चायवाला, नयाराम को देखकर कहने लगा- ज्यादा विचार मत करो, कल आराम से आओ। फिर बात करते हैं। अब गाँव जाओ बारिश ओर हो सकती है। इस बार भादो अच्छा बरस रहा है।

नयाराम एक नई उम्मीद के साथ अपने गाँव को चलने के लिए उठा। उसने चायवाले को चाय के लिए पचास का नोट दिया। चायवाला बोला- 'अरे भाई कल करते है सारा हिसाब, आज रख लो यह नोट। अपने बच्चों के लिए बाजार से कुछ खाने की चीज ले जाना।'

नयाराम एक ओर बीड़ी जलाते हुए, 'कल आता हूँ कहते हुए चायवाले से राम राम करके गाँव जाने के लिए बाजार की ओर चल दिया।'

दो ग़ज़लें

■ दिल अय्यूबी

रह गया ख़्वाब-ए-दिल-आराम अधूरा किस का
ढल गई शब तो खुला है ये दरीचा किस का

लम्हा लम्हा मुझे वीरान किए देता है
बस गया मेरे तसव्वुर में ये चेहरा किस का

आज़माइश की घड़ी है सर-ए-मक़्तल देखें
ज़ेर-ए-ख़ंजर वही रहता है इरादा किस का

ये जो बेदार भी हैं सोए हुए भी इन में
शाम किस की है ख़ुदा जाने सवेरा किस का

रह-रव-ए-आख़िर-ए-शब हैं सभी उकताए हुए
कौन कब तक है यहाँ साथ भरोसा किस का

मेरे क़ातिल के तजस्सुस में भटकने वालो
ख़ून आलूद है बस्ती में पसीना किस का

आईना-ख़ाना दो-आलम को बना कर ऐ 'दिल'
मुंतज़िर बैठा है वारफ़्ता-ओ-शैदा किस का

कविताएं

उड़ान पर है प्रेम

मैंने अपनी बाहों में भर लिया है आकाश
जिसमें उड़ रही हो तुम
तुम्हारी उड़ान
मेरे स्वप्नों की उड़ान है

बादलों के फाहे से पोछते हुए
तुम्हारी पुतलियों को
हटा रहा हूँ नमी का धुंधलका
चाहता हूँ उड़ते हुए
पार कर जाओ मेरे बाहों में भरे हुए आकाश को
तलाश लो अपना आकाश

अपनी उड़ान
कभी भी स्थगित मत करना
उड़ते-उड़ते थक जाओ तो
उतर जाना चंद्रमा पर
वहाँ हमारी बेचैनी और इंतजार के
सबूत स्वागत करेंगे तुम्हारा

तंत्र

सत्य तभी तक सत्य
जब तक झूठ है

गति तभी तक गति
जब तक ठहराव है

प्रकाश तभी तक प्रकाश
जबतक अंधकार है

जीवन तभी तक जीवन
जबतक मृत्यु है

हम तभी तक हम
जबतक तुम हो

हमदोनों का होना ही एक लोक है
इस लोक में हम दोनों कितना-कितना
यह इस तंत्र का सुख-दु:ख।

बोनसाई

हमारी यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की है
ऋषि-मुनियों ने दिया था
यह ज्ञान

विज्ञान के सहारे
समझा इसे और भी बेहतर
साक्षात्कार हुआ परमाणु ऊर्जा से

सर्वाधिक ऊर्जा है सूक्ष्म में
पता चलते ही
हम सब दौड़ पड़े सूक्ष्म की तरफ़

और बदल गए बोन्साई में
अब हमारे पास गमले भर धरती है
बित्ते भर का कद
सजे हुए हैं हम
दलान से शयन कक्ष तक।

अनुवाद

सबसे कठिन कर्म है अनुवाद
कभी भी नहीं होता
मूल जैसा हूबहू

अनुवाद में कपड़े की तरह बदल जाती है भाषा
शरीर की तरह तैयार हो जाती है
अर्थ की संरचना

लेकिन भाव कभी भी नहीं
उतर पाता हूबहू
एक आभासी दुनिया में
अपनी भाषा के इन्तजार में बैठे भाव
अनकहे के मर्म को विदा करते रहते हैं

और मूल
धरती की सुगन्ध को हेरते हुए
सभ्यता की गुफाओं में गुम हो जाता है ।

■ प्रदीप मिश्र

हाना

दूबर ल दू आषाढ़
कमजोर परिस्थिति के मनखे बर जादा खर्चा बाढ़ जाथे। एक तो आषाढ़ म पानी जादा गिरथे ऊपर दू आषाढ़ पर जाथे तेकर बर ये हाना ल केहे जाथे।

शब्द अरथ

1. छंदइया–छानने वाला। फंसाने वाला, बांधने वाला
2. छदई – छानने, फंसाने या बांधने की क्रिया या भाव
3. छदउनी– छानने, फंसाने या बांधने का खर्च या पारिश्रमिक
4. छंदना– छानने के लिए प्रयुक्त वस्तु फंसना, बंधना
5. छदनी–छदना
6. छंदल– छना हुआ,फंसा हुआ
7. छंदवइया– छानने, फंसाने या बांधने के लिए दूसरे को प्रवृत्त करने वाला
8. छदवई– छानने, फंसाने या बांधने के लिए दूसरे को प्रवृत्त करने की क्रिया या भाव
9. छदवउनी– छानने, फंसाने या बांधने के लिए दूसरे को प्रवृत्त करने का खर्च या पारिश्रमिक
10. छदवा– छाना हुआ, शुद्ध किया हुआ, फंसा हुआ, बंधा हुआ।

हिन्दी दिवस अउ त्रिभाषा फार्मूला- एक चिंतन!

जब ले महाराष्ट्र म हिन्दी के बहिष्कार करे गए हे––एक सवाल उठत हे––वो कि एक राज्य ले दूसर राज्य में जाबो त कोन भाषा म गोठियाबो?

का हम मराठी,बंगाली,तमिल––सबो भाषा म गोठियाबो?

सबो भाषा ल एक संग कईसे सिखबो?

कोई एक भाषा ह सबो झन ला जोड़ सकथे। अउ ओ भाषा ह हिन्दी आय! पुरा देश म घूमे फिरे बर,जोड़े बर एक ठन सरल सीधा भाषा होना चाही! वो भाषा ह केवल हिन्दी ह हो सकथे,! तब राजनीति म एक राष्ट्रभाषा बर ,राजनीति म अतेक दांवपेंच काबर करे जात हाबय?

सोज बात ये, हिंदी राजभाषा/राष्ट्रभाषा ह अनिवार्य भाषा आय,––अंग्रेजी उच्च शिक्षा बर जरूरी आय, अउ छत्तीसगढ़ी ह हमर मातृ भाषा आय, जेला शाला म एक भाषा के रूप मं अनिवार्य रूप म पढाये जाना हे आखिर शिक्षा विभाग म बइठे मनखे मन काय सोच के येला लागू नइ करत हावय। येखर ऊपर चिंतन करना जरूरी हाबय।

छत्तीसगढ़ी म अब लेखन बहुत होवत हे।ओखर। व्याकरण तैयार हे। हिन्दी ह बड़े बहिनी आय अउ सबो जनपदीय भाषा मन छोटे बहिनी आय। सबो जनपदीय भाषा ल अपन अपन प्रदेश के शाला मा पढाये जाना चाही,लइकामन माई भाषा म बने सीखथें, जल्दी सीखथें। हाई स्कूल मा एक विषय के रूप मा पूरा साहित्य,ईतिहास,भूगोल पढ़ाना चाही। राज्य बने के बाद स्कूल मन मा 'हमरा छत्तीसगढ़' पुस्तक चलत रहिस हे। वो ह छत्तीसगढ़ी सीखे बर बहुत उपयोगी पुस्तक रहिस। ओइसने फेर चालू कर देना चाही।

अभी तो हिन्दी दिवस खातिर सोचन कि हिन्दी ल केंद्र ह राष्ट्रभाषा घोषित कर दे अउ हमन देश म एकता बनाये रखन। अखण्ड भारत बर जरूरी हे राष्ट्रभाषा हिन्दी।

–सुधा वर्मा

17 सितम्बर बिस्वकरमा जयंती बिशेश

सोन नगरी लंका- तिरसूल- सुदरसन चक्र के बनइया

रयपुर ले बिलासपुर बस म बइठ के जावत रहयं। तभे सिमगा पहुंचत पहुंचत बस इंजन म कुछू खराबी आगे। ड्राइवर हर पाना पेंचिस ल धर के इंजिन ल सुधारे लागिस। कन्डेक्टर हर बताइस कि सुधारे म आधा घंटा लग सकत हे। तब में हर बस ले उतर गेवं। तभे देखेवं कि आघूच म बने पंडाल म भगवान बिस्वकरमा जी बिराजमान हें। उंखर तीर म जाके पावं पैलगी करेवं अउ बोलेवं– आप ल तो कल पुरजा,मसीन के भगवान कहे जाथे। बतावव तो भला का नराजगी होगे जेमे हमर बस के इंजिन ल बिगाड़ देहे हव जी।

मोर सवाल ल सुन के बिस्वकरमा जी खलखला के हांसत बोलिन– सुन बिजय बाबू,मनखे के जिनगी म तरक्की करे बर में किसिम किसिम के कल– पुरजा–औजार बनाय हवं। फेर मनखे तो दिन ब दिन मसीन के गुलाम– दास बनत कामचोर –आलसी होवत जात हे। अइसनेहे आदत के चक्कर म ड्रायभर हर बस इंजिन के बने देख–रेख करत बेरा बेरा म तेल पानी नी डारिस होही त बस हर बिगड़बेच करही।

अच्छा अच्छा ए बात हे। कहत में बात ल बढ़ावत बोलेवं– आज तो दुनिया भर म बिस्वकरमा जयंती मनावत हें। त हे देव, आप ल जनम दिन के गंज अंकन बधाई देवत बिनती करत हवं अपन जनम जिनगी के कथा ल बतावव न।

तब बिस्वकरमा जी मोला आसीस देवत बताइन– संसार के रंचोइया भगवान ब्रमहा जी के बंसज हमर कुल खानदान हर आए। मोर ददा वास्तुदेव अउ दाई अंगिरसी आयं। दू ठिन आखर बिस्व अउ करमा ल मिंझार के बिस्वकरमा हर बने हे। बिस्व माने दुनिया अउ करमा माने काम बूता करना। ए हिसाब म दुनिया ल बने गढ़े– बढ़े के कारज बर मोर जनम होइस हे। जिनगी बर जरूरत के मुताबिक कल–कारखाना, घर–दुवार,मोटर–गाड़ी,ल बनाए के पहल मिही हर करे हवं।

ओहो ......। इही पाय के आप ल देबी –देंवता के इंजीनियर,कल–पुरजा के देंवता अउ दुनिया के पहला अभियंता कहे जाथे। हे देव,अपन खास खास कामकाज,सिरजन के जानकारी ल मोर गियान बढ़ाय खातिर बतावव न। कहत में पूछेंवं।

तब बिस्वकरमा जी थोरिक देर आंखी ल बंद करके सोंचे के पाछु बताइन– किसन के द्वारिका नगरी, पांडव के हस्तिनापुर अउ माया सभा इंद्रप्रस्थ, रावन के सोननगरी लंका, पुष्पक जहाज, बिस्नु के सुदरसन चक्र, भोलेनाथ के तिरसूल, इन्द्र देव के बज्र असन कतको नगर, महल, औजार, अस्त्र–सस्त्र,ल मही बनाए हवं। भूलोक म बढ़ई, सोनार ,लोहार, कसेर, मूरतीकार,कोंहार मन हर मोरे बंसज आएं।

बदलत बेरा संग बाढ़त गियान– बिग्यान के बूता कतकोन नवा नवा जीनिस दुनिया म बनत जावत हे। फेर ओखर मूल म मोर संगे संग मोर सिपाही कारीगिर मन के परताप समाय हावय। जम्मो कारीगिर– मजदूर मन ल में हर अपन परिवार,अपन सिपाही मानथों। मोर जयंती के दिन गाड़ी–घोड़ा,कल–कारखाना के साफ–सफाई सजावट के संगे संग मोर सिपाही मन के मान सनमान जेन हर करथे तेखर तरक्की बरदान में देथवं। गरीब मजदूर –कारीगिर के मान ल में अपन असल पूजा मानथों।

बने गियान देवत हव गुरुदेव।कहत थोरिक धीरलगहा कहेवं आपके घरगोसांइन अउ लोग–लइका मन के बारे म बतावव न। त बिस्वकरमा जी बताइन बिजय बाबू,मोर घरगोसांइन के नाम सौम्या देबी हे। हमर छे झिन बेटी हें।जेमन के नाम चित्रंगदा, रिद्धि –सिद्धि,संज्ञा,बर्हिष्मति,रत्ना देवी हावय।अउ पांच झिन बेटा मनु, त्वष्टा, मय,सिल्पी,देवग्य हें।

वाह। आपके तो जबड़ परिवार हे भगवान जी।फेर ए बतावव कि बेटी– बेटा म बढ़िया कोन होथे।मोर ए सवाल के जवाब म बिस्वकरमा जी ठांसे कस बोलिन–देख अइसन भेद–भाव मन म रखना बने बात नोहे,काबर कि दूनों के बिना दुनिया नी चल सकय।जे मनखे हर बेटी– बेटा म भेद–भाव राखथे ते हरघोर पाप के भागीदार होथे। समझे न।

सही बात कहे हव प्रभू जी।कहेवं तभे बस हर घरर घरर करत चालू होगे। कन्डेक्टर तको चलो चलो चिल्लाए लागिस।ओला सुनके बिस्वकरमा जी के पांव परके बिदा लेहें। अउ धरा रपटा दउंडत जाके बस म बइठ गेवं।

विजय मिश्रा 'अमित'
अग्रोहा कॉलोनी रायपुर

मोर मयारुक दादी

एहुत पहली के बात हरे जब मैं डिग्री गर्ल्स कालेज में बी ए प्रीवियस के विद्यार्थी रेहेव। तब विद्यार्थी मन ल एन. सी. सी. या एन. एस. एस. में से कोई एक ल चुनना जरुरी रहय। तब मैं एन. एस. एस. ले रेहेव। तब हमर पाण्डेय मेडम एन. एस. एस. के प्रभारी शिक्षिका रिहिस। ओकरे डहर ले कैम्प मा जाये बर मोला चुने गे रिहिस अउ ओकरे ले पता चलिस कि ए दारी एन. एस. एस. के समूह ल दामाखेड़ा गांव जाये बर परही अउ उहां जाके सामाजिक कार्य करे ल परही। गांव म जाके श्रमदान करे ल परही। तब दिसम्बर के महीना म हमन बस म चढ़ के मंझनिया बेरा 3 बजे दामाखेड़ा गांव पहुंच गेन। उहां जा के चार–पांच दिन में सब्जी बेचइया मन बर चंवरा के बनाए के उदिम करेन। बड़े बिहनिया 9 बजे ले 1 बजे तक श्रमदान करन तेकर पाछू आके बने सपेट के दार–भात खावन। ओही गांव म कबीर के बहुत अकन अनुयाई रहिन, जउन ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करय अऊ संन्यासी के जइसे उहां जीवनयापन करयं। महिला अउ पुरुष दूनों उहां रहत रहिन। उहां के दार–भात, रोटी सब्जी गजब स्वादिष्ट और आरुग रहय। उहां भोजन के बेरा होवय तहां भोजन के समय रसोईया मन गोहार लगावय भोजन पावव संतमन। अइसना उन्कर गोहार मोला गजब नीक लागय। अभी भी मेहा जब कभू भी भोजन करे बर बुलाथंव त मोर मुंह ले एही बात निकलथे। आवव भोजन पावव संत। उहां कोनो गृंघ मुनि रहिन जउन ओ आश्रम के संचालक रहिन। 1 बजे ले लेके 2 बजे तक भोजन करे के रहय, ओकर पाछू बौद्धिक परिचर्चा के कार्यक्रम के बेरा हो जावय कोनो एक बिषय म भाषण अउ वाद–विवाद के बिषय मिलय जेमा अपन–अपन बिचार ल बोले ल परय। जेमा एकले बढ़के एक बोलइया नोनी मन अपन बिचार ल ब्यक्त करय। एक दिन हमन ल वाद – विवाद बर विषय मिले रहय कि, बर बिहाव अपन जात म करना चाही। मैं विषय के पक्ष में अपन सुघ्घर बिचार बतायेंव त आने–आने बिद्यार्थी मन बिषय के बिपक्ष म घलो सुघ्घर बिचार बात रखिन। भजन अउ सुघ्घर–सुघ्घर गीत घलो गावन।

उंहा बौद्धिक परिचर्चा ल सुनेबर गांव के बिदुषी गुणी महिला मन आवयं अउ हमर परिचर्चा भाषण जम्मों ल सुन के गजब खुश होवय। ओही गांव मा एक सियनहिन वृद्ध महिला रहय जउन कि गजब विदुषी रहय। जउन वाद– विवाद ल सुन के बहुत आनंद लेवय। वो हर गांव के सरपंच घलो रहिस अउ ओला हमन मिश्रा दादी कहन। दिखे मा गजब सुंदर, फक-फक ले गोरी, लम्बी,गजब सुंदर आकर्षक नाक – नक्शा वाली बहुत सुंदर महिला रिहिस। वोकर पूरा व्यक्तित्व बहुत आकर्षक रिहिस अऊ वो हर बहुत सुघ्घर मनमोहक हारमोनियम बजावत रिहिस। वोहर अकेल्ला घर म रहय। ओकर कोनो बाल–बच्चा लोग लइका नी रिहिस। वोहर गांव के सरपंच रिहिस अउ समाज सेविका के जम्मो गुण ओकर अंदर रिहिस। फिल्म में दादी ल जइसना सुघ्घर दिखाथें वइसने दिखय। वो विदुषी महिला मोर भाषण अउ वाद–विवाद ल सुनके बहुत प्रभावित होइस अउ मोर ले गजब मया करे लागिस। अइसने वोहर चार–पांच दिन तक हमर बौद्धिक परिचर्चा कार्यक्रम मा आवय हमर गोठ बात ल धियान देके सुनय अउ मोला ओकर बहुत मया मिले लागिस अउ बहुत अकन नोनीमन जउन एन एस एस कैंप में आये रहिन ते मन ला ये बात एक्को बने नी लागत रिहिस। त वो मन मोला डेरवा दीन कि वो महिला तोला जादू – टोना कर देही। तैं वोकर ले ज्यादा मत मिले–जुले कर दुरिहा रेहे कर। अइसे बोलके वोकर से मिलेजुले से रोकयं। जब भी वो दादी आवय त एही पूछय के संध्या कहां हे? तब मोर वो संगवारी मन संध्या तो दूसर काम बर गे हावय। अइसे बोल के मोला कहूं लुका देवयं। तब वो दिन में मैं कतेक बुद्धू रेहेंव कि वो दादी के मया ल समझ नी पायेव। हमन तब दामाखेड़ा गांव में 10 दिन रेहेन। 10 दिन के बाद हमार एन एस एस के शिविर खतम होवइया रहिस अउ हमन अब वापिस रायपुर लहुटइया रेहेन। तब वाकई म वो दादी ल मोर ले बहुतेच मया होगे रिहिस अउ वोहर पता कर लिस कि हमन कब लहुटबो। हमर मन के लहुटे के तियारी चलतेच रहीस तभेच वो दादी आइस और गजब प्यार ले मोला अपन हिरदे ले लगा लिस अउ आंसू भरे आंखी ले मोला देखिस अउ शिकायत धलो करिस, कि मैं तोर ले मिलेबर कई बार आयेंव फेर तोला नी पायेंव। तोर सुभाव गजब सुघ्घर हावय, तोर महतारी–बाप मन सुघ्घर संस्कार देहे हावय अउ तैं गजब सुघ्घर गीत गाथस। तोर कंठ गजब मीठ हावय कोयली बरोबर मीठ गाथस अउ सरसती दाई के घलो किरपा हावय। तें गजब सुघ्घर बोलथस। 10 दिन ले मिलत–मिलत तोर ले गजब मया होगे हावय। जम्मों नोनी मन ले दुरिहाय ल परही–ये सोच के बने नी लागत हे। मोर मन बहुत दुखी हावय, अइसे बोल के मोर तीर आइस अउ किहिस तोर ले मोला गजब मया होगे रिहिस वोकर अंतस के मया हर आंसू बन के आंखी ले ढरे लगिस अउ केहे लागिस–फेर कभू अपन माता– पिता के संग कभू भी आबे अउ जब आबे त जरूर मोर से मिलेबर आबे। अइसे कहत कहत मयारुक दादी हर एक ठन कलम मोर हाथ म थमादिस अउ रद्दा मा खाये बर बहुत अकन फूटे चना दिस, अउ अपन आंसू बोहात रोवत धोवत मोला विदा करीस। तब मोला अपन गलती के पता चलिस कि वो दादी मोर ऊपर कोनो टोना जादू करेबर नी आवत रिहिस भलुक मोला बिकट मया करय अपन पोती समझ के मया करे बर मोर तीर आवय।

आज घलो मोला मयारुक दादी के मुस्कियात चेहरा मोला दिखथे अउ अब अपन मूर्खता ऊपर मोला तरस आथे बड़ गुस्सा आथे, कि मैं ओकर मया ल नी समझ पायेंव। अपन झोली मा नी धर पायेंव। मैं भगवान ले विनती करत हव वोहा जिहां भी होही सुखी रहय। खुश रहय। ओकर चरण मा मोर बारम्बार वंदन हे नमन हे।

–डॉ संध्या रानी शुक्ला, रायपुर

चेंदरू–18

जंगल म चेंदरू ला बघवा संग खेलत देख .. गाँव के मन घला .. बघवा के आगू म जाय के कल्पना कर डरय .. फेर हिम्मत नइ होय । बघवा तो बघवा आय ... जंगली जानवर के कतेक भरोसा ... तेकर सेती अकेल्ला दुकेल्ला रात बिकाल के बाहिर बट्टा जाय बर गोड़ नइ उचय । गाँव हा अतेक कटकऊँवा जंगल के बीच म बसे रहय .. जिंहा चारों डहर जंगली जानवर के डर रहय ।

पहिली कभू कभू ... गाँव म हुर्रा चितवा खुसर जाय अऊ छेरी पठरू कुकरी ला धर के लेग जाय । फेर चेंदरू संग बघवा हा संगवारी जबले बने रहय तब ले .. गाँव भितरी बघवा के बेर उज्जर अवई आम बात होगे रिहिस ... फेर ओहा नकसान नी करय । बघवा के सेती .. नान नान जंगली जानवर मनके .. गाँव भितरि खुसरना चुमुकले बंद हो चुके रिहिस । जे दिन चेंदरू हा जंगल नी जाय ते दिन ... बघवा हा ओकर ले मिले बर पहुँच जाय अऊ चेंदरू के घर के आगू रस्ता म आ के बइठ जाय । लोगन के निकलना दूभर हो जाय । उँकर बुता काम प्रभावित हो जाय । गाँव के मन चेंदरू के दाई ददा ला कहय के बघवा संग दोस्ती बने नोहय ... जंगली जानवर के काय भरोसा ... । महतारी ह चेंदरू ला समझाय ... फेर चेंदरू ला अब मनखे ले जादा भरोसा .. जानवर के रिहिस । ओहा हव जरूर कहय फेर जानवर मन संग दोस्ती ला घलो छोंड़ना नी चाहय ।

एक दिन गाँव म बइठका सकलागे अऊ बघवा ला भगाय के उपाय खोजे लगिन । सबके बीच होय बिचार बिमर्ष म इही बात अइस के नरवा पार के जंगल ला काट के चतवार दे जाय ... बघवा के माड़ा के मुँहु ला पथरा म तोप दिये जाय ... ताकि बघवा हा जंगल भाग जाय ... । जवान होवत चेंदरू तिर अक्कल भारी रिहिस । ओहा तिर तखार तो काय ... धूरिहा तको के हरियर हरियर रुख रई ला घला काटे बोंगे ले मना करिस । गाँव के मनखे मन .. लइका आस कहत .. ओकर बात ल माने ले इंकार करिन .. । चेंदरू ला कुछ मन दबकारत कहि दिन ... तैंहा का जानबे .. तोरे सेती तो अइसन करे ला परत हे ... । ओकर बात ला कोन्हो नी मानिन ।

जंगल चतवारे के बुता शुरू होगे । जंगल कटाय लगिस । बघवा के माड़ा के मुँहु म पथरा मढ़हा दिन । बघवा बघनिन हा परिवार सुध्धा जंगल के भितरि डहर चल दिस । नान नान जंगली जानवर मन घला भागगे तहन ... दूसर डहर ले पहाड़ी के चितवा , भालू , हुर्रा मन घर भितरि खुसरे लगिस । घर के गाय – गरू , छेरी – पठरू, कुकरी – बोकरा धीरे धीरे सिराय लगिस । कुछ दिन म .. सब ला समझ आगे । गाँव म फेर बइसका सकलागे ।

चेंदरू के बात ला ध्यान नी देय बर .. ओकर ले माफी मांगिन अऊ उपाय खोजे बर किहिन । चेंदरू हा आय दिन जंगल भितरी जात रहय अऊ बघवा बघनिन संग मिलत रहय । ओहा उँकर भाखा समझय अऊ बघवा बघनिन मन चेंदरू के भाखा ला समझय । चेंदरू हा उपाय बतावत किहिस – बघवा के परिवार हा अपन जुन्ना माड़ा म रेहे बर आ जहि तहन ओकर डर म .. दूसर जंगल के जानवर मनके आना जाना हा बंद हो जहि । रिहिस बात बघवा बघनिन के ... में उनला गाँव भितरी म आय बर मना कर देहूँ अऊ गाँव ला कोन्हो किसिम के नकसान नी करे के आस्वासन घला ले लुहूँ ।

दूसर दिन गाँव वाले मन .. बघवा के जुन्ना माड़ा के मुहुँ म माढ़े पथरा ला घुँचा दिन अऊ भितरि ला साफ सफई घला कर दिन । एती चेंदरू हा बघवा बघनिन अऊ ओकर नान नान पिला मनला ओकर जुन्ना माड़ा म ले आनिस । बघवा बघनिन के गंध म ... दूसर जंगल के जानवर मन .. गाँव भितरी खुसरे के हिम्मत नी करय । गाँव के घरेलू जानवर मन सुरक्षित होगिन । गाँव म खुशियाली छागे ।

हरिशंकर गजानंद देवांगन,
छुरा

पुरखा के सुरता
14 वीं पुण्यतिथि

जनकवि –विश्वम्भर यादव 'मरहा'

हमर छत्तीसगढ़ म जउन समय म हिन्दी लिखइया साहित्यकार मन के गजब जोर रीहिन हे।अइसन बेरा म कुछेक रचनाकार मन छत्तीसगढ़ी म साहित्य साधना करके अपन एक अलग चिन्हा छोड़िस वोमा पं. सुन्दर लाल शर्मा, कोदू राम दलित, पं. द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र , मेहत्तर राम साहू, नारायण लाल परमार,विमल कुमार पाठक, दानेश्वर शर्मा, लक्ष्मण मस्तुरिया, संत कवि पवन दीवान , मेहत्तर राम साहू,मुकुन्द कौशल, रामेश्वर वैष्णव, जीवन यदु,सुरेन्द्र दुबे ,विश्वंभर यादव 'मरहा ' के नांव सामिल हे ।दलित जी जइसे मरहा जी हा घलो हास्य– व्यंग्य के सुघ्घर कवि रिहिन हे । मरहा जी कवि सम्मेलन के मंच म छा जाय ।जइसे दलित जी के सही मूल्यांकन नइ हो पाइस वइसने मरहा जी के घलो उपेक्षा करे गिस । जउन ढंग ले मान –सम्मान के हकदार रिहिन वोहा नोहर होगे. मात्र एक हफ्ता स्कूल जवइया मरहा ला तो कुछ बड़का साहित्यकार मन कवि घलो नइ मानय। लेकिन ये जन कवि ह अपन छत्तीसगढ़ी कविता के माध्यम ले जउन पहिचान बनाइस वोहा काकरो ले छुपे नइ हे ।

छत्तीसगढ़ के दुलरवा बेटा ,जन कवि विश्वंभर यादव 'मरहा' के जनम दुर्ग शहर के तीर बघेरा गाँव मा 6 अप्रैल 1931 मा पहाती 4 बजे होइस । वोकर ददा हा सुग्घर भजन गावय ।साधारण किसान परिवार मा जनम लेवइया विश्वंभर

हा चन्दैनी गोंदा के संस्थापक दाऊ रामचंद्र देशमुख जी के घर काम करे के संगे –संग चन्दैनी गोंदा मा अभिनय करके अपन लोहा मनवाइस । वोहा 1944 ले रचना लिखे के चालू करिस ।दाऊ रामचंद्र देशमुख ले वोला लिखे के प्रेरणा मिलिस ।

ले देके अपन नांव लिखे बर सीखे मरहा हा सैकड़ों छत्तीसगढ़ी कविता रचिस । कतको कविता वोला मुँहखरा याद रिहिन ।अपन रोजी रोटी बर मरहा हा बढ़ई के काम करे अउ सुग्घर ढंग ले कविता के सृजन करे ।शरीर ले वोहा भले दुबला पतला रिहिन पर वोहा अपन कविता पाठ के समय गजब सजोर नजर आय। धोती कुर्ता अउ गांधी टोपी पहन के वोहा बुराई, भ्रष्टाचार, अत्याचार करइया मन ला ललकार के समाज सुधार अउ देश प्रेम ला जगाय के काम करय ।छत्तीसगढ़िया मन के सोसन करइया अउ छत्तीसगढ़ी भाखा के हीनमान करइया मन बर अलकरहा बिफर जाय ।सादा जिनगी जियइया अउ उच्च बिचार रखइया मरहा हा संत कबीर के समान कोनो शासक अउ नेता के सामने नइ झुकिस ।

सबले पहिली मरहा ला मेहा सुरगी के तीर मोखला गाँव म रामचरित मानस प्रतियोगिता म काव्य पाठ करत देखे रेहेंव ।वो समय मँय हा हाईस्कूल मा पढ़त रेहेंव ।मरहा के कविता ला सुनके हजारों नर– नारी के मन हा गदगद हो जाय । घंटा भर कविता पाठ करे के बाद जब वोहा बताय कि ले अब मेहा बइठत हंव तब श्रोता मन चिल्ला के कहय कि मरहा जी

अउ कविता सुनाव । तो अइसन वोकर कविता के जादू राहय ।मरहा हा साल भर कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठी अउ सभा म व्यस्त राहय ।वोहा 365 दिन मा मात्र 65 दिन घर म रहय ।छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन अउ छत्तीसगढ़ी ल राजभाखा बनाय बर आयोजित कार्यक्रम म घलो उछाह ले भाग लेवय ।

मरहा उपनाम अइसन पड़िस

6 मई 2005 के बात आय। मंय ह मोर कवि मितान दिलीप कुमार साहू अमृत (सुरगी) के छोटे भाई हेमंत साहू के बराती गे रेहेंव । मोर संग रचनाकार संगवारी भूपेन्द्र कुमार साहू 'सृजन' (कोटराभांठा) घलो गे रिहिन। खाना खाय के बाद समय के उपयोग करे के बारे म सोचेन ।हम दूनों पूछत – पूछत मरहा के घर पहुंच गेन। मरहा जी ल पैलगी करे के बात गोठ –बात के सुरूआत करेंव। पहिली ले एक दूसरा ले परिचित रेहेन। गोठ बात ल मंय ह एक कागज म लिखत गेंव।

मंय ह पूछेंव कि आप मन के 'मरहा' नाम कइस पड़िस ।तब वोहा बताइस कि एक बड़का कार्यक्रम म माई पहुना चंदैनी गोंदा के सर्जक दाऊ रामचंद्र देशमुख ह रिहिन अउ पगरईत संत कवि पवन दीवान जी ह करत रिहिन ।

मंच संचालन के कारज ल श्याम लाल चतुर्वेदी जी ह करत रिहिन । तब विश्वंभर यादव जी के शरीर ल देखके दाउ रामचंद्र देशमुख जी के मन म बिचार अइस अउ अपन बात ला पवन दीवान जी ल बताइस कि 'मरहा' उपनाम कइसे रही । अब्बड़ हाँसत दीवान जी ह येकर समर्थन करिन । उही दिन ले विश्वंभर यादव जी के उपनाम 'मरहा' पड़गे।

काव्य शिरोमणि ले सम्मानित होइस

एक घांव बिलासपुर के राघवेन्द्र भवन म राष्ट्रीय कवि गोपाल दास नीरज जी के सम्मान म 'नीरज नाईट' आयोजित करे गे रिहिस ।इही समय डॉ. गिरधर शर्मा जी ल मरहा जी के प्रतिभा के बारे म पता चलिस त वोहा एक हफ्ता बाद उही राघवेन्द्र भवन मा 'मरहा नाईट' के आयोजन रख दिस ।एमा लोगन मन के अब्बड़ भीड़ उमड़गे । मरहा जी ह घंटों काव्य पाठ करके सबके दिल जीत लिस ।मरहा के सम्मान मा उच्च न्यायलय बिलासपुर के न्यायधीश रमेश गर्ग जी हा किहिस कि ' पहिली संत कबीर जी के बारे मा सुने रेहेंव, पढ़े रेहेंव ।आज वोला मेहा मरहा के रुप मा साक्षात सुनत हंव ।'ये कार्यक्रम म मरहा जी ला 'काव्य शिरोमणि' के उपाधि ले सम्मानित करे गिस । गिरधर शर्मा जी हा मरहा के कविता के संकलन करके प्रकाशित करवइस अउ कविता ल जन जन तक पहुंचाय के सुग्घर उदिम करिस ।जब सुरगी मा कवि सम्मेलन होइस तब मरहा जी हा महू ला अपन दो ठन कविता संग्रह भेंट करे रिहिस ।ये दूनों कविता संग्रह ल एक झन मोर संगवारी हा पढ़े बर मांगिस तउन हा आज तक मोला नइ लहुंटाइस ।

सम्मान

मरहा जी ल काव्य साधना बर रायपुर, बेमेतरा, राजनांदगांव, सुरगी, कुम्हारी, जेवरा सिरसा, भिलाई, गुण्डरदेही, मगरलोड, मुजगहन, बालोद के कई ठन सभा समिति मन सम्मानित करिस । साकेत साहित्य परिषद् सुरगी जिला राजनांदगांव ह मरहा जी ल बछर 2008 म साकेत साहित्य सम्मान ले सम्मानित करिस । येहा मोर सौभाग्य रिहिस कि महू हा उही साल मरहा जी के संग साकेत सम्मान ले सम्मानित होयेंव ।मेहा मरहा जी के संग सात बर कवि सम्मेलन मा काव्य पाठ करे रेहेंव । वोकर कविता हा आकाशवाणी अउ दूरदर्शन म प्रसारित होवत राहय।

मरहा जी अब्बड़ अनुशासनप्रिय आदमी रिहिन । कोनो कार्यक्रम हा चालू होय मा देरी हो जाय नइ ते कोनो व्यवस्था ला कमजोरहा पाय ता आयोजक मन बर नंगत भड़के ।

शोषण करइया मन उपर गजब कविता लिखे हे–

साबर –साबर जइसे चुराके,
हक जमा लेव परिया मा ।
सुई जइसे दान करके,
कोड़ा देव तरिया ला ।

भ्रष्टाचार ला देखके वोहा अइसन कलम चलइस–

सिधवा मन लुलवावत हावय,
अउ गिधवा मन मेड़रावत हावय ।
कुकुर मन सुंघियावत हावय,
अउ खीर गदहा मन खावत हावय ।
दुवारी मा रखवारी करथय कुसुवा मन,
अउ भीतरे भीतर भीतरावत हावय मुसुवा मन
।

नवा नवा कानून बनाथे कबरा मन,
अउ बड़े बड़े पद मा हावय लबरा मन ।
दिनों दिन बाढ़त हावय झगरा मन,
भारत ला लीलत हावय दूसर देश के करजा मन ।
स्वार्थी मन के हाथ मा हावय,
भारत के सब बड़े बड़े दर्जा मन ।
दलाल मन सब मजा उड़ावय,
अउ भोगत हावय परजा मन ।
कब सुधरी हमर भारत के हाल हा,
दलाल मन ला कब पूछहू, कहां जाथे माल हा ।

वोकर कविता मा जन जागरण के स्वर देखे ला मिलथे–

गजब सुते हव अब तो जागव ,
अब्बड़ अकन अभी काम पड़े हे ।
अंग्रेज मन चल दिहिन तब ले ,
अभी अंग्रेजी मन के भूत खड़े हे ।
दिन अऊ रात इंहा भाषण देथय,
घुघवा मन ह बन के गियानी ।
हंस बिचारा लुकाय फिरत हे ,
देख– देख के उंकर मनमानी ।
मान मर्यादा नियाव ल छोड़ के ,
सब कटचीप मन सुख पावत हे ।
सत धरम म चल के सिधवा मन ,
जिनगी भर दुख पावत हे।
गॉव शहर म बंगला हे ,
घूसखोर बेईमान अउ गिरहकट के।
हरिशचन्द्र हावय आज के कंगला ,
रखवार बने हे मरघट के ।
जगा – जगा बने हावय अड्डा ,
चोर फोर अऊ हड़ताल के ।
अइसन म हे कउन देखइया ,
दीन दुखी कंगाल के ।
भेदभाव ल छोड़, देश के काम म लगव ,
सुतत–सुतत रात बितायेव, अब तो जागव।

मरहा जी ल अपन भाखा छत्तीसगढ़ी ले गजब लगाव राहय ।मरहा के कहना राहय कि – 'हमन छत्तीसगढ़ मा बोलन, लिखन अउ पढ़न तभे हमर भाखा हा पोठ होही ।'

नवा लिखइया मन ला वोहा काहय कि – 'रचना ला शब्द ले अतेक जादा झन सजावव के ओखर चमक उतर जाय ।जमीन मा रहिके जमीन के बात करना चाही ।'

एक घांव सुरगी म कवि सम्मेलन होइस ।येमा मरहा जी ला विशेष रुप ले आमंत्रण करे रेहेन ।कार्यक्रम सुरू होय से पहिली कवि मन के बइठक बेवस्था मोर घर म रिहिस ।ये कवि सम्मेलन मा डोंगरगॉव के तीर मा बसे गाँव माथलडबरी के आशु कवि तिलोक राम साहू बनिहार जी ह घलो आमंत्रित रिहिस ।बड़े भइया कवि महेन्द्र कुमार बघेल मधु जी (कलडबरी) के संग बनिहार जी हा हमर घर पहुंचिस । मरहा जी, निकुम के गीतकार भैया प्यारे लाल देशमुख जी अउ दुर्गा प्रसाद श्याम कुंवर जी ह पहिली ले हमर घर पहुंच गे रिहिन । मोर बाबू जी मेघू राम साहू जी संग सुग्घर ढंग ले कवि मन गोठियात बतात रिहिन ।इही बीच मा पहुंचे बनिहार जी हा आतेसात मोर बाबू जी ला देखते –देखत कई ठक कविता सुना डारिस ।बाबू जी हा हाव– हाव काहत सुनत गिस ।पर बनिहार जी हा कविता सुनाय के चक्कर मा अतिरेक कर डारिस ।ये बात ह मरहा जी ला पसन्द नइ आइस अउ भड़क के बनिहार जी ल टोकिस।

अइसने बछर 2009 म मोखला म आयोजित साकेत के वार्षिक सम्मान समारोह म सोमनी के बस स्टेन्ड ले मोखला लाय के जिम्मेदारी मोर रिहिस हे ।मरहा जी हा बघेरा ले फोन करिस कि अंकुर मंय ह अब मोखला बर निकलत हंव । मेहा थोरकुन ये सोच के देरी कर डारेंव कि मरहा जी ल सोमनी आय म समय लगही ।लेकिन वो दिन मरहा जी ल दुर्ग आतेसात सोमनी बर बस मिलगे ।जब मेहा अपन गाड़ी म मरहा जी ला लाय बर पहुंचेव ता ये देख के मेहा दंग रहिगेंव के मरहा जी दंगर× दंगर पैदल रेंगत भरेगॉव पुल के तीर पहुंच गे राहय ।मेहा अकबका गेंव । सबले पहिली मेहा मरहा जी ला देरी मा पहुंचे बर मांफी मांगत पैलगी करेंव खुश राहव जरूर किहिस ।पर मरहा जी के रिस ह तरवा मा चढ़गे रिहिस । वोहा किहिस मोर जांगर म अभो ताकत हे ।वोहा मोर गाड़ी मा नइ बइठ के तुरतुर –तुरतुर रेंगे ला धर लिस ।फेर मेहा मरहा जी के तीर मा जाके फेर केहेंव कि ले बबा मोर गलती ल माफी देवव अउ गाड़ी मा बइठ जावव ।तहां ले मरहा जी हा गाड़ी मा बइठिस । फेर मध्य हऊंकर घर के हाल चाल पूछेंव अउ मोर घर के हाल चाल मरहा जी ह पूछिस ।मेहा मने –मन सोचेंव बनिस ददा मोर काम हा ।काबर कि मरहा जी के रिस ला तो मेहा दू तीन बेर कार्यक्रम मा देख चुके रेहेंव ।

स्वाभिमानी मनखे

गरीबी के बावजूद वोहा कभू अपन स्वाभिमान ल नइ बेचिस ।

आयोजन म घलो नेता मन के बखिया उधेड़ के रख देय ।कतको विसंगति उपर जमगरहा कविता सुनाके सुधार के बात करय अउ लोगन मन म जन –जागृति फैलाय के काम करिन ।अइसन जन कवि हा 10 सितंबर 2011 मा अपन नश्वर शरीर ला छोड़ के परम धाम म पहुंच गे ।मरहा जी ला शत् शत् नमन हे ।

ओमप्रकाश साहू 'अंकुर'
सुरगी, राजनांदगांव

आईडीएफ ने मार गिराई यमन से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल

तेल अवीव, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। इज़रायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने शनिवार को कथित तौर पर यमन से तेल अवीव की ओर दागी गई क्लस्टर बम से लैस एक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया। यमन के सना स्थित हूती समूह ने इस हमले की ज़िम्मेदारी लेते हुए कहा है कि यह शहर में संवेदनशील ठिकानों पर लक्षित एक क्लस्टर बम से लैस मिसाइल थी। टाइम्स ऑफ़ इज़रायल की रिपोर्ट के अनुसार इज़रायली बलों ने पुष्टि की है कि मिसाइल को सफलतापूर्वक रोक दिया गया। हालांकि सेना ने बम के क्लस्टर विस्फोटक होने के हूती के दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की। रिपोर्ट के अनुसार हमले में किसी के घायल होने या किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है।

देश विदेश

पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने की गिलगित-बाल्टिस्तान में राहत व बचाव कार्यों की निंदा, कहा

विस्थापित परिवार असुरक्षित आश्रय स्थलों में रहने को मजबूर

■ **आपदा प्रभावित लोगों के लिए बनाए राहत कोष में पारदर्शिता व जवाबदेही का अभाव**

इस्लामाबाद, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद कई मानवाधिकार समूहों ने गिलगित-बाल्टिस्तान में राहत कार्यों की निराशाजनक स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि बाढ़, भूस्खलन और हिमनद झीलों के फटने की घटनाएं बढ़ने से समाज में हाशिए पर रहने वाले लोगों को संकट का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है।

देश में इस संकट के लिए राज्य और उसके बाद पाकिस्तानी सरकारों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए : मानवाधिकार आयोग

गिलगित-बाल्टिस्तान में पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) द्वारा आयोजित एक आउटरीच बैठक में सदस्यों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विस्थापित परिवार असुरक्षित आश्रय स्थलों में रहने को मजबूर हैं। उन्हें न तो स्वच्छ पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं और न ही शिक्षा की सुविधा मिल पा रही है। उन्होंने महिलाओं, बच्चों, दिहाड़ी मजदूरों, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर लोगों की उपेक्षा की ओर ध्यान आकर्षित कराया। बैठक में यह भी बताया गया कि आपदा प्रभावित लोगों के लिए बनाए राहत कोष में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है। एचआरसीपी के अनुसार बैठक में मौजूद लोगों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि गिलगित-बाल्टिस्तान में आपदा प्रतिक्रिया को समावेशी, पारदर्शी और सम्मानजनक होना चाहिए।

इसके अलावा संवेदनशील परिवारों की सुरक्षा, उचित मुआवजे और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से पुनर्वास का आह्वान किया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिया कि पुनर्नवीनीकरण, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर रोक, आपदा तैयारी जैसे जलवायु न्याय उपायों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इससे पहले बुधवार को एचआरसीपी ने कहा था कि ये आपदाएं अब केवल प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानव निर्मित हैं।

पाकिस्तान के शरणार्थी शिविर में अफगान महिला से गैंगरेप

पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा के हरिपुर में स्थापित एक शरणार्थी शिविर में पांच पुरुषों ने कथित तौर पर 21 साल की अफगान महिला का गैंगरेप किया। स्थानीय मीडिया ने शनिवार को यह जानकारी दी। प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता काम के लिए कैंप-16 जा रही थी, तभी पांच लोगों ने उसे जबरन पास के खेतों में खींच लिया और दो घंटे तक उसका रेप किया। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने शनिवार को बताया कि एफआईआर में आगे कहा गया है कि अपराधियों ने पीड़िता से 3,000 रुपए नकद और एक सोने की नाक की पिन भी छीन ली। उसने संदिग्धों की पहचान बच्चा, नदी, रोजी खान, जावेद और नसीर के रूप में की है।

परिवार की महिलाओं को निशाना बना रहे जनरल मुनीर : इमरान

नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आरोप लगाया है कि सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर उनके परिवार की महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की कानूनी टीम ने संयुक्त राष्ट्र के स्पेशल रैपोर्टेयर ऑन टॉर्चर डॉ. ऐलिस जे. एडवर्ड्स से अपील की है कि इस दंपति के साथ हो रहे कथित दुर्व्यवहार को रोका जाए।

पीटीआई नेता सैयद जुल्फीकार ने एक्स पर पोस्ट किया, कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की ओर से संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक, डॉ. एलिस जे. एडवर्ड्स के समक्ष दो औपचारिक अपील दायर की गईं। इमरान खान के बेटों, सुलेमान और कासिम खान ने अपने पिता के लिए अपील दायर की है, जबकि मरियम वट्टू ने अपनी बहन बुशरा बीबी के लिए अपील भेजी की है। उन्होंने लिखा कि हम इमरान खान और बुशरा बीबी की मनमानी गिरफ्तारी और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ हर मंच पर आवाज उठाना कभी बंद नहीं करेंगे। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक राजनैतिक कैदी की पत्नी को सिर्फ उसका हौसला तोड़ने के लिए कैद किया गया है। पूरा देश इमरान खान के साथ मजबूती से खड़ा है, और हम कभी हार नहीं मानेंगे।

सुडोकू 7034

			3			9	8	
					9			
			5	2		4		
6	2							3
7			9	5	6			2
8							4	6
		5		4	3			
			2					
	1	4			5			

: नियम :

1. कुल 81 (9×9) वर्ग हैं, जिसमें 9 (3×3) वर्गों का एक खंड (ब्लॉक) बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1 से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते हैं।
3. बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे के प्रत्येक कॉलम,कतार और खंड में 1 से 9 अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हैं।

हल आज ही के अंक में

दैनिक पंचांग

mypandit.com 24 hour astrology service

■ बेजान दारूवाला

ग्रह स्थिति : रविवार 14 सितम्बर, 2025 क्वांर कृष्ण पक्ष 7

राशिफल

मेष - आज आपको आर्थिक मामलों और लेन-देन के मुद्दों में सतर्क रहने की जरुरत है। विवाद से बचें अन्यथा परिवार के सदस्यों के साथ कलह हो सकता है। खाने-पीने में सावधानी रखें। आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

वृषभ - आपका आज का दिन लाभकारी होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप काफी स्वस्थ रहेंगे। पूरे वक्त ताजगी का अनुभव करेंगे। आप अपनी कलात्मकता का उपयोग कर पाएंगे। आर्थिक योजना बना सकेंगे।

मिथुन - आपकी वाणी और व्यवहार के कारण असमंजस की स्थिति न उत्पन्न हो, इसका ध्यान देने की जरूरत है। आवेश और उग्रता के कारण किसी से तकरार न हो, इसका ध्यान रखें। स्वास्थ्य को लेकर समस्या रहेगी।

कर्क - आज का दिन आपके लिए लाभकारी है। नौकरी और व्यापार में भी लाभ के संकेत हैं। मित्रों के साथ आनंदपूर्वक समय गुजार सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह के योग हैं। आय के साधनों में वृद्धि होगी।

सिंह - आप अपने दृढ़ आत्मविश्वास और मनोबल से सभी काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी बौद्धिक प्रतिभा दिखेगी। नौकरी में पदोन्नति के योग बन सकते हैं।

कन्या - आपका आज का दिन आनंददायक रहेगा। आर्थिक लाभ होगा तथा विदेश में रहनेवाले सगे- संबंधियों के समाचार मिलेंगे, इससे आप काफी प्रसन्न रहेंगे। धार्मिक काम या धार्मिक यात्रा के पीछे खर्च होगा।

तुला - आज आपको किसी भी नए काम का आरंभ नहीं करने की सलाह दी जाती है। अपनी वाणी और व्यवहार को नियंत्रण में रखें। गलतफहमी के कारण आपको नुकसान हो सकता है।

वृश्चिक - आप आज के दिन पूरी तरह से आमोद-प्रमोद में बिताना पसंद करेंगे। अपने दैनिक कामों से मुक्त होकर अपने लिए थोड़ा समय निकाल सकेंगे। मित्रों के बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा। कहीं घूमने जा सकते हैं।

धनु - आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। घर का वातावरण आनंदप्रद रहेगा। शारीरिक रूप से स्वस्थता और मानसिक रुप से खुशी मिलेगी। नौकरी और व्यावसायिक स्थल पर वातावरण अनुकूल रहेगा।

मकर - आज मन में किसी बात की चिंता रहेगी। स्वास्थ्य का मामला कमज़ोर रहेगा। दफ्तर में उच्च अधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। संतान के साथ मतभेद होने की संभावना है। उनके स्वास्थ्य की भी चिंता रहेगी।

कुंभ - आज आपका मन बहुत संवेदनशील रहेगा और आप मानसिक रूप से अस्वस्थ्य रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आपके सभी काम आसानी से पूरे होंगे। सौंदर्य प्रसाधन के पीछे खर्च होगा।

मीन - अति आवश्यक काम को पूरा करने के लिए आज का दिन अच्छा है। आपकी रचनात्मक शक्तियों में वृद्धि होगी। वैचारिक दृढ़ता एवं मानसिक स्थिरता के कारण काम सफल रहेंगे। जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा।

नोट-उपरोक्त राशिफल बेजान दारूवाला द्वारा पूर्वलिखित है।

कतर के प्रधानमंत्री करेंगे ट्रंप से मुलाकात

वाशिंगटन, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से मिलेंगे। यह मुलाकात दोहा में इजरायली हवाई हमले के कुछ ही दिनों बाद हो रही है, जिसमें हमास के नेताओं को निशाना बनाया गया था। स्थानीय मीडिया ने इसकी जानकारी दी है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के भी इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि कतर के प्रधानमंत्री शुक्रवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ लगभग एक घंटे की बातचीत के बाद न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए।

व्हाइट हाउस में हुई बैठक को काफी सकारात्मक बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने में कतर की भूमिका



और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग समझौते पर चर्चा की। एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी साथ में डिनर करेंगे, जिसमें ट्रंप के एक शीर्ष सलाहकार, अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी मंगलवार को हुए इजरायली हमले के बाद कतर की ओर से बुलाई गई इमरजेंसी अरब समिट से ठीक पहले अमेरिका दौरे पर गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि उन्हें हमले के स्थान को लेकर बहुत दुख हुआ है और उन्होंने फोन पर कतर के नेताओं को आश्वासन दिया कि ऐसी घटना दोबारा उनके देश की जमीन पर नहीं होगी।

कतर ने इजरायल पर शांति की संभावनाओं को तोड़ने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। कतर ने कहा कि वह इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका से पीछे नहीं हटेगा।

ट्रंप ने सोरोस पर लगाया 'दंगों की फंडिंग' का आरोप

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस की गतिविधियों को संदेहास्पद माना है। दावा किया है कि यूएस में हो रहे विरोध प्रदर्शन को वो फंड मुहैया कराते हैं। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन पर 'रीको' यानी 'रैकेटियर इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस' एक्ट के तहत कार्रवाई का संकेत दिया है। सोरोस के एनजीओ 'ओपन सोसाइटी फाउंडेशन' ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया

कि उनका प्रशासन जॉर्ज सोरोस या उनके परिवार के खिलाफ धोखाधड़ी की जांच कर सकता है, और उन्होंने डेमोक्रेटिक मेगाडोनर पर विरोध प्रदर्शनों को वित्तपोषित करने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा कि और हम सोरोस की जांच करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यह उनके और अन्य लोगों के खिलाफ रीको का मामला है, यह सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर है। पिछले महीने ट्रुथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने इसी तरह की बात कही थी। उन्होंने सोरोस और उनके बेटे को चेतावनी देते हुए कहा था कि सरकार आप पर नजर रख रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने पिता-पुत्र की जोड़ी को साइकोपैथ का गुट नाम दिया था। ट्रंप वाशिंगटन डीसी के एक रेस्त्रां गए थे, जहां उनके विरोध में प्रदर्शन किया गया।

प्रथम पृष्ठ का शेष

मणिपुर मां भारती के मुकुट ...

अन्याय है। इसलिए हमें मणिपुर को लगातार शांति और विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाना है। उन्होंने यह भी कहा कि नेताजी सुभाष ने मणिपुर को भारत की आजादी का द्वार कहा था। इस मिट्टी ने अनेक वीर बलिदानी दिए हैं। हमारी सरकार, मणिपुर के ऐसे हर महान व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ रही है।

रोजगार के नए मौके भी बनाएंगे-परियोजनाओं के उद्घाटन को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट मणिपुर के सभी लोगों के जीवन की सुगमता बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे और रोजगार के नए मौके भी बनाएंगे। उन्होंने कहा, इंफाल में जो काम शुरू हुए हैं, उनमें दो परियोजनाएं बहुत अहम हैं। एक मणिपुर शहरी सड़क परियोजना, जिसकी लागत 3,600 करोड़ रुपए से ज्यादा है और दूसरी मणिपुर इन्फोटेक विकास परियोजना है, जिसकी लागत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये परियोजनाएं इंफाल में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगी और मणिपुर के उज्ज्वल भविष्य को नई ऊर्जा से भर देंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का ये समय ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का है। इसलिए मणिपुर के विकास को भारत सरकार ने निरंतर प्राथमिकता दी है। इसी का परिणाम है कि मणिपुर की विकास दर लगातार बढ़ रही है। पीएम मोदी बोले कि 2014 से पहले मणिपुर की विकास दर 1 प्रतिशत से भी कम थी, अब मणिपुर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है।

भारत सरकार मणिपुर के लोगों के साथ-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के सभी संगठनों से अपील की है कि वे शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें। प्रधानमंत्री मोदी ने इन संगठनों को भरोसा दिया कि वे उनके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग-अलग संगठनों के साथ समझौतों के लिए बातचीत हुई है। ये भारत सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है, जिसमें संवाद, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें। मैं आपके साथ हूं, भारत सरकार मणिपुर के लोगों के साथ है।

मोदी ने 3 ट्रेनों को ...

बुनियादी ढांचे और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाती है। यह रेल लाइन एक चुनौतीपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र में बनी है। इसके लिए जटिल भौगोलिक स्थितियों के तहत 45 सुरंगें बनाई गई हैं। इसमें 55 बड़े पुल और 88 छोटे पुल भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े।

864 दिन बाद...

की निर्दोष जिंदगियों पर बुलडोजर चला दिया है। आपकी तथा गृह मंत्री अमित शाह की घोर अक्षमता और वहां के सभी समुदायों को धोखा देने में संलिप्तता को राष्ट्रपति शासन लगाकर छानबीन के दायरे से बचा लिया गया।'

देर आए पर दुरुस्त नहीं आए: कांग्रेस

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हिंसा भड़कने के दो साल से भी ज्यादा समय बाद मणिपुर दौरे को लेकर शनिवार को जोरदार हमला बोला और दावा किया कि हिंसा के 864 दिनों बाद महज कुछ घंटे के लिए प्रभावित राज्य में जाना आत्म-प्रशंसा का स्टंट और राज्य की पीड़ित जनता का घोर अपमान है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि प्रधानमंत्री का सिर्फ पांच घंटे रुकना एक असंवेदनशील व्यवहार है। उन्होंने कटाक्ष किया, देर आए पर दुरुस्त नहीं आए।

कांग्रेस-एमपीपी यूथ विंग का प्रदर्शन

कांग्रेस और मणिपुर पीपुल्स पार्टी (एमपीपी) के यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को इंफाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल के पास प्रदर्शन किया। युवाओं ने प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध किया और इसे एक राजनीतिक चाल करार दिया।

एनआईटी रायपुर एफआईई को...

हुए कहा कि एनआईटी रायपुर एफआईई ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुकरणीय कार्य किया है। यह कंपनी छत्तीसगढ़ को उद्यमिता और तकनीकी विकास के क्षेत्र में एक मजबूत केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। एनआईटी रायपुर एफआईई को मिला यह सम्मान राज्य की आर्थिक वृद्धि और देश के स्टार्ट-अप इको-सिस्टम में छत्तीसगढ़ के योगदान का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने रस लग्ज़री ऑयल्स और आत्मिक भारत को भी उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई और शुभकामना दीं।

एनआईटी रायपुर के निदेशक डॉ. एन.वी. रमना राव ने इस सम्मान पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह पुरस्कार हमारी उस सोच को मान्यता देता है, जिसमें हम नवाचार को वास्तविक व्यापारिक समाधान में बदलने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने एफआईई की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि न केवल प्रौद्योगिकी-आधारित स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करती है, बल्कि भारत को वैश्विक नवाचार हब बनाने के लिए भी प्रेरित करती है।

एनआईटी रायपुर एफआईई की स्थापना वर्ष 2021 में की गई थी। यह एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में एनआईटी रायपुर के टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर के रूप में कार्यरत है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के निधि-टीबीआई कार्यक्रम के अंतर्गत 30 से अधिक स्टार्ट-अप्स को सहयोग प्रदान कर चुका है। इन स्टार्ट-अप्स में क्लीनटेक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और मल्टीडिसिप्लिनरी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है।

एनआईटी रायपुर एफआईई का संचालन एनआईटी रायपुर के अध्यक्ष डॉ. सुरेश हावरे, निदेशक डॉ. एन.वी. रमना राव और करियर डेवलपमेंट सेंटर के प्रमुख डॉ. समीर बाजपेयी के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसके परिचालन टीम में फैकल्टी इंचार्ज डॉ. अनुज कुमार शुक्ला, ऑफिसर इंचार्ज पवन कटारिया और सीईओ श्रीमती मेघा सिंह सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

एनआईटी रायपुर एफआईई ने तकनीकी नवाचारों को जमीनी स्तर पर उतारने में प्रभावशाली भूमिका निभाई है। एफआईई को मिला च्भारत इन्क्यूबेटर अवार्डज् न केवल इसकी उपलब्धियों की स्वीकृति है, बल्कि यह इस बात का भी संकेत है कि छत्तीसगढ़ अब देश के स्टार्ट-अप मानचित्र पर मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। यह उपलब्धि तकनीकी समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में छत्तीसगढ़ की भूमिका को गहराई से रेखांकित करती है।

व्यावसायिक शिक्षक भर्ती में दोषी...

कि 'कोरोना योद्धाओं' के लिए 10 फीसदी बोनस अंक का सरकारी आदेश भी कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। घोटाला उजागर होने के बाद व्यावसायिक शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी गई है। व्यवसायिक प्रशिक्षकों को कार्यभार ग्रहण नहीं कराए जाने का निर्देश सभी छह कंपनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जारी कर दिया गया था।आईसेक्ट लिमिटेड भोपाल, इंडस प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, लर्निंग लिमिटेड दिल्ली,ग्राम तरंग सर्विसेस स्किल, ट्री लिमिटेड मुंबई, नीटकान चंडीगढ़ को व्यावसायिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर द्वारा नियुक्त प्रशिक्षकों के ज्वाइनिंग पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे।

लोकतंत्र तभी फलता-फूलता...

दिया कि कानून और नीतियां केवल एक वर्ग या समूह के हितों को ध्यान में रखकर न बनें बल्कि वे समाज के सभी वर्गों की जरूरतों और चिंताओं को प्रतिबिंबित करें। उन्होंने कहा, विधायी संस्थाएं केवल बहस का अखाड़ा नहीं है, बल्कि वे समस्याओं को सुलझाने का केन्द्र भी हैं। जब किसान, युवा एवं महिलाओं के मुद्दे विधायी मंच पर चर्चा का विषय बनते हैं तो इनसे सरकार को दिशा मिलती है कि किन क्षेत्रों में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है और कौन से समाधान सबसे उपयुक्त होंगे।

विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा संवाद में है और जब संवाद कमजोर होता है तो लोकतंत्र की साख भी डगमगाने लगती है। संसद जो जनता की समस्याओं के समाधान का मंच होना चाहिए था कई बार केवल राजनीतिक टकराव और शोरगुल से न केवल गंभीर मुद्दे अनुसुने रह जाते हैं, बल्कि जनता के विश्वास पर भी आघात पहुंचता है। उन्होंने कहा कि सदन में तकनीकी विषयों जैसे, ऊर्जा संकट, साइबर सुरक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर गहन चर्चा का अभाव भी दिखाई देता है।'अध्यक्ष लोकतंत्र के प्रहरी हैं। उनकी निष्पक्षता, विवेक और दृढ़ता ही वह शक्ति है, जो संवाद और चर्चा को जीवंत रखती है और जनता के विश्वास को मजबूत बनाती है।

18 से शुरू होगी ...

तैयारी शूरू हो गई गई. वहीं इसे लेकर भाजपा नेता विजय गोयल ने पूरी जानकारी है. वे राजिम रेलवे समिति में सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। इस कार्यक्रम में उनके साथ रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी, अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू, राजिम विधायक रोहित साहू, प्रदेश भाजपा कार्यालय मंत्री अशोक बजाज, पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर साहू सहित अन्य गणमान्य नागरिक भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे।

आज का इतिहास

1774- भारत में सती प्रथा खत्म करने वाले लॉर्ड विलियम ब-ंटिक का जन्म हुआ।

1901- अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम म-किनले की अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई।

1917- रूस औपचारिक तौर पर गणतंत्र घोषित हुआ

1949-हिन्दी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया।

1960- खनिज तेल उत्पादक देशों ने मिलकर ओपेक की स्थापना की।

1998- माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी। अप्र-ल 1975 में स्थापित माइक्रोसॉफ्ट की 14 सितंबर 1998 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में की व-ल्यू 261 बिलियन डॉलर आंकी गयी।

1999- किरीबाती, नाउरू और टोंगा संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए।

2000- प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिकी सीनेट के दोनों सदनों की संयुक्त ब-ठक को संबोधित किया, ओलिंपिक मशाल सिडनी पहुंची।

2000- माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज एमई की लॉन्चिंग की। 2003- एस्टोनिया यूरोपीय संघ में शामिल हुआ।

2003- गुयाना-बिसाउ में सेना ने राष्ट्रपति कुंबा माला की सरकार का तख्ता पलटा।

2006- परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर इब्सा में सहमति। तिब्बत के आध्यात्मिक निर्वासित नेता दलाई लामा को संयुक्त राज्य अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा।

2007- जापान ने तानेगाशिया स्थित प्रक्षेपण केंद्र से पहला चंद्र उपग्रह एच-2ए प्रक्षेपित किया।

वर्ग पहेली 7034



बायें से दायें:-

१.वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो
४. कर्ण
६. मेघ, बादल
७. रहना, रहने की जगह
८. विघ्न, बाधा
९. नस, खून को सारे शरीर में प्रवाहित करने वाली शिरा
१२. बांटने नाला
१३. जलजला
१४. प्रश्न (उर्दू)
१५. जांचना, भले-बुरे की पहचान करने वाला
१७. घ्वनि, आवाज
१९. पुरस्कार (उर्दू)
२१. एक प्रसिद्ध पक्षी
२२. टेढ़ी-मेढ़ी, चतुराई भरी चाल चलने वाला
२४. कुआं आदि खोदने पर निकलने वाला प्रारंभिक पानी

ऊपर से नीचे:-

१. दिवालिया
२. प्रयत्नशील
३. ऊष्मा के प्रभाव को रोकने वाला
४. भीतरी, आंतरिक
५. नीरज, कमल
९. उंगलियों से छूकर पता लगाना
११. जिसकी पत्नी का देहांत हो गया हो
१२. बनाना, निर्माण करना
१३. विभाजन
१४. बरदास्त करना
१५. पका हुआ 'मेच्योर्ड'
१६. वह जगह जहां खेतों से फसल काटकर रखी जाती है
१८. गर्जना
१९. आविष्कार(उर्दू)
२०. बुद्धि
२३. मछली

वर्ग पहेली-7033

१ अ	नु	२ प	स्था	३ न	■	४ अ	सं	५ भ	व
नु	■	रो	■	६ र	क्त	प	■	गि	■
७ प	क्का	क्ष	■	सं	■	८ ना	ज	नी	९ न
क्त	■	क	■	१० हा	र	ना	■	■	न
■	११ स	र	१२ का	र	■	■	१३ सं	त	रा
■	ह	■	र	■	१४ नि	र्दे	श	■	ग
१५ शी	र्षा	१६ को	ण	■	ह	■	१७ य	१८ ती	म
र्षा	■	ला	■	१९ उ	त्था	२० न	■	स	■
२१ स	ला	ह	■	जा	■	२२ जा	फ	रा	२३ न
न	■	२४ ल	क	ड़	हा	रा	■	■	ग

युसूफ कुरैशी, मो. 8109948408

दुनिया को जानें

हैजा की चपेट में इस साल 31 देश, लगातार बढ़ रहा प्रकोप : डब्ल्यूएचओ

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की शनिवार को जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार, हैजा पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। 2025 में 31 देश इसका प्रकोप झेल रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इलाज उपलब्ध होने के बावजूद, 2023 की तुलना में 2024 में इस बीमारी से होने वाली मौतों में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लगातार दूसरे वर्ष, इस बीमारी से 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि इसके मामलों में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ये आंकड़े चिंताजनक तो हैं, लेकिन हैजा के वास्तविक बोझ को कम करके आंकते हैं। हैजा विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से होने वाला एक रोग है, जो मल-दूषित पानी के माध्यम से तेजी से फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या विस्थापन और पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में कमी हैजा के मामलों को बढ़ाती हैं।

खेल जगत

पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम को कोई परेशानी नहीं होगी : : अशोक असवलकर

मुंबई। भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के बचपन के कोच अशोक असवलकर ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल करने में टीम इंडिया को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अशोक असवलकर ने कहा कि भारतीय टीम लंबे समय बाद टी20 मैच खेल रही है। यूएई के खिलाफ हमारी टीम ने बड़ी जीत दर्ज की थी और उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इस मैच में टीम को अभ्यास का अच्छा मिला, जो आगे के बड़े मैचों में काम आएगा। असवलकर ने कहा, भारतीय टीम का अगला मैच पाकिस्तान के साथ है। इस मैच को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान देना है। अच्छी क्रिकेट खेल हम आसानी से जीत सकते हैं। अगर भारत के टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करते हैं , तो भारतीय टीम का स्कोर 200 के ऊपर जाएगा।

पाक को हराकर सुपर-4 में स्थान बनाने उतरेगा भारत

भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में हर खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के मकसद से उतरेगा

■ बेशक भारत जीत का दावेदार, पर पाक को हल्के में कतई नहीं लेगा

■ सत्येन्द्र पाल सिंह

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। सूर्य कुमार यादव की अगुआई में मौजूदा चैंपियन भारत दुबई में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ टी-20 क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए में अपनी जीत का सिलसिला आगे बढ़ाने और लगातार दूसरी जीत के साथ सुपर 4 में स्थान बनाने उतरेगा। बड़ा सवाल क्या शिवम दुबे की जगह भारत अर्शदीप सिंह को पाकिस्तान के खिलाफ एकादश में जगह देगा? भारत बेशक पाकिस्तान के खिलाफ जीत का प्रबल दावेदार है , बावजूद इसके वह उसे कतई हल्के नहीं लेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में हर खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के मकसद से उतरेगा ऐसे में खासे रोमांचक मैच की उम्मीद है। पहलगाम में पाकिस्तान की शह पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने अपनी सरकार के फैसले पर अमल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी द्विपक्षीय सीरीज खेलने से इनकार कर दिया। भारत में 22 अप्रैल को पहलगाम की आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एशिया कप में खेलने को लेकर अभी भी काफी गुस्सा है। भारत के टी-20 कप्तान सूर्य कुमार यादव मे पीसीबी और एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन के साथ एशिया कप ट्रॉफी के अनावरण के समय फोटो पर देश में खासी आलोचना हुई है। पहलगाम की आतंकी घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ द्विपक्षीय खेल संबंध खत्म कर दिए हैं और टीम को केवल बहुदेशीय मैचों में ही हिस्सा लेने की इजाजत दी है। भारत ने 2024 के आईसीसी टी-20 विश्व कप जीतने के बाद खेले में 20 टी में से 17 जीते हैं। भारत 11 बार एशिया कप फाइनल खेला और सात बार खिताब जीतने में सफल रहा है। भारत ने पाकिस्तान से 13 टी-20 में से दस अंतरराष्ट्रीय मैच जीते हैं। 2024 में आईसीसी टी-20 विश्व कप जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा, धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली और ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के टी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद भारत ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया और उनके साथ उपकप्तान के रूप में शुभमन गिल की मौजूदगी में टीम आक्रमण और संयम का आदर्श संगम है। भारत ने आठवें नंबर तक मजबूत बल्लेबाज को अपनी एकादश में रखा है। भारत ने एशिया कप से पहले इस साल जनवरी फरवरी में इंग्लैंड से पांच टी 20 मैचों की सीरीज 4-1 से अपने घर में जीती और टी-20 रेंकिंग मे नंबर 1 रहा है।

ध्यान पूरी तरह पाक के खिलाफ मैच पर : कोटक

हमारी भारतीय टीम का ध्यान पूरी तरह अपनी क्रिकेट पर है और उनके जेहन में क्रिकेट को छोड़ कर कुछ है ही नहीं है। हमारा ध्यान पूरी तरह अब पाकिस्तान के खिलाफ रविवार के मैच पर है। कोई एजेंडा नहीं है। कोई निजी पसंद और नापसंद नहीं है। कप्तान और कोच वही करेंगे जो कि भारतीय टीम के लिए जो सर्वश्रेष्ठ होगा। टीम में इसे लेकर किसी के भी जेहन में कुछ नहीं है।।जो एकादश में नहीं भी खेल रहा वह जो एकादश में है उसकी मदद करेगा। मेरा मानना है कि टीम को इसी तरह खेलना चाहिए।

रोमांचक होगा रविवार

राजकोट। एशिया कप 2025 में रविवार को भारत-पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होगी, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है। क्रिकेट फैंस इस मुकाबले को लेकर उत्साहित हैं। उनका मानना है कि टीम इंडिया इस हाई-वोल्टेज मैच को जीतने की प्रबल दावेदार है। क्रिकेट प्रशंसक धर्मेंद्र ने आईएएनएस से कहा कि एशिया कप 2025 में भारत का पहला मुकाबला शानदार रहा था। हमें आशा है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। उम्मीद है कि हमारे ओपनर्स इस मुकाबले में विस्फोटक बल्लेबाजी करेंगे। दोनों देशों के बीच लंबे समय बाद क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। हमारे पास एक नई टीम है। शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाजों से हमें खासा उम्मीदें हैं। वंश केशवानी ने कहा कि हम भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर काफी उत्साहित हैं।

भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला नहीं खेला जाना चाहिए : जाधव

पुणे। पीएम नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मनाएंगे। इस मौके पर लोगों को स्वास्थ्य और पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली को लेकर जागरूक करने के लिए पुणे में 'पुणे ऑन पेडल्स' और 'पुणे वॉकेथॉन' का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान केदार जाधव ने 14 सितंबर को एशिया कप में खेले जाने वाले भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर प्रतिक्रिया दी। केदार जाधव ने पत्रकारों से कहा कि मैंने पहले ही कहा था, मेरे हिसाब से भारत-पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला नहीं खेला जाना चाहिए, लेकिन रविवार को मैच होने जा रहा है। कुछ दिनों पहले आईएएनएस से बातचीत में पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने कहा था कि भारत को पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बतौर खिलाड़ी मैं जरूर चाहूंगा कि भारत-पाकिस्तान आपस में खेलें, लेकिन सबसे पहले मैं एक भारतीय हूं। पाकिस्तान बार-बार हमारे देश पर हमले कर रहा है। ऐसे में उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, न ही खेल संबंध। पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह भी इस मुकाबले पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। भज्जी ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला हमेशा ही सुर्खियों में रहा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद सभी ने कहा कि क्रिकेट और व्यापार नहीं होना चाहिए।

भारतीय टीम सर्वश्रेष्ठ, एशिया कप जीतकर लौटेगी : दिलीप वेंगसरकर

मुंबई, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज और बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता दिलीप वेंगसरकर मुंबई में एक किताब के लांचिंग समारोह में उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने एशिया कप पर बात करते हुए कहा कि भारतीय टीम चैंपियन बनकर लौटेगी। दिलीप वेंगसरकर ने कहा कि भारतीय टीम इस समय दुनिया की श्रेष्ठ टीम है। टीम में गहराई बहुत है। अच्छे स्पिनर्स हैं, तेज गेंदबाज हैं, ऑलराउंडर हैं। टीम के पास युवा और अनुभव का संतुलन है। पाकिस्तान के खिलाफ अगला मैच अहम है। लेकिन, पाकिस्तान टीम मजबूत नहीं लग रही। ऐसे में भारतीय टीम को जीत में ज्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। हालांकि, 20 ओवर के मैच में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल एक शानदार क्रिकेटर हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी। वह अभी 25-26 साल का है, लेकिन उसके पास काफी अनुभव है। वह भारत के लिए लंबे समय से खेल रहा है। आईपीएल खेलता है। कप्तान सूर्या के साथ-साथ सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि सभी एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि भारतीय टीम चैंपियन बनेगी। भारत ने एशिया कप में अपने सफर का आगाज धमाकेदार अंदाज में किया है। 10 सितंबर को भारत का मुकाबला यूएई के खिलाफ था।

जापान के खिलाफ ड्रॉ खेलने के बाद भी फाइनल में पहुंची भारतीय टीम

महिला एशिया कप हॉकी

हांगझोऊ, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन के हांगझोऊ में खेले जा रहे महिला एशिया कप हॉकी के सुपर 4 मैच के अपने आखिरी मैच में जापान के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला। भारत की तरफ से ब्यूटी डुंग डुंग और जापान की तरफ से शिहो कोबायाकावा ने गोल दागा। ड्रॉ के बावजूद भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई है।

जापान के खिलाफ भारतीय टीम ने मुकाबले की आक्रामक शुरुआत की। ब्यूटी डुंग डुंग ने 7वें मिनट में पहला गोल दागा और भारत की बढ़त 1-0 कर दी। पहले क्वार्टर तक भारत ने बढ़त बनाए रखी। दूसरे क्वार्टर में जापान ने बराबरी की पूरी कोशिश की, लेकिन भारत की मजबूत रक्षा पंक्ति ने उसके हर प्रयास को असफल कर दिया। पहले हाफ तक भारतीय टीम ने मैच में बढ़त बनाए रखी। तीसरे क्वार्टर में भारतीय टीम का आक्रमण जोरदार रहा और टीम ने लगातार अटैक की नीति अपनाई। तीसरे क्वार्टर में भी कोई गोल नहीं हो सका और भारतीय टीम आगे रही। अंतिम क्वार्टर में जापान ने आक्रमण तेज किया। भारतीय महिला हॉकी टीम के डिफेंस ने जापानी हमलों को लगातार नाकाम किया। मैच के आखिरी मिनट में जापान के लिए शिहो कोबायाकावा ने गोल किया। 58वें मिनट में किए गए इस गोल से जापान ने भारत की बराबरी कर ली। अंत तक मैच का परिणाम यही रहा। मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। जापान से पहले चीन के खिलाफ हुए मैच में भारतीय टीम को 1-4 से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि, जापान के साथ ड्रॉ खेलने के बाद भी भारतीय टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। भारतीय टीम के फाइनल में पहुंचने के लिए जरूरी था, चीन कोरिया को हरा दे। चीन ने सुपर4 के आखिरी मैच में कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसका फायदा भारतीय टीम को मिला। भारत फाइनल में पहुंच गई। फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से ही होगा। फाइनल रविवार को खेला जाएगा। जीत दर्ज करने वाली टीम हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेगी।

■ भारतीय महिला हॉकी टीम के डिफेंस ने जापानी हमलों को लगातार नाकाम किया

मीनाक्षी, जैस्मीन, नूपुर ने शानदार जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया

लिवरपूल, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। मीनाक्षी (महिला 48 किग्रा), जैस्मीन लैम्बोरिया (महिला 57 किग्रा) और नूपुर (महिला 80 किग्रा) ने अपने-अपने सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए लिवरपूल में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए कई स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद जगा दी। मीनाक्षी ने मंगोलिया की अल्तांत्सेत्सेग लुत्सेखान को 5:0 से हराया, जैस्मीन ने वेनेजुएला की ओमेलिन कैरोलिना अल्काला सेगोविया को 5:0 से हराया और नूपुर ने तुर्की की सेयमा दुज्तास को कड़ी टक्कर दी। भारत ने विश्व मुक्केबाजी - मुक्केबाजी के लिए हाल ही में गठित एक अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय - के तत्वावधान में आयोजित होने वाली पहली विश्व चैंपियनशिप में 20 सदस्यीय दल उतारा है और पुरुष और महिला दोनों स्पर्धाओं में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा है। पूजा रानी (महिला 80 किग्रा) सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी भारतीय मुक्केबाज हैं और आज बाद में उनका सामना इंग्लैंड की एमिली एस्क्विथ से होगा।

हरभजन के नाम की बीसीसीआई प्रमुख की दौड़ में शामिल होने की अटकलें

■ संघ द्वारा समर्थित उम्मीदवार ही चुनाव लड़ने के पात्र

मुंबई, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बाद अब स्पिनर हरभजन सिंह का नाम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के शीर्ष पद के लिए जोड़ा जा रहा है। तेंदुलकर पहले ही इस दौड़ में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन हरभजन ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, जिससे उनकी संभावित रुचि को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। पंजाब क्रिकेट संघ (पीसीए) द्वारा 45 वर्षीय पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह को नामांकित किए जाने से इस ताजा चर्चा में कुछ दम नजर आ रहा है। नामांकन आधिकारिक रूप से दाखिल होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी, क्योंकि केवल राज्य संघ द्वारा समर्थित उम्मीदवार ही चुनाव लड़ने के पात्र हैं।। हरभजन ने सभी प्रारूपों में 367 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का बीसीसीआई के कामकाज पर काफी प्रभाव है और यह सरकार खेल संस्थाओं में शीर्ष पदों के लिए अनुभवी खिलाड़ियों को प्राथमिकता देने के लिए जानी जाती है। सौरव गांगुली और रोजर बिन्नी, दोनों पूर्व भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, सत्तारूढ़ पार्टी की खिलाड़ी-प्रथम नीति के कारण ही बीसीसीआई अध्यक्ष बने चुके है। हरभजन ने क्रिकबज के फोन और संदेशों का जवाब नहीं दिया। उम्मीदवारों के इन पदों के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद सच्चाई सामने आ जायेंगी। बीसीसीआई के चुनाव अधिकारी ए.के. जोति के अनुसार, नामांकन विंडो 20 और 21 सितंबर तक खुली रहेगी और चुनाव 28 सितंबर को होंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के पदों के लिए चुनाव होना है। ऐसा माना जा रहा है कि बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के हालिया रुझानों को देखते हुए मौजूदा अध्यक्ष देवजीत सैकिया, प्रभतेज सिंह भाटिया और रोहन देसाई के क्रमश: सचिव, कोषाध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर बने रहने की उम्मीद है।

सार संक्षेप

यश राठौड़ दोहरे शतक से चूके

बेंगलुरु। आर स्मरण (नाबाद 37) और रिकी भुई (नाबाद 26) की जुझारू पारियों के दम पर साउथ जोन ने दलीप ट्राफी के फाइनल मुकाबले के तीसरे दिन शनिवार को दो विकेट पर 129 रन बना लिये है। हालांकि वह अभी सेंट्रल जोन के पहली पारी में बनाये गये स्कोर से 233 रन पीछे है।सेंट्रल जोन के कल के पांच विकेट पर 384 रन से आगे खेलना शुरु किया। सेंट्रल जोन का छठा विकेट सारांश जैन (69) के रूप में गिरा। उन्हें अंकित शर्मा ने बोल्ड आउट किया। 500 के स्कोर पर गुरजपनीत सिंह ने यश राठौड़ को अपना शिकार बना लिया और वह मात्र छह रन से अपना दोहरा शतक पूरा करने से चूक गये। यश राठौड़ ने 286 गेंदों में 17 चौके और दो छक्के लगाते हुए 194 रन बनाये।

सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन

पंचकूला। हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में शनिवार को बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे। हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में इस बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, जिसमें अंडर 15 और 17 आयु समूह के लड़के और लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। इस चैंपियनशिप में देश के अलग-अलग राज्यों से करीब 2,000 खिलाड़ी भाग लेने पहुंचे हैं। इस सेलेक्शन टूर्नामेंट में चुने गए खिलाड़ी चाइना में होने वाली बैडमिंटन चैंपियनशिप में खेलेंगे। इस चैंपियनशिप के क्वालीफाइंग राउंड मुकाबले 13-17 सितंबर के बीच आयोजित होंगे।

मार्करम बने डरबन सुपर जायंट्स के कप्तान

नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका टी20 लीग के चौथे सीजन के लिए डरबन सुपर जायंट्स ने एडन मार्करम को कप्तान बनाया है। शनिवार को टीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर मार्करम को कप्तान बनाए जाने की सूचना दी। एडन मार्करम साउथ अफ्रीका टी20 लीग के सफलतम कप्तान हैं। वह पिछले तीन सीजन से सनराइजर्स ईस्टर्न केप के कप्तान थे। उनकी कप्तानी में ईस्टर्न केप 2023 और 2024 में चैंपियन रही थी, जबकि 2025 में उपविजेता रही थी। मार्करम दक्षिण अफ्रीका की भी कप्तानी करते रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे विश्व कप की तैयारियों का आगाज करेगा भारत

■ सीरीज का अंतिम मुक़ाबला 20 सितम्बर को दिल्ली में खेला जाएगा

न्यू चंडीगढ़, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले महिला वनडे विश्व कप से पहले भारत रविवार को न्यू चंडीगढ़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज का आग़ाज करेगा। पहले दोनों मुकाबले न्यू चंडीगढ़ में ही खेले जाने हैं जबकि सीरीज का अंतिम मुक़ाबला 20 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। भारतीय दल ने इस सीरीज से पहले विशाखापट्टनम में अभ्यास शिविर में भाग लिया था। हालांकि इस सीरीज से पहले भारत को एक बड़ा झटका यास्तिका भाटिया के रूप में लगा, जो चोटिल होने के चलते ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ सीरीज के साथ ही विश्व कप से भी बाहर हो गईं। भाटिया के विकल्प के तौर पर दल में उमा छेत्री को टीम में जगह दी गई है। भारतीय तेज गेंदबाज़ रेणुका सिंह ठाकुर चोट के बाद इस सीरीज में वापसी करेंगी, वह विश्व कप दल का भी हिस्सा हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए अमनजोत कौर भारतीय दल का हिस्सा नहीं हैं क्योंकि वह इस समय निगल से रिकवर कर रही हैं और उनकी जगह सयाली सतघरे टीम का हिस्सा हैं।

टी-20 मैच में 300 का आंकड़ा पार करते ही इंग्लैंड ने रचा इतिहास

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मैनचेस्टर में दूसरा टी-20 मैच खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने दो विकेट खोकर 304 रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड ने 146 रन से शानदार जीत दर्ज की। टी-20 क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहला मौका था, जब किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ 300 रन का आंकड़ा पार हुआ। साल 2024 में टीम इंडिया ने हैदराबाद में बांग्लादेश के विरुद्ध 6 विकेट खोकर 297 रन बनाए थे। उसी साल भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में महज एक विकेट खोकर 283 रन बना चुकी थी। अफगानिस्तान ने साल 2019 में आयरलैंड के विरुद्ध 278/3 का स्कोर खड़ा किया था। यह मैच देहरादून में खेला गया। वहीं, साल 2023 में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन विकेट खोकर 267 रन बनाए थे। टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में सबसे बड़े स्कोर की बात करें, तो यह कारनामा जिम्बाब्वे के नाम है, जिसने साल 2024 में नैरोबी में चार विकेट खोकर 344 रन बनाए थे। वहीं, नेपाल की टीम साल 2024 में मंगोलिया के खिलाफ 3 विकेट खोकर 314 रन बना चुकी है। मैनचेस्टर में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड की ओर से फिल साल्ट ने 60 गेंदों में 141 रन की नाबाद पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 8 छक्के और 15 चौके देखने को मिले। उनके अलावा जोस बटलर ने 30 गेंदों में 83 रन बनाए, जबकि कप्तान हैरी ब्रूक ने 41 रन की पारी खेली।

फिल साल्ट ने महज 39 गेंदों में बनाया शतक

नई दिल्ली। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ महज 39 गेंदों में टी-20 शतक जड़ा। साल्ट ने यह कारनामा मैनचेस्टर में किया। इस पारी के साथ फिल साल्ट ने कुछ बड़े रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए। फिल साल्ट ने 60 गेंदों में 8 छक्कों और 15 चौकों की मदद से 141 रन की नाबाद पारी खेली। इस दौरान साल्ट इंग्लैंड की ओर से सबसे तेज टी-20 शतक बनाने वाले बल्लेबाज बने। फिल साल्ट ने इस मामले में लियाम लिविंगस्टोन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने साल 2021 में नॉटिंघम में पाकिस्तान के विरुद्ध 42 गेंदों में टी-20 शतक पूरा किया था यह इंग्लैंड के किसी बल्लेबाज की टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी है। इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर भी फिल साल्ट का ही नाम है, जिन्होंने साल 2023 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध 119 रन बनाए थे। वहीं, साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 116 रन बनाने वाले एलेक्स हेल्स लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले की बात करें, तो इंग्लैंड ने निर्धारित ओवरों में 2 विकेट खोकर 304 रन बनाए। इस टीम के लिए साल्ट ने 141 रन की पारी खेली, जबकि जोस बटलर ने 30 गेंदों में 7 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 83 रन बनाए। इनके अलावा जैकेब बैथेल ने 26, जबकि कप्तान हैरी ब्रूक ने 41 रन टीम के खाते में जोड़े।

अपनी प्रतिभा दिखाने उतरेंगे 100 पेरिस पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट

विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। इंडियनऑयल विश्व पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 में 104 देशों के 2,200 से ज्यादा एथलीट्स 186 पदक स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा पैरा खेल आयोजन होगा। इस चैम्पियनशिप का आयोजन 27 सितंबर से पांच अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। चैंपियनशिप में रोमांचक मुकाबले, कड़ी टक्कर और यादगार प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, क्योंकि पेरिस पैरालंपिक में 308 पदक जीतने वाले कुल 100 पदक विजेता पैरा एथलेटिक्स मंच पर अपनी क्षमता का परीक्षण करने के लिए वापस आएंगे। इस बार प्रतियोगिता में कुल 186 पदक स्पर्धाएं होंगी, जो कि पिछली बार कोबे में हुए आयोजन से 15 अधिक हैं। इनमें 101 स्पर्धाएं पुरुषों के लिए, 84 महिलाओं के लिए और एक मिश्रित स्पर्धा होगी। जर्मनी के मार्कस रेहम, जो पुरुषों की लंबी कूद टी64 में चार बार के पैरा ओलंपिक चैंपियन और सात बार के विश्व चैंपियन हैं। उन्हें ब्लेड जम्पर कहा जाता है। रेहम के नाम ऐसा विश्व रिकॉर्ड है, जो इस सदी के सभी ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं की छलांग से भी आगे है। भारत का गर्व, सुमित अंतिल, जो दो बार के पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और पुरुषों की जेवलिन थ्रो एफ64 श्रेणी में मौजूदा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियन हैं। वह एक बार फिर घरेलू दर्शकों को अपने शानदार प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार हैं। स्विट्जरलैंड की कैथरीन डेब्रूनर, जिन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में छह स्पर्धाओं में पांच स्वर्ण और एक रजत जीतकर सुर्खियां बटोरीं, नई दिल्ली में पांच रेसों में हिस्सा लेंगी। पैरा ओलंपियन प्रवीन कुमार, जो पुरुषों की हाई जंप टी-64 में खेलते हैं, अपनी पदक सूची को पूरा करने के लिए भारत में होने वाली वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने को उत्सुक हैं। अन्य सितारों में शामिल हैं ब्राज़ील के पेट्रुसियो फरेरा, जिन्हें दुनिया का सबसे तेज पैरा ओलंपियन माना जाता है। वे पुरुषों की 100 मीटर टी-47 दौड़ में अपना लगातार पांचवां विश्व खिताब जीतने की कोशिश करेंगे।



इस चैंपियनशिप का आयोजन 27 सितंबर से पांच अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा।

लक्ष्य सेन और सात्विक-चिराग फाइनल में, स्वर्ण से एक जीत दूर

हांगकांग, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। भारत के लिए आज दोहरी खुशी का दिन रहा जब लक्ष्य सेन ली-निंग हांगकांग ओपन 2025 के फाइनल में पहुंच गए, जहाँ उनका सामना दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी चीन के ली शी फेंग से होगा। सेन ने तीसरी वरीयता प्राप्त चीनी ताइपे के चोउ तिएन चेन को 56 मिनट में 23-21, 22-20 से सीधे गेम में हराकर दो साल में पहली बार फाइनल में जगह बनाई। 24 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी शी फेंग पर 7-6 की बढ़त बनाए हुए हैं, जिससे फाइनल और भी रोमांचक हो गया है। सेन की इस प्रगति के साथ, भारत दो फाइनल में पहुंच गया है, पुरुष एकल में लक्ष्य और पुरुष युगल में सात्विक-चिराग। इससे पहले सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फाइनल में प्रवेश कर लिया, जो इस साल का उनका पहला फाइनल है। स्मैश ब्रदर्स की इस जोड़ी ने चीनी ताइपे के चेन चेंग कुआन और लिन बिंग-वेई को केवल 38 मिनट में 21-17, 21-15 से हरा दिया। भारत की दो बार की विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता जोड़ी अब फाइनल में छठी वरीयता प्राप्त चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से भिड़ेगी।

सुडोकू 7034 का हल

5	7	2	3	6	4	9	8	1
4	3	8	7	1	9	2	6	5
1	9	6	5	2	8	4	3	7
6	2	1	4	8	7	5	9	3
7	4	3	9	5	6	8	1	2
8	5	9	1	3	2	7	4	6
2	6	5	8	4	3	1	7	9
3	8	7	2	9	1	6	5	4
9	1	4	6	7	5	3	2	8

सर्वाधिक बढ़ने वाले शेयर

बीईएल	3.67 प्रतिशत
बजाज फाइनेंस	3.41 प्रतिशत
बजाज फिनसर्व	2.38 प्रतिशत
एक्सिस बैंक	1.64 प्रतिशत
मारुति सुजुकी	1.51 प्रतिशत

सर्वाधिक घटने वाले शेयर

इटरनल	2.01 प्रतिशत
हिंदुस्तान यूनीलिवर	1.43 प्रतिशत
ट्रेंट	0.79 प्रतिशत
टाइटन	0.61 प्रतिशत
भारती एयरटेल	0.51 प्रतिशत

सर्राफा

दिल्ली

सोना (प्रति दस ग्राम)स्टैंडर्ड	1,09,097
बिटुर	88,730
गिन्नी (प्रति आठ ग्राम)	39,795
चांदी (प्रति किलो) टंच हाजिर	1,24,499
वायदा	70,857
चांदी सिक्का लिवाली	900
बिकवाली	880

मुद्रा विनिमय

मुद्रा	क्रय	विक्रय
अमेरिकी डॉलर	77.85	90.26
पौड स्टर्लिंग	105.22	122.04
यूरो	88.88	103.09
चीन युआन	8.4	13.63

अनाज

देसी गेहूँ एमपी	2400-3000
गेहूं दड़ा	3100-3200
आटा	2800-2900
मैदा	2900-2950
चोकर	2000-2100

मोटा आनाज

बाजरा	1300-1305
मक्का	1350-1500
ज्वार	3100-3200
जौ	1430-1440
काबुली चना	3500-4000

शुगर

चीनी एस	4280-4380
चीनी एम	4500-4600
मिल डिलीवरी	3620-3720
गुड़	4400-4500

दाल-दलहन

चना	5700-5800
दाल चना	7965.22
मसूर काली	8170.57
उड़द दाल	10438.89
मूंग दाल	10095.60
अरहर दाल	10644.93

[अर्थ जगत]

अमेरिकी शुल्क की घोषणा से एमएसएमई पर बढ़ा खतरा

नई दिल्ली। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर 50 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क की घोषणा से खतरा मंडराने लगा है। देश के कुल निर्यात में 45 प्रतिशत से अधिक योगदान करने वाले इस क्षेत्र के सामने बड़ी आफत आ खड़ी हुई है। एमएसएमई उद्योग संगठनों ने अमेरिकी कदम का बड़ा असर होने की चिंता जताई है और सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। इंडिया एसएमई फोरम के अध्यक्ष ने कहा कि शुल्क बढ़ने से सालाना 30 अरब डॉलर से अधिक का कारोबार खटाई में पड़ने की आशंका है।

भारत ईयू के साथ एफटीए के लिए प्रतिबद्ध : गोयल

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि भारत इस वर्ष यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए प्रतिबद्ध है।

■ मुक्त व्यापार समझौते पर पहले भी की गई थी बातचीत

केंद्रीय मंत्री गोयल ने यूरोपीय व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक से मुलाकात की और कहा कि देश निरंतर बातचीत की आशा कर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) वार्ता के 13वें दौर में आपकी मेजबानी करना हमारे लिए खुशी की बात थी। हम दोनों पक्षों के लिए व्यापक अवसरों को पेश करने के लिए जल्द ही एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी एफटीए की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपकी यात्रा के लिए धन्यवाद। हमारी निरंतर बातचीत की प्रतीक्षा है।

सेफकोविक ने पहले पोस्ट किया था कि वे केंद्रीय मंत्री गोयल के साथ एक महत्वाकांक्षी ईयू-इंडिया एफटीए को आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष तीसरी बार भारत आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म

भारत तेजी से वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख इंजन बन रहा है : मारोस सेफकोविक

एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 2025 तक इस समझौते को पूरा करने के लिए हम अपने प्रयासों में बढ़ा रहे हैं। ऑटो सेक्टर को इसके केंद्र में होना चाहिए, जिससे दोनों पक्षों के लिए विन-विन टैरिफ उदारीकरण के जरिए दोतरफा व्यापार को बढ़ावा मिले।

शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम में, सेफकोविच ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ अभूतपूर्व गति के साथ एक महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं और चल रही चर्चाओं को दोनों भागीदारों के बीच अब तक की सबसे गहन और रचनात्मक चर्चाओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि हालांकि मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पहले भी की गई थी, लेकिन इससे पहले यह प्रक्रिया इतनी गंभीरता, आपसी विश्वास और साझा महत्वाकांक्षा के स्तर तक कभी नहीं पहुंची थी। उन्होंने आगे कहा कि भारत तेजी से वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख इंजन बन रहा है और भारत के साथ एक मजबूत आर्थिक साझेदारी यूरोपीय संघ के लिए महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ेगी।

आयुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन द्वारा पहले की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप, वर्ष के अंत तक वार्ता को अंतिम रूप देने के लिए अधिकतम प्रयास किए जा रहे हैं।

गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) भारतीय निर्माताओं के लिए अपने यूरोपीय समकक्षों और दुनिया के अन्य हिस्सों की कंपनियों के साथ साझेदारी के नए रास्ते खोलेगा।

जीएसटी में कटौती ऑटो उद्योग के लिए एक बड़ी राहत : गोयल

नई दिल्ली। भारत में मेक इन इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह उच्च लक्ष्य निर्धारित करने, सप्लाई चेन को मजबूत करने, मजबूती बढ़ाने और रोजगार, निर्यात एवं हाई-क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग में योगदान देने का एक सही समय है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसीएमए) के 65वें वार्षिक सत्र में केंद्रीय मंत्री गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हाल ही में घोषित जीएसटी सुधारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करना एक ऐतिहासिक सुधार है और ऑटो उद्योग के लिए एक बड़ी राहत है। ट्रैक्टरों के लिए जीएसटी रेट्स को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह सुधार प्रधानमंत्री की सराहना का पात्र है क्योंकि इससे स्पेयर पार्ट्स पहले से अधिक सस्ते हो जाएंगे, औपचारिकता मजबूत होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और वैल्यू चेन में मांग बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि जीएसटी रेट कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी रेट में कटौती का यह दौर आजादी के बाद का सबसे बड़ा सुधार है और इससे हर भारतीय को फायदा होगा। उन्होंने आगे कहा कि 1.4 अरब लोगों में से एक भी नागरिक ऐसा नहीं होगा जिसे इन सुधारों से फायदा नहीं होगा। दिवंगत रतन टाटा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि लोग आप पर जो पत्थर फेंकते हैं, उन्हें स्वीकार करें और एक स्मारक बनाएं।

कम महंगाई व ब्याज दरें अर्थव्यवस्था में घरेलू मांग को समर्थन प्रदान करेंगी

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक चुनौतियों के बीच कम हेडलाइन मुद्रास्फीति और ब्याज दरें अर्थव्यवस्था में घरेलू मांग को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करेंगी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में अब हेडलाइन मुद्रास्फीति पहले के 3.5 से कम होकर 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके परिणामस्वरूप इस वित्त वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति में 140 आधार अंकों की गिरावट आएगी।

■ मुद्रास्फीति पहले के 3.5 से कम होकर 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस तीव्र नरमी का अर्थ है कि इस वित्त वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति में 140 आधार अंकों की गिरावट आएगी, जिससे मौद्रिक नीति में ढील की गुंजाइश बनेगी। हमारा मानना है कि आरबीआई इस वर्ष दरों में 25 आधार अंकों की अतिरिक्त कटौती करेगा।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति अगस्त में मामूली रूप से बढ़कर 2.1 प्रतिशत हो गई, जो जुलाई में 1.6 प्रतिशत थी और आरबीआई के 2 प्रतिशत के लोअर टॉलरेंस बैंड को पार कर गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य मुद्रास्फीति बहुत निचले स्तर से ऊपर जाने लगी है, जिसमें सांख्यिकीय निम्न-आधार प्रभाव भी शामिल है। ग्रामीण क्षेत्र में सीएफपीआई आधारित खाद्य मुद्रास्फीति जुलाई, 2025 में -1.74 प्रतिशत की तुलना में अगस्त में -0.70 प्रतिशत (अनंतिम) दर्ज की गई है।

अडाणी पावर ने बीएसपीजीसीएल के साथ किए हस्ताक्षर

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। अडाणी पावर लिमिटेड (एपीएल) की ओर से शनिवार को दी गई जानकारी के अनुसार, एपीएल ने बिहार स्टेट पावर जेनेरशन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीजीसीएल) के साथ राज्य को 2,400 मेगावाट (मेगावाट) बिजली की सप्लाई के लिए 25 वर्ष के पावर सप्लाई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस एग्रीमेंट के तहत भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर थर्मल पावर जनरेटर कंपनी बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती में स्थापित होने वाले ग्रीनफील्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट से प्रस्तावित पावर की सप्लाई करेगी। यह प्रगति

पिछले महीने अगस्त में एपीएल को बीएसपीजीसीएल से नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) की ओर से दिए गए लेटर ऑफ अवार्ड के बाद हुई है। अडाणी पावर ने 6.075 रुपए प्रति किलोवाट घंटे की न्यूनतम सप्लाई रेट की पेशकश कर यह परियोजना हासिल की।

टियर-2 व 3 शहर भारत के वर्कफोर्स को आकार देने में निभाएंगे बड़ी भूमिका : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, भारत के टियर-2 और टियर-3 शहर अगले कुछ वर्षों में देश के इंजीनियरिंग वर्कफोर्स को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाते नजर आएंगे। एनएलबी सर्विसेज द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, पारंपरिक महानगरों के बाहर नए संस्थान, टेक्नोलॉजी पार्क और स्किलिंग हब तेजी से उभर रहे हैं। इसलिए अनुमान है कि 2028 तक भारत के एडवांस्ड इंजीनियरों में टियर-2 और टियर-3 शहरों का योगदान लगभग 35 प्रतिशत हो जाएगा।

जयपुर, वडोदरा, कोयंबटूर, कोच्चि, पुणे और इंदौर जैसे शहर कम लागत और उच्च प्रभाव वाली प्रतिभाओं की तलाश करने वाले उद्यमों

■ पारंपरिक महानगरों के बाहर तेजी से उभर रहे नए संस्थान, टेक्नोलॉजी पार्क व स्किलिंग हब

को लुभाते हुए, तेजी से उनके लिए आकर्षक गंतव्य बन रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत पहले से ही हर वर्ष लगभग 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स तैयार करता है, जिनमें मैकेनिकल, सिविल, आईटी, सॉफ्टवेयर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

हालांकि, वर्तमान में इनमें से केवल 45 प्रतिशत ही उद्योग मानकों को पूरा करते हैं, जबकि 60-72 प्रतिशत को व्यापक रूप से रोजगार योग्य माना जाता है। एआई, डेटा साइंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सेमीकंडक्टर जैसे न्यू एज फिल्ड्स में स्किल्स गैप एक चुनौती साबित हो रहा है। रिपोर्ट इस बात पर भी जोर देती है कि भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य एसटीईएम-लेड इनोवेशन से संचालित होगा। आने वाली 70 प्रतिशत नौकरियों में एसटीईएम स्किल की आवश्यकता होने की उम्मीद है, ऐसे में एआई, मशीन लर्निंग, डेटा इंजीनियरिंग, एम्बेडेड सिस्टम और नैतिक एआई शासन जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता महत्वपूर्ण होगी।

मेघना मोदी के साथ नई ऊंचाइयों को हासिल करने की योजना बना रही रेवलॉन इंडिया

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। मोदी-मुंडीफार्मा ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ साझेदारी में, रेवलॉन इंडिया ने कार्यकारी निदेशक मेघना मोदी के नेतृत्व में आक्रामक विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। नवंबर 2023 में अपनी नियुक्ति के बाद से, ब्रांड के कायाकल्प की ज़िम्मेदारी संभाल रही

■ प्रेरणा, नवाचार, समावेश व उद्देश्य है ब्रांड का मिशन

मोदी ने बिक्री, आपूर्ति श्रृंखला, ई-कॉमर्स और संगठनात्मक संस्कृति को शामिल करते हुए एक रणनीतिक पुनर्गठन का नेतृत्व किया है।

लखनऊ में हाल ही में एक मीडिया इंटरेक्शन में मेघना मोदी ने ब्रांड की साहसिक महत्वाकांक्षाओं की पुष्टि करते हुए कहा कि हम अपने ब्रांड के वादे के अनुरूप व्यवसाय का निर्माण करने की योजना बना रहे हैं। दुनिया को एक साहसिक तरीके से आगे बढ़ाना, हर महिला को वह मंच प्रदान करना जिसकी उन्हें पूरी तरह से, स्वतंत्र रूप से और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यकता है, चाहे वह उन्हें कैसा भी लगे। उन्होंने यह भी बताया कि ब्रांड का मिशन प्रेरणा, नवाचार, समावेश और उद्देश्य है। कंपनी कलर कॉस्मेटिक रेंज (मेकअप और स्किन केयर) और

हम अपने ब्रांड के वादे के अनुरूप व्यवसाय का निर्माण करने की योजना बना रहे हैं : मेघना मोदी

पर्सनल केयर रेंज (हेयर कलर, हेयरकेयर और बॉडीस्प्रे) पर ध्यान केंद्रित करेगी। कंपनी अपनी पूरी क्षमता का लाभ उठाने और सभी चैनलों - एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, डिपार्टमेंट स्टोर, सामान्य व्यापार और ई-कॉमर्स में वितरण का विस्तार करने की योजना बना रही है। रेवलॉन इंडिया एक आक्रामक विकास पथ पर है और अगले 2-3 वर्षों में भारत में अपने ब्रांड आउटलेट्स को 300 से बढ़ाकर 600+ आउटलेट्स और 1000 डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अपनी उपस्थिति को बढ़ाकर 4000+ डिपार्टमेंटल स्टोर्स तक पहुंचाकर अपने व्यवसाय को दोगुना करने की योजना बना रही है।

इसके अलावा मेघना ने ऐसे उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने पर जोर दिया। उनमें सच्चा नेतृत्व गुण है कि निष्क्रिय प्रबंधन से लेकर सक्रिय प्रबंधन तक, सभी को महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय होना होगा, चाहे वह प्रबंधन हो, खुदरा विक्रेता हो, वितरक हो या सौंदर्य सलाहकार, सभी को इस तरह के विकास को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करना होगा।

मोदी की विकास रणनीति ऑफ़लाइन विस्तार को एक बेहतर डिजिटल दृष्टिकोण के साथ जोड़ती है। वर्तमान में, लगभग 25 प्रतिशत बिक्री ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से होती है, शेष खुदरा दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोर्स के माध्यम से। मोदी ने टियर-2 शहरों में महत्वाकांक्षी और मिलेनियल उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया, विशेष रूप से इंस्टाग्राम जैसे विजुअल प्लेटफ़ॉर्म पर जुड़ाव बढ़ाने पर जोर दिया है। उत्पाद पोर्टफोलियो में नवाचार एक अन्य प्रमुख स्तंभ है। रेवलॉन इंडिया नई श्रेणियों को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। और उसने टियर-2 शहरों में महत्वाकांक्षी उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए लगभग 399 रुपए से शुरू होने वाली कीमतों के साथ अधिक व्यापक और किफायती श्रेणियों में प्रवेश करने के लिए तैयार किया है। और अंत में मेघना मोदी ने आत्मविश्वास के साथ यह साहसिक बयान देते हुए समापन किया कि मेघना मोदी के नेतृत्व में, रेवलॉन इंडिया राजस्व को दोगुना करने, खुदरा उपस्थिति का विस्तार करने, ऑनलाइन चैनलों को गहरा करने, उत्पाद नवाचार को व्यापक बनाने और परिचालन को आधुनिक बनाने की एक साहसिक योजना पर काम कर रहा है - ये सभी भारत के गतिशील सौंदर्य बाजार में मजबूत विकास और नई प्रासंगिकता का लक्ष्य रखते हैं।

एलएंडआई लीजिंग वर्ष के अंत तक 60 एमएसएफ को पार करने की उम्मीद

■ 2025 की पहली छमाही में, वेयरहाउसिंग व इंडस्ट्रियल सेगमेंट में लीजिंग की वृद्धि दोहरे अंकों में बनी रही

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। ग्रॉस लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल (एलएंडआई) लीजिंग वर्ष के अंत तक 60 मिलियन वर्ग फुट (एमएसएफ) को पार करने की उम्मीद है। शनिवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार, मजबूत मांग के बल पर यह सेक्टर एक नया ब च म ा क सेट करेगा।

रियल एस्टेट सर्विस फर्म कुशमैन एंड वेकफील्ड ने एक रिपोर्ट में कहा कि 2025 की पहली छमाही में, वेयरहाउसिंग और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में लीजिंग की वृद्धि दोहरे अंकों में बनी रही, कुल लीजिंग 30.7 मिलियन वर्ग फुट रही, जो सालाना आधार पर 21.6 प्रतिशत की वृद्धि 2024 की दूसरी छमाही की तुलना में 12.1 प्रतिशत अधिक है।

यह प्रदर्शन इस क्षेत्र के मजबूत फंडामेंटल को दिखाता है, जिसमें लीजिंग एक्टिविटी पिछले तीन लगातार वर्षों से सालाना 50 मिलियन वर्ग फुट को पार कर रही है। इस वर्ष के अंत तक ग्रॉस लीजिंग 60 एमएसएफ को पार कर जाने की उम्मीद है, जो भारत के लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल मार्केट के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा। रिपोर्ट के अनुसार, वेयरहाउसिंग प्रमुख चालक बना रहा, जिसकी लीजिंग में 21.9 एमएसएफ की हिस्सेदारी रही और यह 71.3 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर ने 8.8 एमएसएफ का योगदान दिया, जो कुल लीजिंग का 28.7 प्रतिशत है।

सेक्टोरल फ्रंट पर इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग (ईएंडएम) ने 9.7 एमएसएफ के साथ समग्र लीजिंग में अग्रणी स्थान हासिल किया।

सार संक्षेप

फ्लाई91 सितम्बर की बुकिंग पर सुविधा शुल्क माफ करेगी

पणजी। क्षेत्रीय विमान सेवा कंपनी फ्लाई91 ने सितंबर महीने में उसकी वेबसाइट से कराई गई सभी बुकिंग पर सुविधा शुल्क माफ करने की घोषणा की है। कंपनी ने शनिवार को बताया कि इस ऑफर में यात्रा की तारीख को लेकर कोई बंदिश नहीं होगी और 30 सितंबर तक कराई गई सभी बुकिंग पर यह लागू होगी। फ्लाई91 के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज चाको ने कहा कि इस महीने बुकिंग पर सुविधा शुल्क माफ करने से लोगों को वास्तव में बचत होगी। फ्लाई91 का मुख्यालय गोवा में है। वह वर्तमान में गोवा के अलावा पुणे, सिंधुदुर्ग, जलगांव, सोलापुर, हैदराबाद, बेंगलुरु और अगत्ती से उड़ानों का परिचालन करती है। उसके बेड़े में एटीआर 72-600 विमान हैं।

सार्वजनिक बैंकों से वैश्विक प्रतिस्पर्धी क्षमता पैदा करने का आग्रह

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी की आकांक्षा रखने, संचालन और परिचालन को अधिक सुदृढ़ करने और पारंपरिक तथा उभरते दोनों उद्योगों में क्षेत्रीय चैंपियन के रूप में अपनी भूमिका का विस्तार करने का आह्वान किया है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम. नागराजू ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मंथन-2025 के आरंभिक सत्र में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अस्तित्व और स्थिरता के चरण से आगे बढ़ चुके हैं और अब वे विकसित भारत 2047 की यात्रा में विकास, नवाचार और नेतृत्व के चैंपियन के रूप में एक बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में हैं। इस दौरान हुई चर्चाओं में इस बात पर भी जोर दिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बैंकों के रूप में विकसित होने की आकांक्षा रखनी चाहिए। इसके लिए उनके पास विदेशों में भारतीय उद्यमों का समर्थन करने और दुनिया भर के अग्रणी वित्तीय संस्थानों के साथ खड़े होने के लिए बड़े पैमाने के वित्तपोषण की क्षमता, उपस्थिति और अन्य जरूरी क्षमताएं होनी चाहिए।

सेबी ने म्युचुअल फंड योजनाओं से निकलने का भार घटाया

मुंबई। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड योजनाओं द्वारा लगाए जा सकने वाले अधिकतम स्वीकार्य निकास भार को 5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया है। सेबी निदेशक मंडल की बैठक में म्यूचुअल फंड क्षेत्र में निवेशकों की सुरक्षा, बड़ी कंपनियों के शेयरों की लिस्टिंग, सेबी रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रेइट) और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उपायों को मंजूरी दी।

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-10)
अमलीडीह पानी टंकी रायपुर
ईश्तहार
पत्र क्र./23784/न.पा.नि./जोन क्र.-10/2025
रायपुर, दिनांक 13.09.2025
नामांतरण प्र.क्र. 23784
वार्ड का नाम- 50-पं.विद्याचरण शुक्ल वार्ड
एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 50 स्थित भवन/भूमि प्रॉपटी आई.डी RPR446P00592 जो कि निगम अभिलेख श्री/श्रीमती SARITA SACHDEV पिता/पति श्री/श्रीमती RAJKUMAR SACHDEV के नाम से दर्ज है जिसको श्री/श्रीमती 1. ANIL CHOITHRAMANI 2. TUSHAR CHOITHRAMANI पिता/पति श्री/श्रीमती 1. S/o LATE. RELURAM CHOITHRAMANI 2. S/o MR. ANIL KUMAR CHOITHRAMANI ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ शपथ पत्र एवं मलमा बिक्रीनामा/ वंशानुक्रम /अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अभिलेख 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति /संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
सूचना जारी करें।
(जोन कमिश्नर)
जोन क्र. 10
नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पाटन
जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार
राजस्व प्रकरण ब/121/वर्ष 2025
एतद् द्वारा आम जनता एवं सर्वसाधारण को सूचना प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक बिसेसर साहू पिता स्व. गैनाराम निवासी पाहंदा तहसील पाटन जिला दुर्ग छ.ग. के द्वारा आवेदन पेश किया है कि मेरे पिता गैनाराम साहू पिता अर्जुन साहू का मृत्यु दिनांक 17.03.1989 को ग्राम पाहंदा तहसील पाटन जिला दुर्ग में मृत्यु होने के कारण मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।
अत: आवेदक बिसेसर साहू पिता स्व. गैनाराम निवासी पाहंदा तहसील पाटन जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर उपरोक्तानुसार मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की कार्यवाही पर जिस किसी व्यक्ति / संस्था को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति प्रकरण में सुनवाई तिथि 13.09.2025 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियम तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।
यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 29.08.2025 को जारी किया गया।
मुहर **तहसीलदार पाटन**

PUBLIC NOTICE FOR CHANGE OF NAME
I, Rajesh Bharti S/o Goukaran Bharti and a resident of 16, Ashoka Ikon Phase -2, Mowa, Raipur Chhattisgarh, wish to inform the public of my Daughter's official name change to JIGYASA BHARTI which I have done through a solemn affirmation. I hereby formally relinquish and abandon my Daughter's previous name JIGNASA BHARTI, from this day forward, will be recognized by New correct name: JIGYASA BHARTI. I kindly request that everyone henceforth address my Daughter by her name and recognize her as JIGYASA BHARTI.My Daughter will now go by the name JIGYASA BHARTI in all circumstances, including records, legal documents, personal interactions, and government and Non-governments records. This change is effective immediately and will be upheld on all occasions henceforth.
Raipur, Chhattisgarh.
Date:
Rajesh Bharti
S/o Goukaran Bharti
Resident of 16, Ashoka Ikon Phase -2, Mowa, Raipur Chhattisgarh.

NAME CHANGE
It is informed to the general public that I, GARIMA GOYAL D/O RAMEASH KUMAR AGRAWAL resident of 8/362, DAGA BILDING, BAIRAN BAJAR, BEHIND MAHILA THANA, RAIPUR (C.G.) 492001 have changed my before marrige old name GARIMA GOYAL D/O RAMEASH KUMAR AGRAWAL so in future I should be recognized by my after marrige new name that is GARIMA GUPTA W/O ROHAN KUMAR GUPTA in all Government and other documents.
GARIMA GUPTA
8/362, DAGA BILDING, BAIRAN BAJAR, BEHIND MAHILA THANA, RAIPUR (C.G.) 492001

NAME CHANGE
It is informed to the general public that I, SEEMA AGARWAL W/O BAJRANGI AGRAWAL resident of 503, NEAR SAHU MURTI BHANDAR, KAILASHPURI, RAIPUR TAHSIL & DISTT RAIPUR (C.G.) PIN 492001 have changed my old name SEEMA AGARWAL W/O BAJRANGI AGRAWAL so in future I should be recognized by my new name that is SEEMA AGRAWAL W/O BAJRANGI AGRAWAL in all Government and other documents.
SEEMA AGRAWAL
503, NEAR SAHU MURTI BHANDAR, KAILASHPURI, RAIPUR TAHSIL & DISTT RAIPUR (C.G.) PIN 492001

NAME CHANGE
It is informed to the general public that I, BAJRANGI AGARWAL S/O T. R. AGRAWAL resident of 503, NEAR SAHU MURTI BHANDAR, KAILASHPURI, RAIPUR TAHSIL & DISTT RAIPUR (C.G.) PIN 492001 have changed my old name BAJRANGI AGARWAL S/O T. R. AGRAWAL so in future I should be recognized by my new name that is BAJRANGI AGRAWAL S/O T. R. AGRAWAL in all Government and other documents.
BAJRANGI AGRAWAL
503, NEAR SAHU MURTI BHANDAR, KAILASHPURI, RAIPUR TAHSIL & DISTT RAIPUR (C.G.) PIN 492001

PUBLIC NOTICE
"S V CONSTRUCTION" Civil & Other Contract Work, Commissioning business & Sale Purchase Work Under the name and style as "S V CONSTRUCTION" Public notice is hereby given that the Partnership firm "S V CONSTRUCTION" having Registration No. RAIPUR/112/2009-18, Dated-11/06/2009 has been reconstituted on Dated- 13/09/2025 M/s. "S V CONSTRUCTION" (Body Corporate through its Director SHRI VIVEK SINGH has been retiring Partner from firm and new Partner SMT JYOTSNA SINGH From Dated- 13/09/2025.
Also this is to inform that every amendment made earlier had already been intimated to the RFAS wherever needed.
For, S.V. CONSTRUCTION
Partner

'द पैराडाइज' के लिए पांच महीने में तैयार हुआ विशाल स्लम सेट

मुंबई। श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बन रही फिल्म 'द पैराडाइज' के लिए पांच महीने में विशाल स्लम सेट तैयार किया गया है। नेचुरल स्टार नानी की द पैराडाइज का क्रेज इसके फर्स्ट लुक के सामने आने के साथ ही शुरू हो गया था। इस फिल्म को श्रीकांत ओडेला निर्देशित कर रहे हैं, जिन्होंने दसरा के साथ एक बड़ी सफलता अपने नाम की थी। ऐसे में यह फिल्म अपनी घोषणा के समय से ही भारत की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। यह फिल्म स्टार नानी और श्रीकांत ओडेला की एक और बड़ी कोलैबोरेशन है, जिन्होंने पहले दसरा जैसी ब्लॉकबस्टर दी थी। इस बार भी फिल्म को एक बड़े सिनेमैटिक स्पेक्टेकल की तरह पेश किया जा रहा है।

आसमानी लहंगे में सजी आमना शरीफ, हर अदा में झलका 'फितूर'

मुंबई, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस आमना शरीफ अपने स्टाइलिश और पारंपरिक लुक के लिए पहचानी जाती हैं, और इस बार भी उन्होंने अपने लुक से सभी का दिल जीत लिया है। आमना ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसने उनके फैंस और फॉलोअर्स के बीच काफी चर्चा बटोरी है। तस्वीर में आमना शरीफ आसमानी रंग के लंहगे में नजर आ रही है, जो उन्हें शाही और आकर्षक लुक दे रहा है। इस लहंगे के साथ उन्होंने एक नेट का दुपट्टा लिया हुआ है, जिस पर गोल्डन जरी का काम है। उन्होंने माथे पर मांग टीका, कानों में भारी झुमके और हाथों में लहंगे से मैच करती चूड़ियां पहनी हुई हैं। साथ ही अपने बालों को हल्के वेव्स के साथ स्टाइल किया है, जिससे एक सॉफ्ट और नैचुरल लुक उभर कर सामने आ रहा है। हल्का आई मेकअप और ग्लोइंग स्किन टोन के साथ उन्होंने अपने मेकअप को लाइट रखा है। इस फोटो के साथ उनका कैप्शन भी काफी दिलचस्प है। उन्होंने कैप्शन में 'फितूर' शब्द का इस्तेमाल किया है, जो उनके इस लुक के पीछे के जज्बात को दर्शाता है। बता दें कि आमना शरीफ ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग के जरिए की। उन्हें कॉलेज के दौरान ही ब्रांड विज्ञापनों और म्यूजिक वीडियो के ऑफर मिलने लगे थे। अभिजीत भट्टाचार्य के पॉपुलर वीडियो 'चलने लगी हैं हवाएं' से उन्हें पहली पहचान मिली। इसी दौरान एकता कपूर के शो 'कहीं तो होगा' में उन्हें कशिश का रोल मिला, जिसने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया। राजीव खंडेलवाल के साथ उनकी केमिस्ट्री और शानदार एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया। यह शो 2000 के दशक के सबसे सफल धारावाहिकों में शामिल रहा। टीवी की सफलता के बाद आमना ने फिल्मों की ओर रुख किया। वह 'आलू चाट', 'आओ विश करें', और 'एक विलेन' जैसी फिल्मों में नजर आईं। 2013 में उन्होंने प्रोड्यूसर अमित कपूर से शादी की और 2015 में बेटे के जन्म के बाद एक्टिंग से कुछ समय का ब्रेक लिया।

कृत्रिम मिठास का याददाश्त पर असर

- **शोधकर्ताओं ने 12,000 मरीजों का किया विश्लेषण**
- **चीनी के सेवन से सोच और याददाश्त में करीब 62 प्रतिशत गिरावट**

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (एजेंसियां) एक अध्ययन में दावा किया गया है कि कृत्रिम मिठास या कम या बिना कैलोरी वाले मिठास वाले पदार्थों का लंबे समय तक उपयोग, जो मुख्य रूप से मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग किया जाता है, संज्ञानात्मक गिरावट का कारण बन सकता है।

ब्राजील के साओ पाउलो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 12,000 ऐसे मरीजों का विश्लेषण किया जो एस्पार्टेम, सैकरीन, जाइलिटोल, एरिथ्रिटोल, सोर्बिटोल, टैगैटोज और एसेसल्फेम जैसे सामान्य कृत्रिम स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं।

न्यूरोलॉजी जर्नल में प्रकाशित परिणामों में पाया गया कि जिन लोगों ने ज्यादा मात्रा में चीनी का सेवन किया, उनकी सोच और याददाश्त में करीब 62 प्रतिशत गिरावट आई, जबकि कम मात्रा में चीनी का सेवन करने वालों में ऐसा नहीं देखा गया।

एम्स में न्यूरोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉ. मंजरी त्रिपाठी ने बताया कि हम जानते हैं कि चीनी और चीनी के विकल्प मधुमेह और घातक बीमारियों के जोखिम को बढ़ाते हैं। ये मस्तिष्क की संवहनी कोशिकाओं की शिथिलता से भी जुड़े हैं। उन्होंने इसके इस्तेमाल को सीमित करने की सलाह दी।

अध्ययन से पता चला है कि जिन लोगों ने कृत्रिम मिठास का सामान्य मात्रा में सेवन किया, उनकी याददाश्त और सोचने की क्षमता में 35 प्रतिशत की तेजी से गिरावट आई, और मौखिक प्रवाह में 110 प्रतिशत की तेजी से गिरावट आई।

अधिक सेवन करने वाले समूह में, याददाश्त और सोचने की क्षमता में 62 प्रतिशत की तेजी से गिरावट आई, और मौखिक प्रवाह में 173 प्रतिशत की गति से गिरावट आई। शहर के एक अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग की उपाध्यक्ष डॉ. अंशु रोहतगी ने कहा कि मधुमेह रोगियों में सबसे आम तौर पर देखा जाने वाला यह प्रभाव चिंता का विषय है। रोहतगी ने बताया कि इन विकल्पों के लगातार संपर्क में रहने से मस्तिष्क अधिक संवेदनशील हो सकता है। रोहतगी ने बताया कि ये कृत्रिम मिठास तंत्रिका-सूजन पैदा कर सकती हैं, और यह संज्ञानात्मक गिरावट (कोग्नेटिव डिक्लाइन) का एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि यह आंत के माइक्रोबायोम को बदल रही हो।

चेन्नई स्थित मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन (एमडीआरएफ) द्वारा 2024 में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि कॉफी और चाय जैसे दैनिक पेय पदार्थों में टेबल शुगर (सुक्रोज) की जगह थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक और कृत्रिम गैर-पोषक स्वीटनर (एनएनएस) जैसे सुक्रालोज का इस्तेमाल करने से ग्लूकोज या एचबीए1सी के स्तर जैसे ग्लाइसेमिक मार्करों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है। डायबिटीज थेरेपी पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन से पता चला है कि जिन लोगों ने सुक्रालोज को पेलेट (टिकिया), तरल या पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया, उनके शरीर के वजन (बीडब्ल्यू), कमर की परिधि (डब्ल्यूसी) और बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) में भी थोड़ा सुधार हुआ।

स्मार्टवॉच गर्भावस्था से जुड़े बदलावों को समझने में सहायक

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। स्मार्टवॉच या फिटनेस ट्रैकर जैसा एक साधारण सा पहना जाने वाला उपकरण प्रेग्नेंसी केयर में क्रांति लाने और किसी भी तरह की विसंगति का आसानी से पता लगाने में मदद कर सकता है। स्क्रिप्स रिसर्च के वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है। जिनके मुताबिक जो भी उन्हें प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं, वह बताते हैं कि ऐप्पल वॉच, गार्मिन और फिटबिट जैसे सामान्य वियरेबल डिवाइस, हार्मोनल उतार-चढ़ाव से संबंधित शारीरिक पैटर्न - जैसे हृदय गति-को ट्रैक करके गर्भावस्था से संबंधित बदलावों की निगरानी करने में सक्षम हैं।

स्क्रिप्स रिसर्च में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निदेशक और डिजिटल मेडिसिन के सहायक प्रोफेसर, जियोर्जियो क्वेर ने कहा कि वियरेबल डिवाइस (पहनने योग्य उपकरण) एक शानदार इनोवेटिव सोल्यूशन है। ये अमेरिका में गर्भावस्था के दौरान सामने आ रहे प्रतिकूल परिणामों को परखने में सहायक साबित हो रहा है। हमारे परिणाम बताते हैं कि वियरेबल सेंसर से मिले सिग्नल हार्मोन के स्तर में आए अपेक्षित बदलावों को अच्छी तरह रीड करते हैं और गर्भावस्था के विशिष्ट पैटर्न का पता लगा सकते हैं, जिससे संभवतः गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान मातृ स्वास्थ्य की निगरानी संभव हो पाती है।

- **हार्मोनल उतार-चढ़ाव के आधार पर हृदय गति में बदलाव की भविष्यवाणी**
- **अध्ययन के लिए, टीम ने 108 गर्भवती महिलाओं का किया चयन**

अध्ययन के लिए, टीम ने 108 गर्भवती महिलाओं का चयन किया, जिन्होंने गर्भावस्था से तीन महीने पहले से लेकर प्रसव के छह महीने बाद तक के आंकड़े प्रदान करने पर सहमति जताई थी। जनसंख्या-स्तरीय पैटर्न की पहचान करने के लिए परिष्कृत सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके, टीम व्यक्तिगत अंतरों और उपकरण विविधताओं का हिसाब लगा सकी। इस डेटा से, वैज्ञानिक उन शारीरिक पैटर्न की पहचान करने में सक्षम हुए जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन (एचसीजी) जैसे प्रमुख गर्भावस्था हार्मोन्स के उतार-चढ़ाव से जुड़े थे। इन हार्मोन्स का उतार-चढ़ाव गर्भावस्था के दौरान समस्या खड़ी कर सकता है।

हृदय गति के आंकड़े विशेष रूप से आकर्षक थे। गर्भावस्था के शुरुआती दौर में, शोधकर्ताओं ने पाया कि महिला की हृदय गति पांच से नौ सप्ताह के आसपास कम हुई, फिर प्रसव से लगभग आठ या नौ सप्ताह पहले तक लगातार बढ़ती गई, और गर्भावस्था से पहले के स्तर से 9.4 धड़कन प्रति मिनट तक पहुंच गई। जन्म के बाद, हृदय गति लगभग छह महीने बाद स्थिर होने से पहले आधारभूत स्तर से नीचे गिर गई। शोधकर्ताओं ने गर्भावस्था के दौरान नींद और सक्रियता के पैटर्न पर भी नजर रखी। इस सहसंबंध को प्रमाणित करने के लिए, टीम ने पहनने योग्य सेंसर पैटर्न की तुलना पिछले गर्भावस्था अध्ययनों से प्रकाशित हार्मोन-स्तरीय डेटा से की और विस्तृत मॉडल तैयार किए जो गर्भावस्था के दौरान अपेक्षित हार्मोनल उतार-चढ़ाव के आधार पर हृदय गति में बदलाव की भविष्यवाणी करते थे।

त्वचा को चमकदार बनाता है विटामिन ई

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। हम जो खाना खाते हैं, उसमें कई तरह के पोषक तत्व होते हैं। इन पोषक तत्वों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो शरीर को सिर्फ बीमारियों से ही नहीं बचाते, बल्कि हमें बाहर से भी सुंदर और जवान बनाए रखते हैं। विटामिन ई ऐसा ही एक जरूरी पोषक तत्व है। यह शरीर में चर्बी वाले हिस्सों में जमा होता है और लंबे समय तक असर करता है।

अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो शरीर में मौजूद 'फ्री रेडिकल्स' के खिलाफ प्रभावी होता है। ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और हमें बीमार बना सकते हैं। विटामिन ई इनसे लड़कर हमें सुरक्षित रखता है।

विटामिन ई के कई फायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा है कि यह हमारी त्वचा और बालों को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। आज के समय में धूल, धूप और प्रदूषण के कारण त्वचा पर जल्दी बूढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं, लेकिन अगर शरीर में विटामिन ई की मात्रा सही हो, तो त्वचा लंबे



समय तक कोमल, चमकदार और जवां बनी रहती है। यह त्वचा की कोशिकाओं को पोषण देता है, और झुर्रियों को दूर करने में मदद करता है। यही वजह है कि ज्यादातर मॉइस्चराइजर और फेस क्रीम में विटामिन ई मिलाया जाता है।

बालों की बात करें तो विटामिन ई बालों की जड़ों तक खून पहुंचाने में मदद करता है, जिससे बाल मजबूत बनते हैं और टूटते नहीं हैं। यह बालों को रूखा और बेजान होने से भी बचाता है। कई लोग विटामिन ई का तेल अपने सिर में लगाते हैं जिससे बालों की चमक बढ़ती है और लंबाई भी। यहां तक कि अगर सिर की त्वचा में खुजली या डैंड्रफ की समस्या हो, तो विटामिन ई वाला तेल राहत पहुंचा सकता है। इसके अलावा, विटामिन ई दिल के लिए भी अच्छा माना जाता है। यह खून के थक्के बनने से रोकता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने की संभावना कम होती है। यह शरीर के इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। साथ ही आंखों की रोशनी, मांसपेशियों की ताकत और दिमाग के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है।

विटामिन ई के मुख्य स्रोत

विटामिन ई हमें प्राकृतिक रूप से बहुत सारी चीजों से मिल सकता है, जैसे कि बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, पालक, सरसों का साग, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां और साबुत अनाज। इसके अलावा सूरजमुखी का तेल, जैतून का तेल और मक्का का तेल भी इसके अच्छे स्रोत हैं। आजकल बाजार में विटामिन ई की कैप्सूल या तेल भी मिलते हैं, जिन्हें डॉक्टर की सलाह से लिया जा सकता है।

अजय देवगन ने युग को बताया अपना सबसे मजबूत आलोचक

मुंबई, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन के बेटे युग का शनिवार को बर्थडे है। इस खास पल पर अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने अपने बेटे के प्रति प्यार और स्नेह को बयां किया।

अजय ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह अपने बेटे युग को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर के साथ अजय ने एक कैप्शन लिखा कि मेरा सबसे मजबूत आलोचक और मेरा सबसे कोमल कोना जन्मदिन मुबारक हो मेरे बच्चे, तुमसे बहुत प्यार करता हूं।

युग अजय देवगन और अभिनेत्री काजोल का छोटा बेटा है। दोनों की एक बेटी न्यासा भी है। अजय और काजोल अक्सर अपने बच्चों के साथ बिताए पलों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। इससे पहले काजोल ने बेटे के जन्मदिन पर इंस्टाग्राम पोस्ट किया था। उन्होंने

बेटे के बर्थडे पर किया भावुक पोस्ट

एक वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा कि मेरे प्यारे बेटे युग ने आज 15 साल पूरे कर लिए मेरी यही कामना है कि वह हमेशा अच्छा, दयालु और प्यारा बना रहे। उसका हर दिन खुशियों से भरा हो। युग के जन्मदिन पर अजय की यह पोस्ट लोगों का ध्यान खींच रही है। फैंस ने इस पोस्ट पर जमकर प्यार बरसाया और युग को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। एक फैन ने लिखा कि युग को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, अजय सर आपका प्यार देखकर दिल खुश हो गया। वहीं, एक ने लिखा कि पापा-बेटे का यह प्यार अनमोल है। अजय के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'सन ऑफ सरदार-2' थी, जिसमें वह मृणाल ठाकुर के साथ नजर आए थे। उनकी अपकमिंग फिल्म 'धमाल-4' है, जो ईद साल 2026 में रिलीज होगी। फिल्म में अजय के साथ रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पटकर और रवि किशन जैसे स्टार नजर आएंगे। इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म को टी-सीरीज, देवगन फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल और पैनोरमा स्टूडियोज के बैनर तले बनाया गया है और इसका निर्माण अजय देवगन, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठकेरिया, इंद्र कुमार, आनंद पंडित और कुमार मंगत पाठक मिलकर कर रहे हैं।

दिशा पाटनी के घर गोलीबारी

हम दहशत में नहीं, पुलिस और प्रशासन हमारे साथ : जगदीश पाटनी

मुंबई, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश के बरेली में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर शनिवार तड़के अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की। यह घटना सुबह करीब 3 बजे हुई, जब दो अज्ञात लोग बाइक पर आए और दिशा के घर पर कई राउंड गोलियां चलाकर फरार हो गए। दिशा के पिता जगदीश पाटनी ने बताया कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में पूरी तरह सक्रिय है।

जगदीश पाटनी ने बताया कि यह घटना सुबह तड़के हुई। दो अज्ञात लोग बाइक पर आए और मेरे घर पर फायरिंग कर फरार हो गए। स्थानीय पुलिस, एसएसपी और एडीजी समेत पूरी पुलिस फोर्स इस मामले में सक्रिय है। कई टीमें जांच कर रही हैं। जैसे ही कोई नतीजा निकलेगा, जानकारी साझा की जाएगी।

उन्होंने यह भी साफ किया कि उनकी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। उन्होंने

कहा कि मैं पुलिस और आर्मी बैकग्राउंड से हूं। अगर कोई पुरानी रंजिश मानता है, तो यह कहना मुश्किल है, लेकिन मेरी जानकारी में कोई दुश्मनी नहीं है।

जगदीश पाटनी ने अपनी बेटी खूशबू पाटनी के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उठे विवादों पर भी सफाई दी। कुछ समय पहले खूशबू के नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें कथित तौर पर साधु-संतों और धर्म के खिलाफ टिप्पणी की थी। इस पर जगदीश ने कहा कि हम सनातनी हिंदू हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। साधु-संत हमारे लिए पूजनीय हैं। अगर किसी ने खूशबू की पोस्ट को काट-छांट कर गलत तरीके से पेश किया, तो यह सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है। हम ऐसा कभी नहीं कर सकते।

उन्होंने आगे कहा कि इस घटना से परिवार डरा हुआ नहीं है। मैं फोर्स से हूं, हमें ऐसी परिस्थितियों की ट्रेनिंग मिली है। हम दहशत में नहीं हैं। पुलिस और प्रशासन हमारे साथ हैं।

उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति की तारीफ की और कहा कि मुख्यमंत्री ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने मांग की कि हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो।

मस्तिष्क की समस्याओं में लाभकारी है भांग का बीज

भांग के बीज में ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड प्रमुख

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। भांग (विजया) का नाम सुनते ही कई लोग इसे नशे से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तव में इसके बीज यानी हेंप सीड्स स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी होते हैं। यह कोई साधारण बीज नहीं, बल्कि पोषक तत्वों का भंडार है। आयुर्वेद, पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक विज्ञान ने भी इसके औषधीय गुणों को स्वीकार किया है।

भांग के बीज में लगभग 30 प्रतिशत तक गुड फैट्स होते हैं, जिनमें ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड प्रमुख हैं। इनमें गामा-लिनोलेनिक एसिड भी पाया जाता है, जो इंफ्लेमेशन को कम करने और हार्मोनल संतुलन बनाने में मदद करता है। इसके अलावा, इनमें विटामिन ई, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम और जिंक जैसे जरूरी मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं।

भांग के बीज को पूर्ण प्रोटीन स्रोत माना जाता है, क्योंकि इनमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। इनकी कुल कैलोरी का 30 प्रतिशत उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन से आता है, जो चिया सीड और अलसी जैसे अन्य बीजों से अधिक है। यह विशेष रूप से शाकाहारियों और एथलीट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। भांग के बीज में घुलनशील और अघुलनशील दोनों प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं। ये पाचन तंत्र को साफ रखते हैं, आंतों को मजबूत बनाते हैं और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं। फाइबर ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है, जिससे मोटापा और डायबिटीज का खतरा कम होता है।

भांग के बीजों में पाया जाने वाला अमीनो एसिड आर्जिनिन शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जो रक्त वाहिकाओं को आराम देता है और रक्तचाप कम करता है। ओमेगा-3 फैटी एसिड हृदय को स्वस्थ रखते हैं और मस्तिष्क को उम्र संबंधी समस्याओं जैसे अल्जाइमर और डिमेंशिया से बचाते हैं। ये मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता को भी बेहतर बनाते हैं।

भांग के बीज पारंपरिक रूप से स्त्री रोग और हार्मोनल असंतुलन में उपयोग किए जाते रहे हैं। इनमें मौजूद फैटी एसिड और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हार्मोन के स्तर को संतुलित करते हैं। त्वचा के लिए भी ये बेहद फायदेमंद होते हैं। यह कोलेजन उत्पादन बढ़ाकर त्वचा को जवां बनाए रखते हैं और एक्ने व एक्जिमा जैसी समस्याओं में राहत देते हैं। भांग के बीज को आप कई तरह से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसे आप एक-दो चम्मच डायरेक्ट चबाकर खा सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें भिगोकर स्मूदी में मिला सकते हैं या फिर चटनी, सलाद, ओट्स आदि में भी डाल सकते हैं।

नाक सिर्फ सांस लेने का रास्ता नहीं, बल्कि शरीर का है सुरक्षाकर्मी

- **नाक हानिकारक कणों, जीवाणुओं और धूल को छानने का करता है कार्य**
- **मानसिक शांति, तंत्रिका तंत्र की मजबूती व प्राण के संतुलन में सहायक योग**

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (एजेंसियां)। आयुर्वेद में नाक को केवल श्वसन अंग के रूप में नहीं, बल्कि शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में भी देखा जाता है। आयुर्वेद के महान ग्रंथों जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में नाक की संरचना, कार्य और चिकित्सा प्रक्रियाओं को विशेष महत्व दिया गया है।

आयुर्वेद में नाक को 'प्राणाय: द्वारम' कहा गया है, जिसका अर्थ है जीवन ऊर्जा के प्रवेश का मार्ग। प्राण वायु के बिना शरीर का कोई भी कार्य संभव नहीं है। सांस के माध्यम से जो वायु शरीर में प्रवेश करती है, वही कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाकर जीवन बनाए रखती है।आयुर्वेद के अनुसार नाक का सीधा संबंध मस्तिष्क से होता है, इसीलिए आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में नस्य कर्म जैसी प्रक्रिया विकसित की गई है। इसमें औषधियों को नाक के माध्यम से डाला जाता है ताकि सिर, मस्तिष्क, नेत्र, कंठ और नाड़ियों से संबंधित विकारों का उपचार किया जा सके। यह मानसिक थकान, भूलने की बीमारी, सिरदर्द, नींद की कमी और चिंता जैसे रोगों में अत्यंत लाभकारी है। नाक की शारीरिक बनावट



इस प्रकार है कि यह बाहरी हानिकारक कणों, जीवाणुओं और धूल को छानने का कार्य करती है। नाक के भीतर छोटे बाल और श्लेष्मा (म्यूकस) होते हैं जो अवांछनीय तत्वों को अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। यह प्रक्रिया शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में सहायक होती है। नाक न केवल वायु का प्रवेश मार्ग है, बल्कि वह वायु का शोधन, तापमान संतुलन और आर्द्रता नियंत्रण भी करती है। ठंडी या प्रदूषित हवा को नाक भीतर जाकर गर्म और शुद्ध करती है, जिससे फेफड़ों पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। योग और प्राणायाम में नाक का महत्व अत्यधिक है। सभी श्वसन अभ्यास नाक से ही किए जाते हैं, क्योंकि यह मानसिक शांति, तंत्रिका तंत्र की मजबूती और प्राण के संतुलन में सहायक है। अनुलोम-विलोम, नाड़ी शोधन और भ्रामरी जैसी प्राणायाम विधियां नाक के माध्यम से ही की जाती हैं।

स्वच्छ भारत मिशन अर्बन-2.0 के तहत मिशन क्लीन सिटी कार्यशाला प्रशिक्षण शिविर सूरत से लौटी पालिका की टीम

कुम्हारी, 13 सितंबर (देशबन्धु)। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सूरत (गुजरात) में कार्यशाला प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था जिसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन-अर्बन (2.0) के तहत एक कदम स्वच्छता की ओर मिशन क्लीन सिटी की जानकारी एवं अनुभव जागरूकता के लिए छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से समस्त नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी और नगर पालिका अध्यक्ष को सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया गया था जिसमें नगर पालिका परिषद कुम्हारी से मुख्य नगर पालिका अधिकारी नेतराम चंद्राकर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मीना वर्मा जी एवं प्रेसिडेंट इन काउंसिल मेंबर्स अश्वनी कुमार देशलहरे एवं अध्यक्ष प्रतिनिधि पंकज वर्मा प्रशिक्षण में उपस्थित रहे।

सूरत गुजरात के कार्यशाला प्रशिक्षण में छत्तीसगढ़ के अर्बन लोकल बॉडीज से 168 सदस्य सम्मिलित हुए थे। सभी सदस्य एक स्पोजर विजिट पर सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से सॉलिड वेस्ट, लिच्डि वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट एवं ई वेस्ट के साथ ही मैनेजमेंट बायोडायवर्सिटी, गार्डन प्यूरोकेट्स और एडवांस प्लास्टिक मटेरियल से रोड निर्माण की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई। अश्वनी देशलहरे ने बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जहां सूरत में हर दिन हजारों टन गीला और सूखा कचरा उठाया जाता हैं। वहां की मिशनरी सिस्टम संसाधन इतना मजबूत और जबरदस्त हैं कि हर गली मोहल्ले और घर घर तक क्लिनिनेश आसानी से पहुंचते हैं और एक सुनिश्चित और सुरक्षित स्थान पर कचरा सीरिगेटेड कलेक्ट किया जाता हैं अर्थात गीला सूखा और प्लास्टिक कचरा अलग अलग किया जाता हैं।

साझा किए अपने अनुभव

अब ऑटोमैटिक जी पी एस फेरिड़ गार्वेज ट्रक से किया जाता हैं। लिच्डि वेस्ट मैनेजमेंट भी कम इंप्रेसिव होता हैं। वहां साधन संसाधन अर्थ व्यवस्था बेहद कारगर है। सूरत शहर में एडवांस वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी का पी एच मीटर, डी ओ मीटर, स्पेक्ट्रोफोटो मीटर क्लोरीन, लिच्डि क्लोराइन से शुद्धिकरण करना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इत्यादि जिसके द्वारा करोड़ो लीटर सीवर के गंदा पानी ट्रीट करते हैं। इस पानी को वाटर पार्क और गार्डेन्स इरिगेट्स करने में उपयोग किया जाता हैं। जिससे पानी वेस्टेज कम और पर्यावरण सुरक्षित रहता हैं।

प्लास्टिक और ई वेस्ट मैनेजमेंट्स से रिसाइक्लिन के माध्यम प्लास्टिक को सिस्टेमेटिक तरीके से कलेक्शन किया जा रहा हैं। जागरूकता कैम्पस के लिए डेडीकेटेड ड्रॉप पॉइंट और ट्राई एप्स हैं जिससे हानिकारक मटेरियल सही डिस्पोज हो रहा हैं।

यहा प्रमुख रूप से देखा कि बायोडायवर्सिटी गार्डन डेवलपमेंट प्लांट सूरत की कांक्रीट जंगल को ग्रीन लग्स में परिवर्तित कर दिया हैं।

कुम्हारी से गई टीम को सूरत में बहुत कुछ सीखने समझने का अवसर मिला जिसके लिए सूरत महानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से डॉ कन्हैया आविर, डॉ हरभजन, डॉ प्रदीप ओबेरकर, एस एम सी प्रवीण, आदर्श, आनंद, जैमिन पाटिल, एन जी ओ ईश्वर साहू एवं हिमेश पटेल का कुम्हारी नगरपालिका ने छत्तीसगढ़ शासन की ओर से धन्यवाद व्यक्त किया।

ठेकेदारों को भुगतान नहीं, 16 को बैठक में बनेगी रणनीति

राजनांदगांव, 13 सितंबर (देशबन्धु)। निर्माण विभागों में कार्यरत ठेकेदारों को बिलों का भुगतान लंबे समय से नही किया जाने को लेकर ठेकेदारों की आर्थिक स्थिति पर मार पड़ी है यही कारण है कि प्रदेश के समस्त ठेकेदार आंदोलित होने की तैयारी में जुट रहे है। वहीं दूसरी ओर अधिकारी समय पर काम पूर्ण करने के लिए ठेकेदारों पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाते है। अधिकारीयों की मनमानी और विसंगतियों को लेकर ठेकेदारों में रोष है। ऐसे कई मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर एसोसिएशन ने राजधानी में राज्य स्तरीय बैठक करने का ऐलान किया है। 16 सितंबर को होने वाली इस बैठक में प्रदेशभर के कांट्रेक्टर शामिल होंगे। राज्य सरकार के सामने निर्माण संबंधी मुद्दों को प्रमुखता से रखेंगे।

प्रदेश के सैकड़ों ठेकेदार रहेंगे उपस्थित

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला राजनांदगांव के अध्यक्ष संजय सिंगी, दुर्ग से के.पी मिश्रा, आलोक बिंदल, सुरेन्द पांडे का कहना है कि संगठन की मजबूती और विस्तार के साथ ही विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लेने के लिए यह बैठक बुलाई जा रही है। उनका यह भी कहना है कि राज्य के विकास में ठेकेदारों की अहम भूमिका होती है, लेकिन विभागीय अधिकारीयों द्वारा समस्याओं का निराकरण करने के बजाय हर स्तर पर जटिल प्रक्रिया उत्पन्न करने में ही ज्यादा दिलचस्पी दिखाते है। इससे निर्माण कार्य प्रभावित होते हैं। और ठेकेदार अनावश्यक रूप से परेशान होते है। निर्माण कार्यों की प्रक्रिया ऐसी होती है कि लाखों रूपए की सामग्री उधारी में लेना पड़ता है और जब विभागों से बिलों का भुगतान होते है तब ट्रेडर्स को बकाया चुकाते हैं। वर्तमान में करोड़ों रूपए का बिल छह महीने से लेकर एक साल से लंबित है, जिसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसका सीधा असर निर्माण कार्यों पर पड़ता है। ऐसे सभी मसलों पर प्रदेश के सभी जगहों के कांट्रेक्टर राज्य स्तरीय बैठक में अपनी बातों को रखेंगे। इसके बाद सभी बिंदुओं का ज्ञापन राज्य शासन को सौंपने का फैसला लिया जायेगा। एवं उक्त बैठक में सभी विभाग के ठेकेदार उपस्थित थे प्रमुख रूप से विनोद जैन गौरव खंडेलवाल कैलाश अहिरवार, उत्तम संचेती, योगेश भाविक, अताउल्ला खान, प्रदीप सिघल बंटी काण्डा।

पोस्टमार्टम में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर की कलेक्टर से की गई शिकायत

रोहांसी/पलारी /बलौदाबाजार, 13 सितंबर (देशबन्धु)। एक शव का 10 से 15 मिनट के अंदर 2 बार पोस्टमार्टम करने का आरोप प्रार्थी के द्वारा लगाते हुए लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर की शिकायत कलेक्टर से की गई है। मामला 7 सितंबर शनिवार को ग्राम बिनौरी में घटित हुआ जंहा एक 21 वर्षीय युवक की मौत नहाते वक्त हो गया था। मामले में कलेक्टर से शिकायत होने के बाद सीएमएचओ राजेश अवस्थी द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए डॉ पंकज वर्मा को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच की जिम्मेदारी दी है और 3 दिवस के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। वहीं डॉ ने शिकायत को बेबुनियाद बताया है।

एक शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने का लगाया आरोप, शिकायत पर जांच अधिकारी नियुक्त

उक्त मामले में कलेक्टर से शिकायत करते हुए पीड़ित ललित कुमार साहू ने बताया कि उनका लड़का कुलेश्वर उर्फकपिल साहू 7 सितम्बर को सुबह 6:30 बजे अपने दोस्तों के सांथ नहाने गया था इस दौरान कुलेश्वर उर्फकपिल गहरे पानी में चला गया और डूब गया, तालाब में काफी खोजबीन के बाद उसे बाहर निकाला गया तब तक उनकी सांसे थम चुकी थी। तत्काल ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई, मौके पर ए एस आई श्री देवांगन अपने सहयोगी के साथ घटना स्थल पर पंहुचकर पंचनामा बनाकर शव का पीएम के लिए मर्च्युरी ले जाया गया उस समय 9 बज रहा था।उस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी में मौजूद डॉ उमर ताज कुरैसी ने मेरा ड्यूटी का समय खत्म हो गया है इसलिये मैं पीएम नही कर सकता कहते हुए पीएम करने से मना कर दिए।इसके बाद उस वक्त ड्यूटी कर रही डॉ साक्षी केसरवानी सुबह 10 बजे मर्च्युरी पंहुचकर पोस्टमार्टम कर चली गई। इसके बाद 10-15 मिनट बाद डॉ उमर ताज कुरैसी मर्च्युरी पंहुचकर फिर से पोस्टमार्टम किया ऐसा शिकायत में कहा गया है। जब इस बात की जानकारी सरपंच प्रतिनिधि सनकुमार साहू को हुआ तब उन्होंने डॉ उमर ताज कुरैसी से कहा शव का पीएम 10:40 बजे हो गया है 5-10 मिनट में शव परिजनों को सौंपा जाना है और आपकी ड्यूटी खत्म हो गया है तो किस नियम से दोबारा पीएम किया जा रहा है तो उन्होंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वही पीड़ित के परिजनों ने मीडिया को बताया कि मर्च्युरी के अंदर टक टक की आवाज आने पर खिड़की से झांक कर देखा तो 3 डिब्बे रखे हुए थे जब इस बात का प्रतिकार किया तो उनके द्वारा अभद्रता से बात करते हुए यंहा से चले जाने को कहा गया इसके लिये परिजनों ने उक्त डॉ के खिलाफकार्यवाही की मांग की है।

मामले की जांच अधिकारी डॉ पंकज वर्मा ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी 6 लोगो के कथन ले लिया गया है। 1-2 दिन में बयान का फाइनल रिपोर्ट तैयार कर सीएचएमओ को सौप दिया जाएगा जंहा वे निर्णय लेंगे। डॉ उमर ताज कुरैसी ने बताया कि पोस्टमार्टम डॉ साक्षी केसरवानी द्वारा ही किया गया है मेरे द्वारा पोस्टमार्टम नही किया गया है और न ही किसी दस्तावेज पर मेरे हस्ताक्षर है और न ही मेरे द्वारा कोई दुर्व्यवहार किया गया है सभी शिकायते असत्य एवं निराधार है। वहीं उक्त शिकायत को लेकर सीएमएचओ डा. राजेश अवस्थी ने कहा कि प्रकरण को लेकर जांच अधिकारी डॉ पंकज वर्मा को बनाया गया है। जिनके द्वारा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तिविक स्थिति स्पष्ट होगा एवं शिकायत सही पायी गई तो संबंधित के खिलाफकार्यवाही की जायेगी।

मां पर प्राणघातक हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार

गिधपुरी, भरूवाडीह/बलौदाबाजार, 13 सितंबर (देशबन्धु)। थाना गिधपुरी पुलिस ने ग्राम बोहारडीह में अपनी ही मां पर लोहे की हंसिया से प्राणघातक हमला कर गंभीर चोट पहुँचाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना 11 सितंबर की रात की है, जब परिवार के सदस्य भोजन कर रहे थे। उसी दौरान बड़े बेटे धनेश्वर जोशी और छोटे बेटे हरेश जोशी के बीच मोबाइल की मरम्मत को लेकर विवाद हुआ। इस पर परिजनों ने धनेश्वर को समझाइस दी। समझाइस से नाराज होकर धनेश्वर गुस्से में आ गया और अश्लील गाली-गलौज करते हुए घर में रखी हंसिया से अपनी मां प्रार्थिया अंजनी जोशी पर हमला कर दिया। हमले में महिला के कान और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं। बीच-बचाव करने पहुँचे पति बिसहत जोशी भी घायल हो गए।

उक्त घटना की रिपोर्ट पर थाना गिधपुरी में अपराध क्रमांक 110/2025 धारा 109 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के निर्देशन में थाना गिधपुरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी धनेश्वर जोशी (उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम बोहारडीह) को तत्काल हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने गुस्से में आकर मां पर हमला करने की बात स्वीकार की। आरोपी को 12 सितंबर को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जहां से उन्हे जेल भेज दिया गया।

सिंचाई के लिए एग्रीमेंट रकबा नहर पानी के अभाव से पड़ा है सूखा

भरूवाडीह/बलौदाबाजार, 13 सितंबर (देशबन्धु)। ग्राम कोकड़ी के 500 एकड़ और ठेलकी के लगभग 700 एकड़ जमीन सिंचाई हेतु एग्रीमेंट किसानों के द्वारा कराया गया है लेकिन एग्रीमेंट क्षेत्र के किसानों के खेत सुखे पड़े हैं, वे नहर से सिंचाई हेतु पानी के लिए तरस रहे हैं। पीड़ीत किसान शिवन वर्मा, रितेश यादव, पुर्व सरपंच रामकुमार वर्मा, ईश्वर ध्रुव, कुलदीप वर्मा, घनश्याम गिर्रे, विजय वर्मा, फ्तुराम यादव खेलकी से नीलकंठ वर्मा, त्रिलोचन सेन, बेदराम वर्मा, नरेंद्र सेन, कृष्ण कुमार कश्यप, अशोक वर्मा आदि किसानों का कहना है कि बिना एग्रीमेंट अर्थात डिमांड वाले ऊंची पहुंच की धौंस दम पर अपने खेतों में पानी पला रहे हैं, और एग्रीमेंट वाले किसानों के खेत में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है उनके खेत सुख रहे हैं, वे सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अफसरों के विरूद्ध नुकसान की भरपाई हेतु न्यायालय की शरण लेने की बात कह रहे हैं। इसी स्थिति में कहते हैं कि गधे खीर खा रहे हैं और घोड़े दाना के लिए तरह रहे हैं।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं **गीतांश पिता श्री जीतेन्द्र कुमार साहू, निवासी उत्कर्ष, जोन-3, स्ट्रीट-8, न्यू आदर्श नगर दुर्ग, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) 491001** वर्तमान में पुणे में अध्ययनरत होने से वर्तमान पता - ए 414, आई.ओ.एस. सोसायटी, तथावड़े, पिंपरी चिंचवड़, पुणे (महाराष्ट्र) 411033 यह शपथ करता हूं कि मैंने अपना पुराना नाम **गीतांश पिता श्री जीतेन्द्र कुमार साहू** को त्याग कर नया नाम **गीतांश साहू पिता श्री जीतेन्द्र कुमार साहू** रख लिया है। अतः आज से मुझे मेरे समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नये नाम **गीतांश साहू पिता श्री जीतेन्द्र कुमार साहू** से ही जाना व पहचाना जावे।

गीतांश साहू
उत्कर्ष, जोन-3, स्ट्रीट- 8, न्यू आदर्श नगर, दुर्ग, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पिथौरा
जिला-महासमुंद (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.मा.क्र. वर्ष
ग्राम.... प.ह.नं.....
रा.नि.मं. सांकरा/पिथौरा तह.पिथौरा जिला महासमुंद

एतद् द्वारा सर्वसाधारण ग्राम कोहाकुडा के आम नागरिक को सूचित किया जाता है आवेदक लता पिता उगेसर जाति गोड़ साकिन कोहाकुडा रा.नि.मं. सांकरा/पिथौरा तहसील पिथौरा जिला महासमुंद द्वारा अपने गोकुल पिता रूपराय के दिनांक 10.02.1978 को जन्म होने से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवेदन पेश किया है।

अतः उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी सज्जन या संस्था को कोई उजर/दावा/आपत्ति हो तो वह स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 15 दिवस को मेरे समक्ष उपस्थित होकर उजर/दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त उजर/दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 11.09.2025 को मेरे न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

मुहर **तहसीलदार पिथौरा**

न्यायालय तहसीलदार पिथौरा
जिला-महासमुंद (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.मा.क्र. वर्ष
ग्राम... प.ह.नं...
रा.नि.मं. सांकरा/पिथौरा तह. पिथौरा, जिला महासमुंद

एतद् द्वारा सर्वसाधारण ग्राम कोहाकुडा के आम नागरिक को सूचित किया जाता है आवेदक लता पिता उगेसर जाति गोड़ साकिन कोहाकुडा रा.नि.मं. सांकरा/पिथौरा तहसील पिथौरा जिला महासमुंद द्वारा अपने तुलसीराम पिता देवसिंग के दिनांक 26.11.2002 को जन्म होने से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवेदन पेश किया है।

अतः उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी सज्जन या संस्था को कोई उजर/दावा/आपत्ति हो तो वह स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 15 दिवस को मेरे समक्ष उपस्थित होकर उजर/दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त उजर/दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 11.09.2025 को मेरे न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

मुहर **तहसीलदार पिथौरा**

न्यायालय तहसीलदार पिथौरा
जिला-महासमुंद (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.मा.क्र. वर्ष
ग्राम... प.ह.नं...
रा.नि.मं. सांकरा/पिथौरा तह. पिथौरा, जिला महासमुंद

एतद् द्वारा सर्वसाधारण ग्राम कोहाकुडा के आम नागरिक को सूचित किया जाता है आवेदक लता पिता उगेसर जाति गोड़ साकिन कोहाकुडा रा.नि.मं. सांकरा/पिथौरा तहसील पिथौरा जिला महासमुंद द्वारा अपने देवसिंग पिता गोकुल के दिनांक 05.10.1982 को जन्म/मृत्यु होने से जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवेदन पेश किया है।

अतः उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी सज्जन या संस्था को कोई उजर/दावा/आपत्ति हो तो वह स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 15 दिवस को मेरे समक्ष उपस्थित होकर उजर/दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त उजर/दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 11.09.2025 को मेरे न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

मुहर **तहसीलदार पिथौरा**

MICRO & SMALL ENTERPRISES FACILITATION COUNCIL,C.G. (Estd. Under MSMED Act 2006)
Directorate of Industries, Chhattisgarh Udyog Bhawan, Ring Road, No. 1, Telebandha, Raipur (CG)
Email: facilitation-councilor.gex.in
Application No. UDY AH16:05/0003857/1/00005
Raipur, Dated-26.06.2025 lab/zer
Speed Post
:: NOTICE::
Supplier/Applicant:
M/s Fair Flux Pvt /Ltd. Block No 56A/17 Nehru Nagar (w) Bhilai, Durg (C.G.-490020
V/s
Buyer/Non-Applicant
11. Bhilai Steel Plant Purchase Deptt. ispat Bhawan Bhilai DURG - C.G-490001

The applicant has supplied/provided material/services to Non-applicant whereas Non-applicant has not paid the balance amount of Rs.7,61,456/ The applicant has submitted application / reference under section 18(1) of the MSMED Act, 2006 before Micro and Small Enterprises Facilitation Council, Chhattisgarh. The Case is fixed for 24/10/2025 at 11:00 am, Directorate of Industries, Udyog Bhawan, Ring Road No. 01, Telibandha, Raipur (C.G.) for hearing. The Non-applicant is hereby intimated to appear on said date for hearing along with neccesarry documents /reply. If Non-applicant fails to appear before council on said date for hearing, the council may pass ex-parte award/order for which the Non-applicant would be responsible himself.

Assist. Director of Industries
MSEFC

न्यायालय अपर कलेक्टर महासमुंद
जिला-महासमुंद (छ.ग.)

रा.मा.क्र. 202507120200013/अ-27
ग्राम नरसिंगपुर, तहसील पिथौरा
खिती वल्द वसुदेव एवं 06 अन्य, निवासी ग्राम नरसिंगपुर, तहसील पिथौरा, जिला-महासमुंद (छ.ग.)
विरूद्ध
श्रीमती यज्ञवती साहू उर्फ हेमकुमारी साहू पिता [illegible] प्रति, 01. अहिल्या पिता शौकीलाल 02. कल्पना उर्फ गायत्री पिता शौकीलाल 03. मनोरमा पिता धरमु 04. अनुपमा पिता धरमु 05. अनुराधा पिता धरमु 06. नीलिमा पिता जोवराम 07. सीमा पिता भोजराम 08. प्रमोदनी पिता केसवी 09. अनुसूया पि. भोजराम सभी निवासी ग्राम नरसिंगपुर तहसील पिथौरा, जिला महासमुंद (छ.ग.)

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि पुनरीक्षणकर्ता खिती वल्द वसुदेव एवं अन्य 06 निवासी ग्राम नरसिंगपुर तहसील पिथौरा, जिला महासमुन्द (छ.ग.) द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पिथौरा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 202402120400004/अ-27 वर्ष 2023-24 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है। जिसमें आप सभी पक्षकार है। उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से राजस्व मामले में नोटिस भेजा गया था, किन्तु उक्त पत्र बिना तामिली वापस हो गया है। अतः आपको उक्त प्रकरण में अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो इस न्यायालय में प्रकरण दिनांक 29.09.2025 को नियत है। जिसमें आप स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 29.09.2025 को दोपहर 3.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। आपकी अनुपस्थिति की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही की जा सकती है।
जारी दिनांक 11.09.2025

मुहर **अपर कलेक्टर जिला-महासमुंद**

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सिमगा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
राजस्व मामले की नोटिस

रा.प्र.क्र. 202410211000003/2110/
एपीएल अ/6 (अ) वर्ष 2024-2025
ग्राम-मुसुवाडीह, तहसील सिमगा
गोविंदा पिता धरमदास जाति सतनामी उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम मुसुवाडीह प.ह.नं. 18 थाना व तह. सिमगा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) ..... अपीलार्थी
विरूद्ध
[illegible]
अपील प्रस्तुत की गई है। इस समाचार पत्र के माध्यम से आप उत्तरवादी को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त मामले की सुनवाई तारीख 22.09.2025 को दिन के 11.00 बजे स्थान सिमगा में होगी। उक्त तिथि, समय एवं स्थान पर इस न्यायालय के समक्ष स्वयं या वैध रूप से नियुक्त अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित रहे अन्यथा आप उत्तरवादी के विरूद्ध न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 10.09.2025 को जारी किया गया।

मुहर **अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सिमगा**

न्यायालय तहसीलदार सिमगा
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र. अ/6 (अ) वर्ष 2024-2025
साकिन-सीतापार प.ह.नं. 22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण जनता ग्राम सीतापार प.ह.नं. 22 तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार- भाटापारा (छ.ग.) को सूचित किया जाता है आवेदक कामदेव साहू पिता स्व. सुखीराम साहू निवासी ग्राम सीतापार प.ह.नं. 22 की ओर से [illegible] ख.नं. 145/1 का टु. 0.080 हे., ख.नं. 172/1 का टु. 0.049 हे. मध्यप्रदेश शासन सिंचाई विभाग द्वारा दि. 24-02-1983 को भू-अर्जन किये जाने का उल्लेख है। इस संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई दावा / आपत्ति पेश करना हो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम् से पेशी दिनांक 22.09.2025 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 03.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

मुहर **तहसीलदार सिमगा**

न्यायालय तहसीलदार सिमगा
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
ईश्तहार

क्रमांक/तह./वा./2025
सिमगा, दिनांक 10.09.2025
रा.प्र.क्र. 202509216000035ब/121 2024-2025
ग्राम-बनसांकरा प.ह.नं. 13

[illegible] निवेदन किया गया है। आवेदक द्वारा पूछे जाने पर अपना निवास ग्राम महासमुंद जिला महासमुंद बताया गया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति / सस्था को आपत्ति हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर सुनवाई दिनांक 23.09.2025 को दावा आपति पेश कर सकता है। सुनवाई तारीख के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर जारी किया गया।

मुहर **तहसीलदार सिमगा**

आम सूचना

एतद द्वारा सर्व साधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि मै अमन कुमार साहू पिता छेदराम साहू उम्र 35 वर्ष जाति तेली निवासी ग्राम बुड़गहन थाना व तहसील सुहेला जिला बलौदाबाजार भाटापारा छ.ग. का निवासी हूं मेरे द्वारा आधार कार्ड में अमन कुमार साहू के स्थान पर गेंदराम साहू पिता छेदुराम साहू कराना चाहता हूं जिस पर किसी व्यक्ति संस्था कम्पनी को किसी भी प्रकार की आपत्ती हो तो मुझे मेरे पते पर ईश्तहार प्रकाशन के 03 तीन दिवस के भीतर दावा आपत्ती प्रस्तुत कर सकते है नियत समय पश्चात् दावा आपत्ती मुझ पर बंधकारी नहीं होगा
दिनांक........

अमन कुमार साहू
पिता छेदुराम साहू
निवासी ग्राम बुडगहन थाना व तहसील सुहेला जिला बलौदाबाजार भाटापारा (छ.ग.)
मोबाईल नंबर 9926475586

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सिमगा,
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र. अ/2 वर्ष 2024-2025
वाद भूमि ग्राम सिमगा प.ह.नं. 15

एतद् द्वारा सर्वसाधारण जनता ग्राम सिमगा प.ह.नं. 15 तहसील सिमगा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, को सूचित किया जाता है, कि आवेदक रामजी देवांगन पिता श्री चिमनलाल जाति कोष्टा निवासी ग्राम सिमगा कास्तकार ग्राम सिमगा तहसील सिमगा जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा ने ग्राम सिमगा प.ह.नं. 15 तहसील सिमगा स्थित अपने भूमिस्वामी हक की भूमि ख.न. 939/2 रकबा 0 040 है. भूमि को व्यवसायिक प्रयोजन हेतु पुर्न कर निर्धारण किये जाने हेतु आवेदन पत्र गय शपथ पत्र बी.-1, खसरा, नक्शा की प्रति तथा बैनामा की छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत किया है।

अतः उक्त आवेदित भूमि को व्यवसायिक प्रयोजन हेतु पुर्न कर निर्धारण किये जाने में जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा-आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह स्वंय या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रकरण नियत सुनवाई पेशी दिनांक 29.09.2025 तक अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के उपरांत प्राप्त आपत्ति दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अतएव आज दिनांक 13.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

मुहर **अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सिमगा**

नाम परिवर्तन सूचना

मैं किरण बाई (Kiran Bai) पति रामदयाल जाति यादव निवासी ग्राम कन्हारपुरी तहसील गुरूर जिला-बालोद छ.ग. का निवासी हूं। मेरा नाम आधार कार्ड में प्रचलित नाम कृष्णा बाई पति रामदयाल दर्ज है। तथा मेरे पति के सेवा पुस्तिका में मेरा वास्तविक नाम किरण बाई दर्ज हैं। मैं किरण बाई एवं कृष्णा बाई दोनों नाम की एक ही महिला हूं। मेरा नाम पूर्व में कृष्णा बाई पति रामदयाल था जिसे मैं परिवर्तन कर अपना नाम किरण बाई (Kiran Bai) कर ली हूं। तथा मैं अपने नाम परिवर्तन के संबध में नोटरी गुरूर के समक्ष एक शपथ पत्र भी निष्पादित करा दिया हूं। अब मुझे कृष्णा बाई के स्थान पर किरण बाई पति रामदयाल के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाता है। अब मेरा वास्तविक नाम यही है।

किरण बाई
पति रामदयाल
निवासी ग्राम कन्हारपुरी तह. गुरूर
जिला-बालोद (छ.ग.)

शपथ पत्र

मैं लक्ष्मी धृतलहरे Lakshmi Dhritlahre उर्फ लक्ष्मी घृतलहरे Laxmi Ghritlahare उम्र 46 वर्ष पति स्व. श्री महेत्तर धृतलहरे Mahettar Dhritlahre जाति सतनामी निवासी मकान नं. 113, डीही पारा उत्तर नगरी, चुरियारा, तहसील नगरी, जिला धमतरी छ.ग. की निवासी हूं। जो नीचे लिखे अनुसार कथन शपथपूर्वक कहती हूं कि:-
1. यह कि शपथकर्ता उपरोक्त पते का निवासी है तथा शपथकर्ता के पति महेत्तर सिंह घृतलहरे Mahettar Singh Ghritlahare के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा भाटापारा, जिला बलौदाबाजार भाटापारा छ.ग. द्वारा एक पालिसी कमांक 359354010 जारी किया गया हैं। 2. यह कि शपथकर्ता के पति महेत्तर सिंह घृतलहरे की मृत्यु दिनांक 01.07.2025 को स्थान बालाजी हास्पीटल रायपुर, जिला रायपुर छ.ग. में हो गया हैं। 3. यह कि शपथकर्ता के पति महेत्तर सिंह घृतलहरे के नाम पर जारी उक्त पालिसी में शपथकर्ता का नाम नामिनी के रूप में लक्ष्मी घृतलहरे Laxmi Ghritlahare दर्ज हैं। 4. यह कि शपथकर्ता का वास्तविक नाम लक्ष्मी धृतलहरे Lakshmi Dhritlahre पति महेत्तर धृतलहरे Mahettar Dhritlahre है तथा शपथकर्ता का घरेलू नाम लक्ष्मी घृतलहरे Laxmi Ghritlahare है। 5. यह कि शपथकर्ता के नाम पर भारत सरकार द्वारा आधार कार्ड कमांक 8741 7207 0439 जारी किया गया हैं, जिसमें शपथकर्ता का नाम लक्ष्मी धृतलहरे Lakshmi Dhritlahre पति महेत्तर धृतलहरे Mahettar Dhritlahre दर्ज है तथा शपथकर्ता के नाप भारतीय स्टेंट बैंक शाखा कसडोल, जिला बलौदाबाजार भाटापारा छ.ग. द्वारा सेविंग खाता कमांक 44255062844 में शपथकर्ता का नाम लक्ष्मी घृतलहरे Lakshmi Dhritlahre पति महेत्तर धृतलहरे Mahettar Dhritlahre दर्ज है। 6. यह कि लक्ष्मी धृतलहरे Lakshmi Dhritlahre तथा लक्ष्मी घृतलहरे Laxmi Ghritlahare दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है अर्थात के ही नाम है तथा शपथकर्ता को उपरोक्त दोनों नामो से जानी पहचानी जाती हैं। 7. अतः यह शपथ पत्र यह दर्शित करने हेतु कि शपथकर्ता के पति महेत्तर सिंह घृतलहरे के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी पालिसी की जमा राशि एवं बीमा की राशि को शपथकर्ता नामिनी की हैसियत से प्राप्त करने तथा भविष्य में उहंछ राशि के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संस्था के दावा आपत्ति करने पर बैंक / संस्था को होने वाली क्षति की जवाबदारी शपथकर्ता की रहेगी दर्शित करने हेतु यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं।
दिनांक 13.09.2025

शपथकर्ती

न्यायालय तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भाटापारा (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 831 ब/ 121 वर्ष 2024-25
ग्राम- सुरखी प.ह.नं. 09 तह. भाटापारा

एतद व्दारा सर्व साधारण को ईश्तहार के व्दारा सुचित किया जाता है आवेदक रूपेश यादव पिता हीरालाल यादव निवासी ग्राम सुरखी तहसील भाटापारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) के द्वारा अपने पत्नि लक्ष्मी बाई यादव पति रूपेश यादव (मृतक के पिता का नाम-फेकू यादव, माता का नाम-मालती यादव) की मृत्यु दिनांक 18.07.2022 को (स्थान) ग्राम सुरखी तहसील भाटापारा का मृत्यु पंजीयन करने हेतु रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु ग्राम पंचायत सचिव सुरखी तहसील भाटापारा जिला बलौदाबाजार - भाटापारा (छत्तीसगढ़) को जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 एवं छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2001 के नियम 9 (3) के तहत निर्देश देने हेतु शपथ पत्र, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र एवं सरपंच का प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके सबंध में प्रकरण विचाराधीन है, तथा दिनांक 29.09.25 को सुनवाई हेतु नियत है।

अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति / संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा-आपत्ति पेश करना हो तो नियत पेशी तारीख 29.09.25 तक स्वयं या अपने अभिभाषक या वैध प्रतिनिधि के माध्यम से दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 12.09.25 को न्यायालय के पद मुहर सहित जारी किया गया।

तहसीलदार
कार्यपालिक दंडाधिकारी
मुहर **भाटापारा (छ.ग.)**

NAME CHANGE

It is informed to the general public that I, MOHMMD ALI S/O SHEKH MUSA resident of HOUSE NO 82 WARD NO 02 MASTANPARA SUKMA (C.G.) 494111 have changed my old name MOHMMD ALI S/O SHEKH MUSA so in future I should be recognized by my new name that is MOHAMMAD ALI S/O SHEKH MUSA in all Government and other documents.

MOHAMMAD ALI
HOUSE NO 82 WARD NO 02
MASTANPARA SUKMA (C.G.)
494111

NAME CHANGE

It is informed to the general public that I, KHARUN NISHA W/O MOHAMMAD ALI resident of HOUSE NO 82 WARD NO 02 MASTANPARA SUKMA (C.G.) 494111 have changed my old name KHARUN NISHA W/O MOHAMMAD ALI so in future I should be recognized by my new name that is SHEKH KHAIRUN NISHA W/O MOHAMMAD ALI in all Government and other documents.

SHEKH KHAIRUN NISHA
HOUSE NO 82 WARD NO 02
MASTANPARA SUKMA (C.G.)
494111

न्यायालय नायब तहसीलदार बलौदाबाजार
जिला बलौदाबाजार भाटापारा (छ.ग.)
ईश्तहार
क्रमांक/235/ना.तह./वा./2025
बलौदाबाजार दिनांक 02.09.2025,

सर्व साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका टुकेश्वरी पिता वीरसिंग जाति राउत निवासी ग्राम भद्रापाली तहसील बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार भाटापारा छ.ग. ने आवेदन प्रस्तुत किया है कि आवेदिका की स्वयं का जन्म दिनांक 02.01.2005 को ग्राम भद्रापाली में हुआ था जिसका जन्म पंजीयन नही होने के कारण ग्राम पंचायत भद्रापाली में पंजीयन किये जाने का निवेदन किया है। जो कि प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को दावा आपत्ति करना है तो स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 15.09.2025 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।

नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा। यह उद्घोषणा आज दिनांक 02.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
(मुहर) **बलौदाबाजार**

प्रदेश की 3 करोड़ जनता के आरोग्य के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का सपना करेंगे पूरा : मुख्यमंत्री साय

- मुख्यमंत्री ने तीन दिवसीय डेंटल कॉन्फ्रेंस का किया शुभारंभ
- मानव मुस्कान को सुरक्षित रखने और सहेजने में दंत चिकित्सकों की भूमिका महत्वपूर्ण

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। मुख्यमंत्री ने तीन दिवसीय डेंटल कॉन्फ्रेंस 2025 का किया शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश की 3 करोड़ जनता के आरोग्य के साथ हम विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार करेंगे। पिछले 20 महीनों में प्रदेश की स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करते हुए दुर्गम अंचलों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है।

मुख्यमंत्री साय आज राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित तीन दिवसीय डेंटल कॉन्फ्रेंस 2025 का शुभारंभ कर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दंत चिकित्सा और दांतों की देखभाल से जुड़े उपयोगी उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा डेंटल एसोसिएशन की वार्षिक स्मारिका का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार बनने के पहले दिन से ही हमने प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रदेश में पांच नए मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति दी गई है, साथ ही फिजियोथैरेपी, नर्सिंग और मदर-चाइल्ड हॉस्पिटल जैसे संस्थानों की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ के साथ ही हम प्रगति की भी बात कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। वर्ष 2000 में जहां केवल एक मेडिकल कॉलेज था, वहीं आज 15 मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना से मरीजों और बुजुर्गों को नि:शुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है। वहीं, सस्ती जेनेरिक दवाइयां आम जनता को राहत प्रदान कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पान मसाला, गुटखा और तंबाकू की वजह से मुँह के कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।उन्होंने कहा कि दाँतों की देखभाल और सुंदर मुस्कान देने में दंत चिकित्सकों की अहम भूमिका है।उन्होंने चिकित्सकों से आह्वान किया कि इस दिशा में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाएँ।

श्री साय ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश का जीएसडीपी 5 लाख करोड़ है, जिसे वर्ष 2047 तक 75 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इस दिशा में हम पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज और वन संपदा से समृद्ध है, मेहनतकश किसान और परिश्रमी जनता इसकी असली ताकत हैं। च्छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़ियाज्ज की कहावत को दोहराते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश 2047 तक अपने लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करेगा।

जीएसटी सुधारों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में जीएसटी के स्लैब को 5 और 18 प्रतिशत में एकरूप किया गया है। इससे व्यापार और कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा तथा व्यावसायिक गतिविधियाँ सरल होंगी। यह प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि को दर्शाता है, जो भारत को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने अंत में कहा कि च्मानव की मुस्कान सबसे कीमती है और उसे सुरक्षित रखने व सहेजने में दंत चिकित्सकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।ज्ज उन्होंने कहा कि तीन दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दंत चिकित्सक मुँह और दाँत से जुड़ी बीमारियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे और उनके उपचार की दिशा में नए संभावनाओं के द्वार खुलेंगे।

प्रदेश में पांच नए मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति के साथ अब कुल 15 मेडिकल कॉलेज होंगे। इसके अलावा बिलासपुर में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, 12 नए नर्सिंग कॉलेज और पाँच फिजियोथैरेपी कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। जायसवाल ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट और दुर्गम क्षेत्रों के लिए बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे अधिक कैशलेस इलाज सुविधा देने वाला राज्य बन चुका है।

कॉन्फ्रेंस में इंडियन डेंटल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रेसिडेंट डॉ. अरविंद कुमार, पूर्व प्रेसिडेंट डॉ. राजीव सिंह, कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन डॉ. वैभव तिवारी सहित बड़ी संख्या में देशभर से आए दंत चिकित्सक उपस्थित रहे।

अम्बेडकर अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग में एक और विदेशी युवती का सफल ऑपरेशन

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। प्रदेश का सबसे बड़ा पं. नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं इससे संबद्ध डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय लगातार अपनी उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं से न केवल प्रदेश और देश बल्कि विदेशों से आए मरीजों का भी भरोसा जीत रहा है। अनुभवी डॉक्टरों की टीम एवं उपचार प्राप्त करने की सरलतम प्रक्रिया के कारण यह अस्पताल सर्वाधिक विश्वसनीय संस्थान के रूप में अपनी पहचान व्यापक स्तर पर दर्ज कर चुका है। इसी क्रम में हाल ही में अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग में रवांडा (ईस्ट अफ्रीका) की 20 वर्षीय युवती के लेफ्ट ब्रेस्ट के बेनाइन फाइब्रो एपिथीलियल ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया गया। जनरल सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. मंजू सिंह के नेतृत्व में हुए इस ऑपरेशन की विशेषता यह रही कि ब्रेस्ट के ट्यूमर को निकालने के बाद मरीज के भावी जीवन, विशेषकर मातृत्व अवस्था पर इस सर्जरी का कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

- 20 वर्षीय युवती के ब्रेस्ट के बेनाइन फाइब्रो एपिथीलियल ट्यूमर की सफल सर्जरी
- ईस्ट अफ्रीका के देश रवांडा की रहने वाली है मरीज
- इससे पहले लाइटलेम्बा, क्रिसेंट (दक्षिण अफ्रीका) की युवती का हो चुका है सफल उपचार

डॉ. मंजू सिंह के अनुसार वर्तमान में युवती पूरी तरह ठीक है और उसे अस्पताल से छुट्टी भी दी जा रही है। ऑपरेशन के संदर्भ में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि एक 20 वर्षीय विदेशी युवती लेफ्ट ब्रेस्ट में दर्द की समस्या के साथ अस्पताल के ब्रेस्ट क्लिनिक में आई थी। जहां पर जांच के बाद पता चला कि उसके ब्रेस्ट में बेनाइन फाइब्रो एपिथेलियल ट्यूमर है। मरीज की बायोप्सी हुई। उसके बाद ब्रेस्ट की कॉस्मेसिस मेंटेन करते हुए ऑपरेशन किया गया ।

ब्रेस्ट के ट्यूमर एवं उसके आसपास के टिश्यू को हटाते हुए वाईड लोकल एक्सीजन किया गया। इस बात का ध्यान रखा गया कि ब्रेस्ट के शेप और साइज में कोई अंतर नहीं आये। साथ ही साथ सर्जरी के बाद निशान भी दिखाई नहीं दे।

पं. नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉ. विवेक चौधरी के कहा है कि चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के लिए यह गर्व की बात है कि यहाँ न केवल देश बल्कि विदेश से भी मरीज उपचार हेतु आ रहे हैं और स्वस्थ होकर लौट रहे हैं। जनरल सर्जरी विभाग द्वारा युवती का सफल उपचार हमारी चिकित्सा टीम की दक्षता, निष्ठा और समर्पण का प्रमाण है। मैं पूरी टीम को इस सफलता के लिए बधाई देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा संस्थान आगे भी इसी तरह उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करता रहेगा।

अम्बेडकर अस्पताल के सर्जरी विभाग की इन उपलब्धियों ने यह साबित कर दिया है कि सरकारी अस्पतालों की सेवाएँ न केवल सुलभ और किफायती हैं बल्कि उच्चस्तरीय गुणवत्तापरक भी हैं। यही कारण है कि अब विदेशी मरीज भी यहाँ उपचार के लिए आ रहे हैं।

अम्बेडकर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने जानकारी देते हुए कहा है कि अम्बेडकर अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग की ओपीडी में ब्रेस्ट क्लीनिक का संचालन नियमित तौर पर किया जा रहा है। यहां पर प्रतिमाह 300 से 400 ब्रेस्ट से संबंधित समस्याओं के केस महिला डॉक्टरों के द्वारा देखे जाते हैं। आवश्यकतानुसार जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन भी किया जाता है। वर्तमान में यहां जनरल सर्जरी विभाग में ब्रेस्ट की रीडक्शन सर्जरी भी की जा रही है जिसमें स्तनों के असामान्य आकार को ऑपरेशन के जरिए सामान्य स्थिति में लाया जाता है।

मरीज का ऑपरेशन करने वाली टीम में डॉ. मंजू सिंह के साथ डॉ. अमित अग्रवाल, डॉ. मनीष साहू, डॉ. कृतिका एवं डॉ. तपिश, एनेस्थीसिया से डॉ. प्रतिभा शाह एवं डॉ. मंजुलता टंडन एवं अन्य शामिल रहे।

गौरतलब है कि इससे पहले भी जनरल सर्जरी विभाग में दक्षिण अफ्रीका की एक युवती का सफल उपचार किया जा चुका है।

खैरागढ़ के दाऊचौरा में डायरिया का प्रकोप

- नालियां जाम, जंग लगी पाइपलाइनः कब जागेगा प्रशासन?

खैरागढ, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। नगर में डायरिया का प्रकोप दिन-ब-दिन गंभीर होता जा रहा है। शुरुवाती दौर में वार्ड क्रमांक 11 के एक पुरुष और वार्ड क्रमांक 3 गंजीपारा की एक महिला की मौत हो चुकी है। इसके अलावा किल्लापारा, गंजीपारा, देवारीभांट और अन्य मोहल्लों से लगातार मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं और रोजाना उल्टी-दस्त से पीड़ित नए मरीज भर्ती हो रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि गंदे पानी की आपूर्ति और नालियों की नियमित सफाई न होना ही इस महामारी की असली वजह है।

स्थिति तब और गंभीर हो गई जब विधायक यशोदा वर्मा के गृहग्राम देवारीभांट से बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंचे। हालात का जायजा लेने विधायक स्वयं सिविल अस्पताल पहुंचीं। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर हाल जाना और अस्पताल प्रबंधन को बेहतर इलाज तथा साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने पीएचई विभाग की लापरवाही पर नाराजगी भी जताई और विभाग को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की चेतावनी दी।

ताज़ा जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 16 दाऊचौरा की एक गली में डायरिया ने दस्तक दे दी है। यहां से अब तक 13 लोग बीमार होकर सिविल अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. विवेक बिसेन ने बताया कि जांच में स्पष्ट हुआ है कि इलाके की पानी आपूर्ति लाइन बेहद पुरानी और जंग लगी हुई है। यह पाइपलाइन नालियों के पास से गुजरती है, और लीकेज की वजह से गंदा नाली का पानी पाइप में मिल जाने की आशंका है। यही संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। डॉ. बिसेन ने लोगों से अपील की है कि वे पानी को उबालकर पिएं, घर-आंगन में सफाई रखें और किसी भी प्रकार के लक्षण दिखते ही तुरंत अस्पताल पहुंचें।

विभागीय योजनाओं का असर धरातल पर दिखना चाहिए: अरुण साव

- उप मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा की
- 'वीमेन फॉर ट्री' के तहत नगरीय निकायों में लगाए जा रहे 1.66 लाख पौधे

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में आयोजित बैठक में अधिकारियों को हर कार्य की पूर्णता के लिए समय-सीमा तय कर योजनाओं के क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने गौधाम योजना के क्रियान्वयन के लिए शीघ्र कार्ययोजना तैयार करने को कहा। साव ने नगरीय निकायों में निर्माणाधीन अटल परिसरों और नालंदा परिसरों के निर्माण में भी तेजी लाने को कहा। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक आर. एक्का भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री साव ने बैठक में कहा कि विभाग द्वारा लगातार नवाचार के कार्य किए जा रहे हैं। नवाचारों के साथ ही विभागीय संरचना और योजनाओं का सुदृढ़ीकरण व विस्तारीकरण भी किया जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं का असर धरातल पर दिखना चाहिए। प्रत्येक कार्य की समय-सीमा तय की जाए। सभी कार्यों में गुणवत्ता के साथ ही जन सुविधाओं का ध्यान रखा जाए।

श्री साव ने बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को नगरीय निकायों के सेट-अप पुनरीक्षण और वर्गीकरण के साथ ही रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग से समन्वय कर स्वीकृति के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।



उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी निकाय में अधिकारियों-कर्मचारियों को वेतन देने में विलंब की स्थिति नहीं निर्मित होना चाहिए। समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित करें। साव ने नगरीय निकायों के सभी वार्डों में आबादी के हिसाब से समुचित स्ट्रीट लाइटिंग के निर्देश दिए। उन्होंने पार्षद निधि के तहत इसके प्रावधान का प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने दीपावली के पहले सभी निकायों के प्रत्येक वार्ड में प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री साव ने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'वीमेन फॉर ट्री' के अंतर्गत नगरीय निकायों में किए जा रहे पौधरोपण के बारे में कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए यह गौरव की बात है कि पूरे देश में मध्यप्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक संख्या में वृक्षारोपण की मंजूरी मिली है। 'वीमेन फॉर ट्री' के अंतर्गत 27 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत की 444 परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है। अभियान के तहत विभिन्न नगरीय निकायों में कुल एक लाख 66 हजार पौधे लगाए जाएंगे। पौधरोपण के बाद एक वर्ष तक इनकी देखभाल और सुरक्षा का काम 1701 महिला समूहों को सौंपा गया है। बैठक में बताया गया कि 'वीमेन फॉर ट्री' के तहत अब तक एक लाख 33 हजार पौधे लगाए जा चुके हैं, जो अभियान के अंतर्गत स्वीकृत कुल पौधरोपण का 80 प्रतिशत है। साव ने शेष 20 प्रतिशत पौधरोपण को भी चालू सितम्बर माह के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री साव ने विभिन्न नगरीय निकायों में राज्य के बजट से स्वीकृत 21 जल प्रदाय परियोजनाओं और एसटीपी निर्माण के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने यथाशीघ्र इन कार्यों के प्राक्कलन व निविदा आदि की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए समय-सीमा में कार्यों का क्रियान्वयन करने को कहा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की उप सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के सीईओ शशांक पाण्डेय, अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य और मुख्य अभियंता राजेश शर्मा सहित नगरीय प्रशासन विभाग और सूडा के कई अधिकारी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

मितानिन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की रीढ़ : श्याम बिहारी जायसवाल

- मास्टर ट्रेनर केवल प्रशिक्षक ही नहीं बल्कि मार्गदर्शक और परिवर्तन के वाहक : स्वास्थ्य मंत्री
- 6 दिवसीय राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यों को प्रभावी बनाने हेतु 8 सितंबर से आयोजित राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन आज हुआ। यह कार्यशाला पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ के एपिडेमियोलॉजी ब्लॉक में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में मितानिन कार्यक्रम के कार्यक्रम समन्वयक, जिला समन्वयक एवं एरिया कोऑर्डिनेटर सहित कुल 36 प्रतिभागी शामिल हुए।

समापन अवसर पर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मितानिन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की रीढ़ है, और इसे सशक्त बनाने के लिए ऐसे प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने मितानिन कार्यक्रम को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य अभियान बताते हुए कहा कि इसे पूरी दुनिया सामुदायिक आधारित स्वास्थ्य देखभाल के सफल मॉडल के रूप में मान्यता दे चुकी है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मितानिनों के प्रशिक्षण, मानदेय, उपकरण और डिजिटल साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर मंत्री ने सभी प्रतिभागियों को सफल प्रशिक्षण पूर्ण करने पर बधाई दी और कहा कि मास्टर ट्रेनर केवल प्रशिक्षक ही नहीं बल्कि मार्गदर्शक और परिवर्तन के वाहक हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और सामुदायिक सशक्तिकरण पर निरंतर ध्यान केंद्रित कर रही है। सशक्त मास्टर ट्रेनर समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच की दूरी को कम करेंगे और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप काम करेंगे।

उन्होंने प्रतिभागियों से आह्वान किया कि वे अपने अनुभव साझा करें, निरंतर नवाचार करें और पंचायतों व स्वयं सहायता समूहों के साथ नई विधियों का प्रयोग करें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा एक स्वस्थ छत्तीसगढ़ की शुरुआत हर गाँव में उस मितानिन से शुरू होती है जो आपके द्वारा प्रशिक्षित और प्रेरित हुई है।

इस मौके पर आयुष यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. पी.के. पात्रा, संचालक स्ड्ढ।स्न्ङ्क सुरेश पाण्डेय, स्रूष्ट॥ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.पी. राजेश्वरन और राज्य नोडल अधिकारी डॉ. अजय शंकर कन्नौजे भी मौजूद रहे।

NECC

14.09.2025	अंडा	मुर्गी	काकरेल
फार्म	542	92	190
चिल्हर	7.00	125	205
डिलीवरी	565 सैकड़ा		

मुर्गी खाद प्रति ट्राली 1000 रु.

CSPFA

प्रकाशक, मुद्रक- राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा.लि. के लिए देशबन्धु परिसर रामसागरपारा रायपुर से प्रकाशित एवं मुद्रित। सम्पादक- राजीव रंजन श्रीवास्तव। प्रेस पंजीयन- 6072/59
फोन- (0771) 4077750, 4077760, email id: deshbandhuraipur@gmail.com, website:deshbandhu.co.in

युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भाजपा की रीढ़ : किरण देव

संगठन का प्रत्येक कार्य महत्वपूर्ण, विचार धारा को आगे बढ़ाये युवा शक्ति : पवन साय

भाजयुमो की संभागीय बैठक आयोजित, बस्तर अंचल के सात जिलो के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव व भाजपा महामंत्री संगठन पवन साय ने दिया मार्गदर्शन

जगदलपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। भारतीय जनता युवा मोर्चा की महत्वपूर्ण संभागीय बैठक शनिवार को पं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार टाउन हॉल में आयोजित हुई। जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव व प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय विशेष रूप से शामिल हुये। जिन्होंने संभागीय बैठक में नवनियुक्त भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया को बधाई देते हुये बस्तर अंचल के सात जिलों आये भाजयुमो कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया और आगामी कार्य योजनाओं से अवगत कराकर ज़मीनी स्तर पर उन्हें मूर्त रुप देने कार्य करने कहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भाजपा की रीढ़ है, जो आनेवाले समय में भाजपा की बागडोर संभालेंगे। संगठन की कार्ययोजनाओं को जनता के बीच पहुँच कर साकार रूप देने का कार्य सभी को करना है। आगामी 17 सितम्बर से राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर सेवा पखवाड़ा आरंभ हो रहा है। जिसमें रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, जनस्वास्थ्य शिविर, मैराथन दौड़ आदि कार्यक्रमों को शत प्रतिशत सफल करने में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की महती भूमिका रहेगी। भाजपा महामंत्री संगठन पवन साय ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते हुये कहा कि संगठन का प्रत्येक कार्य महत्वपूर्ण है। युवा शक्ति राष्ट्र की दिशा तय करती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का दायित्व बहुत बड़ा है। संगठन के द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को पार्टी की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हुये क्रियान्वित करना है। नवनियुक्त भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया ने कहा कि प्रदेश के सभी युवा मोर्चा के हजारों हजार कार्यकर्ता संगठन को और मजबूत बनाने के लिये एकजुटता के साथ कार्य करेंगे। जनता से जुड़ कर और अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ कर संगठन के कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारण कर आगे बढ़ना है। श्री टिकरिया ने संगठन के शीर्ष नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। संभागीय बैठक का संचालन पूर्वी जगदलपुर मण्डल अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने किया। बैठक में प्रमुख रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश पाण्डेय, प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पाण्डेय, बेवरेज कार्पोरेशन अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी, विश्व विजय सिंह तोमर, पूर्व संगठन मंत्री विधान चंद्र कर, बैदूराम कश्यप, महापौर संजय पाण्डेय, कमलचंद भंजदेव, रुप सिह मण्डावी, भूपेंद्र नाग, जयराम दास, नीतेश मिश्रा, आशीष कुमेटी आदि सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे।

बस्तर में 'सम्पर्क स्मार्ट स्कूल-स्मार्ट ब्लॉक' कार्यक्रम का शुभारंभ

जगदलपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। बस्तर जिले में 11 सितंबर को 'सम्पर्क स्मार्ट स्कूलङ्कस्मार्ट ब्लॉक' कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया। इस पहल के तहत राज्य सरकार और संपर्क फाउंडेशन मिलकर बस्तर जिले की 271 सरकारी प्राथमिक स्कूलों में स्मार्ट शिक्षण व्यवस्था लागू कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत चयनित सभी स्कूलों को निऱ्शुल्क टीवी सेट और 'सम्पर्क टीवी स्मार्ट स्कूल' किट प्रदान की जाएगी, जिससे लगभग 17 हजार बच्चों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। बस्तर स्कूलों में संपर्क टीव्ही डिवाइस, स्मार्ट शाला ऐप, गणित और अंग्रेज़ी किट, और एक हज़ार से अधिक घंटे का ऑफलाइन कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। इंटरैक्टिव और खेल-आधारित शिक्षा- 2,700 लर्न-ईज़ी वीडियो, 30 हजार से अधिक गेमिफाइड प्रश्न और 100+ विज्ञान प्रयोग बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाएंगे। शिक्षक प्रशिक्षण- 120 शिक्षकों को एससीईआरटी और एनआईपीयूएन भारत लक्ष्यों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाएगा। जिले के 120 शिक्षकों को आधुनिक टीचिंग-लर्निंग मटीरियल (ञ्जरूरू) और प्रभावी शिक्षण पद्धति से प्रशिक्षित किया जाएगा।

इससे बच्चों को पढ़ाई खेल-खेल में रोचक और इंटरैक्टिव होगी। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, गणित और अंग्रेज़ी कौशल में सुधार। दूरदराज के आदिवासी स्कूलों में भी ऑफ़लाइन कंटेंट के माध्यम से शिक्षा की उपलब्धता। इसके अलावा मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य के 33 जिलों के लगभग 50 हजार स्कूलों में 36 लाख से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। गुरुवार को कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल, डीएमसी सहित संपर्क फाउंडेशन के कंट्री मैनेजर प्रदीप राणा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

पीपल्स केयर द्वारा एक पीपल एक परिवार एक पुण्य कार्यक्रम : वन मंत्री केदार

जगदलपुर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। पीपल रक्षित: रक्षित के इस पावन मंत्र के साथ, 121 परिवारों ने 121 पीपल के पौधे लगाए, जो उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन की एक नई कहानी लिखेंगे। यह सिर्फ वृक्षारोपण नहीं था, यह प्रकृति के साथ एक गहरे रिश्ते को निभाने का क्षण था।

इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के ?वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा, पीपल को सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि एक परिवार का हिस्सा बनाने के लिए पीपल्स केयर सामाजिक संस्था ने ग्राम पंचायत महुपाल बरई में एक अनोखी पहल शुरू की है।ज्आज मैं यहां एक मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि इस धरती के एक बेटे के रूप में खड़ा हूँ। पीपल केयर का च्एक पेड़ माँ के नामज् और च्एक पीपल एक परिवारज् का यह अभियान, सिर्फ पेड़ लगाने का कार्यक्रम नहीं है, यह तो माँ और बच्चे के रिश्ते को फिर से परिभाषित करने जैसा है।

श्री कश्यप ने कहा, च्पीपल का वृक्ष हमारी संस्कृति का प्राण है, यह हमारी वह माँ है जो बिना किसी स्वार्थ के हमें प्राणवायु का वरदान देती है। आज आपने सिर्फ पौधे नहीं लगाए हैं, बल्कि आपने अपनी अगली पीढ़ी के लिए जीवन के बीज बोए हैं।ज्‌ ?इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप, जनपद अध्यक्ष मोहन कुमार बघेल, जिला पंचायत सदस्य मौर्य और ग्राम सरपंच लता बघेल सहित जनप्रतिनिधिगण और आसपास के ग्रामीण मौजूद रहे।

वनमंत्री केदार ने मांदलापाल-चेराकूर और गोंडियापाल में एक करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

सुशासन में तेज हुई बस्तर में विकास की गति : मंत्री केदार

जगदलपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य विभाग मंत्री केदार कश्यप ने आज नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बस्तर विकासखंड के विभिन्नई ग्राम पंचायतों में 1 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। यह भूमिपूजन कार्यक्रम ग्रामीण अधोसंरचना को सुदृढ़ करने और बुनियादी सुविधाओं को विस्तार देने की दिशा में बड़ा कदम है। ग्रामङ्घ पंचायत चेराकुर में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री श्री केदार कश्यप ने प्राथमिक शाला कोटवार पारा में 9 लाख रुपये की लागत से 200 मीटर आहता (बाउंड्री वॉल) निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। ?भूमिपूजन किए गए कार्यों में ग्राम पंचायत चेराकुर, गोंदियापाल और गुमगा के तहत कुल 39 लाख 61 हजार रुपये के विकास कार्य शामिल हैं। इन कार्यों में कोलेबेड़ा, माधवानी और नयापारा मार्ग पर पुलिया निर्माण, साथ ही ग्राम चेराकुर में बाजार शेड और सी.सी. सड़क निर्माण का कार्य प्रमुख है। ?इसी कड़ी में मांदलापाल ग्राम पंचायत में 56 लाख 68 हजार रुपये की लागत से विभिन्न कार्यों का भूमिपूजन किया गया। इनमें पखरागुड़ा मांदलापाल मार्ग पर पुलिया निर्माण, मुख्य चौक पर सोलर हाई मास्ट लाइट लगाना, लालपाइक बाजार में बाजार शेड और सी.सी. सड़क का निर्माण, और प्राथमिक शाला नयामुण्डपाड़ा में नवीन भवन का निर्माण कार्य शामिल है। सभी कार्यों का कुल अनुमानित व्यय 1 करोड़ 5 लाख 29 हजार रुपये है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और जनजीवन को बेहतर बनाना है। इन विकास कार्यों से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है।

वनमंत्री श्री कश्यप ने नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों के भूमिपूजन कार्यक्रम में कहा, च्आज हम यहाँ सिर्फ कुछ निर्माण कार्यों की नींव नहीं रख रहे हैं, बल्कि बस्तर के भविष्य की नींव रख रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार च्गांव-गांव विकास, जन-जन विश्वासज् के संकल्प के साथ काम कर रही है।ज् उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। इस दिशा में पुलिया निर्माण, बाजार शेड, स्कूल भवन और सोलर संयंत्र जैसे कार्य महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं केवल कंक्रीट और ईंटों से बनी संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि ये सीधे तौर पर ग्रामीणों की दैनिक ज़रूरतों और आकांक्षाओं से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि सुशासन में बस्तर में विकास की गति तेज हुई है। उन्होंने कहा, च्पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि सरकार कैसे दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों तक विकास की रोशनी पहुँचा रही है। यह दिखाता है कि हमारी सरकार बस्तर के लोगों के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। >> शेष पृष्ठ 9 पर >

अधिवक्ता परिषद ने मनाया स्थापना दिवस

संगठन मजबूती और सदस्यता अभियान पर हुई चर्चा

जगदलपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। राष्ट्रीय स्वयं सेवक भवन में शनिवार को अधिवक्ता परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अधिवक्ता परिषद के मध्य भारत की सह संयोजक झरना बांगर सिंह ने की। इस अवसर पर झंरना बांगर सिंह ने कहा कि यह संगठन अधिवक्ताओं को भारतीय संस्कृति और न्याय के प्रति जागरूक करने का काम करता है। अधिवक्ता परिषद देश भर में न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए कानूनी संशोधनों की वकालत करती रही है। यह अधिवक्ताओं को उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में मदद करता है, ताकि वे न्याय प्रदान करने में सक्षम हो सकें। बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एवं एबीएपी के संभागीय अध्यक्ष सपन देवांगन ने कहा कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की स्थापना 7 सितंबर 1992 में राष्ट्रवादी अधिवक्ताओं व न्यायविदों के द्वारा राष्ट्र ऋषि दत्तो पंत ठेंगरी के मार्गदर्शन में हुआ था। परिषद का उद्देश्य भारतीय परंपराओं और मूल्यों पर आधारित कानूनी प्रणाली को बढ़ावा देना है। एबीएपी के जिला अध्यक्ष अर्पित मिश्रा ने कहा कि अधिवक्ता परिषद एक सक्रिय संगठन है, जो भारत में कानूनी पेशे और न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। बैठक में सभी ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए, किसी को भी जवाबदेही से नहीं बचना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की अंतरात्मा के प्रति नहीं, बल्कि एक स्थायी तंत्र के माध्यम से समाज के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए एबीएपी के संभागीय सचिव श्रीनिवास रथ ने कहा कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद एक राष्ट्रीय संगठन है, जो पूरे भारत में वकीलों का प्रतिनिधित्व करता है। बैठक में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की आरती दुआ, अदिति रावत, संजना पाणिग्राही, वरूणा मिश्रा, तापस विश्वास, अवनीश मिश्रा, जयांश देवांगन सहित अन्य अधिवक्तागण उपस्थित थे।

चोरों ने संजय बाजार के 4 दुकानों में सेंधमारी कर लाखों का सामान और नगद रकम पर किया हाथ साफ

जगदलपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। नगर के महत्वपूर्ण संजय मार्केट में बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया। सेंधमारी कर छतों के रास्ते दुकानों में घुसे चोर नगद रुपए और सामान पर हाथ साफ कर गए हैं। इन वरदातों को चोरों ने बड़े ही इत्मीनान से अंजाम दिया है। बीती रात्रि चोरों ने संजय बाजार के 4 दुकानों में सेंधमारी कर लाखों का सामान और नगद रकम पर हाथ साफ कर दिया। बाजार में देवभोग सेंटर के प्रोपाइटर चौरसिया के अनुसार चोर उनकी दुकान के ऊपरी हिस्से में सेंध बनाकर अंदर घुसे और कुछ नगद रकम के साथ खाने पीने की चीजें उठा ले गए। चौरसिया की दुकान से लगी एक फल दुकान के अलावा दो अन्य दुकानों में भी चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है। चोरों के काम करने के तरीके से लग रहा था है कि वे बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं थे और बड़े आराम से सभी घटनाओं को अंजाम देते रहे।

पुलिस गश्त पर उठे सवाल: घटना स्थलों के हालात बताते हैं कि चोरों ने बेफिक्र होकर बड़े ही इत्मीनान से इन वरदातों को अंजाम दिया है। चारों दुकानों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने और भाग निकलने में कम से कम ढाई तीन घंटे लगे होंगे। ऐसे में पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस की टीमें अगर ईमानदारी से गश्त लगा रही होतीं, तो चोर ?सी हिमाकत कतई नहीं कर पाते। वहीं संजय बाजार के कई फुटकर व्यापारियों ने बताया कि संजय मार्केट के बगल में ही पुलिस चौकी भी है । किंतु वहां >> शेष पृष्ठ 9 पर >

भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत

जगदलपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। शहर में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिहा के प्रथम आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भाजयुमो नागर मंडल के पदाधिकारियों के साथ काफी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने स्टेटबैंक चौक पर मंच बनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इसके पर्व बस्तर मंडल और भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी एकता और संगठन की ताकत का प्रदर्शन किया। स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे जिन्होंने फूलमाला पहनाकर युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोश और उत्साह के साथ नारे लगाकर प्रदेश अध्यक्ष का अभिवादन किया। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिहा ने अपने संबोधन में संगठन विस्तार और युवाओं के उत्थान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें समाज के लिए काम करने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे संगठन को मजबूत बनाने और युवाओं को जोड़ने के लिए काम करें।इस अवसर पर भाजपा बस्तर मंडल अध्यक्ष सुखदेव मंडावी, जिला महामंत्री राजपूत, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामानंद मिश्रा, पूर्व मंडल अध्यक्ष उदबो नाग, मंडल उपाध्यक्ष नरेंद्र जोशी, दयाराम बघेल, मंडल महामंत्री हेमराज कश्यप, चमरू यादव, युवा मोर्चा अध्यक्ष राकेश ठाकुर, मंडल मंत्री सुष्मिता मिस्त्री, अनिल जायसवाल, मिडिया प्रभारी सन्तो राम कश्यप, भुनेश्वर ठाकुर, मधोता 02 सरपंच ईश्वर मंडावी, पूर्व जनपद सदस्य फुलसिंग मौर्य, नगर पंचायत बस्तर नेता प्रतिपक्ष समीर कुमार मिश्रा, महेंद्र बघेल, विरसिंह मौर्य, बंशी कश्यप, मंगल बघेल, तुला राम कश्यप, मानसाय बघेल, गणेश बघेल, योगेश चंदेल, रघु सेठिया और नगर पंचायत बस्तर के पार्षद, सरपंच पंच गण सहित अन्य भाजपा कार्यकता उपस्थित थे।

नेशनल लोक अदालत में 32,865 प्रकरणों का निराकरण

अधिवक्ताओं, राजस्व विभाग, नगरपालिक निगम, बैंकों, बीएसएनएल विभाग का रहा सहयोग

जगदलपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सुलह समझौता से निराकृत किये गये हैं। इस लोक अदालत में प्रकरणों के पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुअल दोनों ही माध्यमों से उनकी उपस्थिति में निराकृत किये जाने के अतिरिक्त स्पेशल सिटिंग के माध्यम से भी पेटी ऑफेंस के प्रकरणों को निराकृत किये गये हैं। शनिवार 13 सितंबर को आयोजित च्नेशनल लोक अदालत का शुभारम्भ अध्यक्ष व प्रधान जिला न्यायाधीश गोविन्द नारायण जांगड़े द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण पश्चात् दीप प्रज्जवलित कर किया गया। तत्पश्चात् श्री जांगड़े द्वारा नेशनल लोक अदालत के अवसर पर उपस्थित सभी विभागों, बैंकों, पक्षकारों से मुलाकात कर नेशनल लोक अदालत की सफलता एवं प्रकरणों के निराकरण हेतु शुभकामनाएं दी गई । इस लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य सुलह द्वारा विवादों के समाधान हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशगण की कुल 9 खण्डपीठ, परिवार न्यायालय की 1 खण्डपीठ कुल 10 खण्डपीठों तथा बस्तर जिले के समस्त राजस्व न्यायालयों के कुल 20 खण्डपीठों का गठन किया गया था । नेशनल लोक अदालत हेतु गठित समस्त 30 खण्डपीठों में प्रकरणों के निराकरण हेतु सुलहकर्ता सदस्यों के रूप में पेनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई थी। नेशनल लोक अदालत के दौरान न्यायालय परिसर में काफी संख्या में पक्षकारगण उपस्थित थे। विदित हो कि आयोजित नेशनल लोक अदालत में कुल रखे गये कुल लंबित 560 प्रकरणों में से 43 आपराधिक प्रकरण, 15 व्यवहार वाद प्रकरण, 22 दावा प्रकरण, 16 पारिवारिक प्रकरण, 53 धारा 138 नि.ई. एक्ट के प्रकरण, 31 श्रम संबंधी प्रकरण, 84 स्पेशल सिटिंग के अन्तर्गत प्रकरण, 47 ट्रैफिक चालान के प्रकरण, के प्रकरण इस प्रकार कुल 311 निराकृत लंबित प्रकरणों में रूपये 4,06,50,750/- में राजीनामा के आधार पर उनका निराकरण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया गया । राजस्व न्यायालयों में गठित 20 खण्डपीठों में कुल 32434 राजस्व प्रकरणों एवं जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा 3 प्रकरणों का निराकरण किया गया । इसी प्रकार सभी प्रमुख बैंकों, बीएसएनएल विभाग, विद्युत विभाग द्वारा रखे गये कुल 3535 प्रकरणों में से बैंकों के 20 प्रकरण, बीएसएनएल के 35 प्रकरण, विद्युत विभाग के 20 प्रकरण, सम्पत्ति कर के 31 प्रकरण एवं जलकर के 11 प्रकरण इस प्रकार कुल 117 प्रकरणों में रूपये 20,86,475/- में राजीनामा के आधार पर प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का अंतिम निराकरण किया गया। आज के नेशनल लोक अदालत हेतु चिकित्सा विभाग के सहयोग से जिला न्यायालय परिसर में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी लगाया गया था, जिसमें उपस्थित पक्षकारों एवं आमजनों द्वारा अपना स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया ।

सबको शीघ्र और सस्ता न्याय, जिसमें न किसी की जीत और न किसी की हार: नेशनल लोक अदालत में कई लोगों को आपसी सुलह समझाईस से राजीनामा किए जाने के कारण उन्हें न्यायालयीन प्रकरणों में राहत मिला, जिसमें परिवार न्यायालय जगदलपुर के न्यायालय में वैवाहिक जीवन में पति-पत्नि के मध्य पैदा हुई वैमनस्यता को दूर कर लोक अदालत के माध्यम से री - यूनियन करवाकर प्रकरण का निपटारा किया गया है। आवेदक एवं अनावेदिका का विवाह से पूर्व प्रेम संबंध होने के कारण दोनों का विवाह दिनांक 22.5.2022 को ईसाई रीति-रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था तथा दोनों के दाम्पत्य संबंधों से एक पुत्री का जन्म हुआ। विवाह के 01 वर्ष बाद आवेदक >> शेष पृष्ठ 9 पर >

साहू समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का भारतीय संस्कृति के अनुरूप भव्य स्वागत

◆ **समाज में समयदानियों को दें बड़ा उतरदायित्व- डॉ नीरेंद्र**

कोण्डागांव, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। जिला साहू संघ कोंडागांव के तत्वावधान में कोंडागांव के आक्सन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश साहू संघ के नव निर्वाचित पदाधिकारियों का आभार कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। भारतीय संस्कृति के अनुरूप अतिथियों का आरती उतार कर दोनों तरफ खड़े होकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां कर्मा के चित्र के समक्ष प्रदेश अध्यक्ष डॉ.नीरेंद्र साहू के कर कमलों से दीप प्रज्ज्वलन माल्यार्पण करके माता कर्मा की आरती हुई, जिससे भक्ति भाव से साहू समाज के सभी जन सम्मिलित हुए। फिर प्रदेश से पधारे अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंटकर हार पहनाकर अतिथि सत्कार किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष डॉ.नीरेन्द्र साहू, उपाध्यक्ष डॉ.तिलक साहू, महिला उपाध्यक्ष साधना साहू, संगठन सचिव चन्द्रवती साहू, संगठन सचिव डॉ.सुनील साहू, संयुक्त सचिव बीना साहू और संयुक्त सचिव प्रदीप साहू उपस्थित रहे। गजेंद्र साहू ने स्वागत गीत गाकर अतिथियों का स्वागत किया। जिला अध्यक्ष राजेश साहू ने स्वागत भाषण में निर्वाचन के बाद अतिथियों के कोंडागांव की धरा पर प्रथम आगमन को कोंडागांव जिला का सौभाग्य बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉ.नीरेंद्र साहू के कंधे पर साहू समाज के 60 लाख लोगों का उत्तरदायित्व होना बताया, समाज में बढ़ते कुरीतियों को सर्जरी करने हेतु प्रदेश में साहू समाज को तीन डाक्टरों की टीम को उतरदायित्व मिला है, ताकि हमारे भावी पीढ़ी संस्कारवान बन सके। वहीं डाक्टर नीरेंद्र साहू ने प्रदेश में निर्विरोध निर्वाचन में कोंडागांव जिला का महत्वपूर्ण भूमिका को सराहते हुए कहा कि कुछ लोग चुनावी समय में दिखाई देते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की बात कहते हुए कहा कि समाज को जो भी व्यक्ति वर्ष में 4 माह समय दे सके ऐसे लोगों को समाज में बड़ा उतरदायित्व देना चाहिए ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके। अपने उद्बोधनों में पदाधिकारियों ने निर्विरोध निर्वाचित करने पर समाजजनों का आभार व्यक्त किया और समाजहित में कार्य करने का संकल्प लिया। प्रदेश अध्यक्ष डॉ.साहू ने कहा कि संघ का मुख्य उद्देश्य समाज को संगठित और सुसंस्कारित दिशा में आगे बढ़ाना है। उन्होंने जिले के चुनाव को लेकर कहा कि वही व्यक्ति समाज का कार्यभार संभालेगा, जिसने चार माह सक्रिय सदस्य के रूप में समाज को समय दिया हो। कार्यक्रम को डॉ.तिलक साहू, डॉ.सुनील साहू, साधना साहू, चंद्रवती साहू, बीना साहू और प्रदीप साहू ने धमाकेदार उदबोधन देकर जोरदार तालियां बटोरी। जिला अध्यक्ष राजेश साहू और महासचिव बसंत साहू के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में विजय साहू सहसचिव, कोषाध्यक्ष महेश साहू, तहसील उपाध्यक्ष उमेश साहू, नगर अध्यक्ष प्रदीप साहू, उपाध्यक्ष कमलेश साहू, कविता साहू, मिडिया प्रभारी पवन साहू एवं समस्त तहसील, परिक्षेत्र, ग्रामीण अध्यक्षगण एवं जिले भर के पदाधिकारियों का सराहनीय योगदान रहा। महासचिव बसंत साहू ने आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन गुरूचरण साहू के द्वारा किया गया। जानकारी पवन कुमार साहू जिला मीडिया प्रभारी जिला साहू संघ कोंडागांव ने दी।

बच्ची को मौत के बाद परिजनों ने डाक्टरों पर लगाया आरोप इलाज में लापरवाही बरतने का

◆ **मृतका की मां कह रही, मेरी बेटी को लौटा दो साहब**

कोण्डागांव, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान साढ़े छः साल की गंगा नेताम पिता सनत नेताम निवासी ग्राम बोटीकनेरा की अंततः शनिवार की सुबह मौत हो गई। बालिका सिकलिन से पीड़ित थी, परिजन सोमवार को बालिका को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आए थे। दूसरे दिन इलाज से पहले डाक्टरों ने बालिका को बेहोशी की दवा दी, उसके बाद बालिका को होष नहीं आया और शनिवार को बालिका की मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने डाक्टरों पर ईलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जिम्मेदारों पर कार्यवाही करने की मांग करते हुए पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराया है।

बच्ची की मां देवकी नेताम ने बताया उसकी बेटी गंगा नेताम साढ़े छः साल की थी और पूरी तरह स्वस्थ लग रही थी। सोमवार को सिकलिन जांच कराने जिला अस्पताल लाए। उसे हर माह ब्लड चढ़ता था। उस दिन डॉक्टर बेटी को ब्लड चढ़ाने बोले। डाक्टरों ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन की तैयारी किए, ऑपरेशन से पहले बेटी को बेहोशी की दवा दिया गया, जिसके बाद बेटी को होष नहीं आया। जिससे ऑपरेशन नहीं कर पाए थे, पूछने पर डॉक्टर हमको बच्ची के स्वस्थ होने का दिलासा दे रहे थे और आज सुबह बेटी की मौत हो जाने की जानकारी दी गई। डॉ.प्रेम मंडावी प्रभारी सिविल सर्जन जिला अस्पताल ने कहा डॉक्टरों की टीम मृतक बच्ची के शव का पोस्ट मार्टम कर रहे हैं, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण सामने आएगा, एनीस्थीसिया वाले चिकित्सक बच्ची को देख रहे थे।

पीड़ित परिवार को मिले मुआवजा कांग्रेस

वहीं बच्ची की मौत के मामले में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। पूर्व जिला अध्यक्ष झूमक लाल दिवान ने डाक्टरों पर कार्यवाही सहित पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग सरकार से किया है।

गैर आदिवासी समाज की महिलाओं से शादी करके आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व का दिखावा करने वालों को न दें मंच-जिला अध्यक्ष

कोण्डागांव, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। गैर आदिवासी समाज की महिलाओं से शादी करके आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व का दिखावा करने वालों को मंच न देने के सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्ति जारी करके छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज पंजीयन क्रमांक 4230/8-4-2013 के जिला अध्यक्ष पनकू राम नेताम ने कहा है कि कोंडागांव जिला के समस्त परगना के उपखंड क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र के समस्त समाज प्रमुखों, सगाजनों से अपील करते हुए दिशा निर्देश जारी किया है कि नवा खानी के बाद लगातार हो रहे गांयता जुहारनी कार्यक्रमों में समाज के उन लोगों को मंच ना दें, जो आदिवासी समाज के नियमावली रीति नीति, गांव के गांयता पुजारी सामाजिक व्यवस्था को छोड़ कर गैर आदिवासी समाज की महिलाओं से शादी करके आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने का दिखावा करते हैं। हमारे बस्तर की रूढ़ी प्रथा परंपरा को छोड़कर अन्य परंपरा में चले गए हैं या बाहर से आकर बस्तर में नौकरी कर रहे हैं। ऐसे आदिवासी बस्तर की परम्परा से अनभिज्ञ हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें, उन्हें मंच साझा ना करने दिया जाए।

संकुल केंद्र चिपावंड में संकुल स्तरीय स्वागत समारोह

कोण्डागांव, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिपावंड में श्रीमती एस.सोनपिपरे के द्वारा प्राचार्य पद पर पदभार ग्रहण करने के पश्चात संकुल केन्द्र चिपावंड में नव पदस्थ प्राचार्य, युक्तियुक्तकरण के तहत पदस्थ शिक्षकों एवं नव पदस्थ शिक्षकों का स्वागत समारोह में किया गया। इस स्वागत समारोह में पूर्व प्रभारी प्राचार्य सी.के.चतुर्वेदी ने नव पदस्थ प्राचार्या को पुष्प गुच्छ एवं उपहार के साथ बधाई व शुभकामनाएं दिया। इस अवसर पर प्राचार्या ने कहा कि हम सब समर्पण और टीम भावना के साथ बेहतर काम करेंगे। सभी अनुशासन में रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। संकुल केंद्र चिपावंड में नवीन पदभार ग्रहण करने वाले शिक्षकों में श्रीमती गीता कोसरे, श्रीमती संतरीन कैवर्त, शैलेष साहू, हेमचंद देवांगन, मोतीलाल यादव, हिमांशु वर्मा, रितेश बारिक का स्वागत पुष्प गुच्छ तिलक लगाकर एवं उपहार दे कर किया गया। इस कार्यक्रम में आलोक मेश्राम, प्रकाश देवांगन, सुरेश देवांगन संकुल समन्वयक, सुदनराम बघेल, श्रीमती संतोषी गोटी, श्रीमती राजकुमारी चतुर्वेदी, श्रीमती सावित्री कोर्राम श्रीमती शैलो पटेल, श्रीमती मिनी विश्वास एवं संकुल के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

चाचा-भतीजे ने राजीखुशी किया राजीनामा, न्यायालय ने सम्मानित किया पौधा देकर

कोण्डागांव, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। चाचा-भतीजे द्वारा राजीखुशी राजीनामा करने पर न्यायालय द्वारा पौधा देकर उन्हें सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार 13 सितम्बर को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्रीमती किरण चतुर्वेदी के मार्गदर्शन एवं उनकी उपस्थिति में कोण्डागांव न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जहां कई प्रकरण समझौते के लिए आए, जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव के समक्ष वर्ष 2024 से चाचा-भतीजे के मध्य का एक प्रकरण लंबित था। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी एवं आरोपीगण को समझाईश दिये जाने पर आरोपीगण ने अपनी गलती मानते हुये प्रार्थी के पैर छूकर क्षमा मांगकर भविष्य में दुबारा अपने चाचा से विवाद नहीं करने का संकल्प लिया तथा दोनों पक्ष आपस में राजी खुशी से राजीनामा के लिये तैयार होकर 13 सितम्बर 2025 को नेशनल लोक अदालत में प्रार्थी एवं आरोपीगण द्वारा राजीनामा किये जाने से उक्त प्रकरण राजीनामा के आधार पर समाप्त किया गया। प्रकरण में सफलतापूर्वक राजीनामा किये जाने पर प्रार्थी को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव जिला कोण्डागांव (छ.ग.) रेशमा वैरागी पटेल के द्वारा पौधा वितरण किया गया।

संविदा पद हेतु आवेदन आमंत्रित

कोण्डागांव, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा, सरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति की शुरूआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत जिला में 01 पद संविदा कार्यालय सहायक पद की पूर्ति हेतु 25 सितम्बर को 05:30 बजे तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। अभ्यर्थी आवेदन केवल रजिस्टर डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कक्ष क्रमांक 118 के सूचना पटल पर एवं जिले की वेबसाईट पर अवलोकन कर सकते हैं।

न्यायालय ने पीडित को दिलवाया मुआवजा रू.09.20 लाख, मोटर दुर्घटना में क्षतिपूर्ति हेतु

कोण्डागांव, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार 13 सितम्बर को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव, किरण चतुर्वेदी के मार्गदर्शन एवं उनकी उपस्थिति में कोण्डागांव न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। 13 सितम्बर को अधिनिर्णय पारित करते हुए मोटर दुर्घटना में पीड़ित को आई चोटों की क्षतिपूर्ति हेतु कुल 09 लाख 20 हजार रूपये दिलाए जाने हेतु एक आवेदन अनावेदकगण के विरूद्ध मोटर दुर्घटना दावाधिकरण कोण्डागांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव, किरण चतुर्वेदी एवं अधिवक्ता के द्वारा 02 बीमा कम्पनी के बीच समझौता कर पीड़ित पक्ष को 9 लाख 20 हजार रूपये का मुआवजा राशि देकर अवार्ड पारित करने के साथ ही प्रकरण में सफलतापूर्वक राजीनामा किये जाने पर पौधा वितरण कर सम्मानित किया गया।

देवखरगांव की शिक्षिका राधिका दीवान सम्मानित, डॉ.अब्दुल कलाम राज्य अलंकरण से

कोण्डागांव, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। प्रकृति शिक्षण विज्ञान यात्रा छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य अलंकरण 2025 का भव्य आयोजन 8 सितम्बर 2025 को प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन अकादमिक भवन कुरूद जिला धमतरी में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर हित नारायण टंडन सहायक प्रध्यापक विभागाध्यक्ष प्राणी विज्ञान गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरूद धमतरी, कार्यक्रमों की विशेष अतिथि अजय मंडावी पद्मश्री छत्तीसगढ़, नीरज वर्मा इसरो साइंस एक्टिविस्ट महाराष्ट्र, कालिदास नकाडे यंग खगोल विज्ञान समूह नागपुर, कार्यक्रम अध्यक्ष अभिषेक शुक्ला प्रकृति शिक्षण विज्ञान यात्रा छत्तीसगढ़ के आतिथ्य में संपन्न हुआ।

इस अवसर पर प्रदेश के चुनिंदा 100 शिक्षकों, समाजसेवियों और 10 बाल वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया, जिसमें कोंडागांव जिले के प्राथमिक शाला देवखरगांव की शिक्षिका सुश्री राधिका दीवान को डॉ.अब्दुल कलाम सम्मान से अलंकृत किया गया। उन्हें यह सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, कला, संस्कृति, प्रकृति शिक्षण, समाज सेवा, अंधविश्वास निर्मूलन, रूढ़िवाद उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रदान किया गया। राज्य अलंकरण से सम्मानित शिक्षिका कुमारी राधिका दीवान ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में विशेष परंपरा के तहत चयनित शिक्षकों का दूध मिश्रित जल से चरण प्रक्षालन किया गया। इसके बाद तिलक चंदन महाआरती मोमेंटो, मेडल और प्रशस्ती पत्र भेंटकर सम्मानित किया गया।

कुमारी राधिका दीवान शिक्षिका शासकीय प्राथमिक शाला देवखरगांव को डॉक्टर अब्दुल कलाम राज्य अलंकरण से सम्मानित किए जाने पर राज्यपाल पुरष्कृत शिक्षक पवन कुमार साहू, राज्य अलंकरण से सम्मानित शिक्षिका श्रीमती दीपमाला वैष्णव, श्रीमती दीपिका पटेल, घनश्याम यादव, पीला दाऊ कुंवर, कुमारी तनुजा साहू, हरिराम जगत सहित मित्रगणों ने उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाइयां प्रेषित की। उक्त जानकारी पवन कुमार साहू जिला मीडिया प्रभारी समग्र शिक्षा जिला कोंडागांव ने दी।

लोक अदालत में 8 हजार से ज्यादा मामलों पर होगी सुनवाई

दंतेवाड़ा, 13 सितंबर (देशबन्धु)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार आज दंतेवाड़ा जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार होता ने दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता, वादकारी तथा न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन केवल दंतेवाड़ा ही नहीं बल्कि पड़ोसी जिलों सुकमा और बीजापुर में भी एक साथ किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुकमा एवं बीजापुर के व्यवहार न्यायालयों में तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बचेली न्यायालय में भी आज लोक अदालत की कार्यवाही प्रारंभ हुई। तीनों जिलों में एक साथ लोक अदालत होने से बड़ी संख्या में प्रकरणों का निपटारा होने की संभावना जताई जा रही है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री होता के निर्देश पर लोक अदालत के लिए कुल 11 खंडपीठों का गठन किया गया है। इसमें दंतेवाड़ा स्थित परिवार न्यायालय का नया खंडपीठ भी शामिल है। लोक अदालत में सभी न्यायालयों के लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों के साथ-साथ बैंक, बिजली, नल-जल, बीएसएनएल तथा राजस्व न्यायालयों से जुड़े प्री-लिटिगेशन प्रकरण भी रखे गए हैं। आयोजन में कुल 8 हजार 260 मामलों को निराकरण हेतु सूचीबद्ध किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में वादों का आपसी सहमति से निपटारा होगा, जिससे वादकारियों को शीघ्र एवं सुलभ न्याय मिल सकेगा।

प्रादेशिकी का शेष...

वनमंत्री केदार ने मांदलापाल-चेराकूर...

हमारा लक्ष्य है कि बस्तर का हर नागरिक सम्मानजनक जीवन जी सके और उन्हें हर वो सुविधा मिले, जिसके वे हकदार हैं।ज्ज उन्होंने यह भी कहा कि इन सभी विकास कार्यों से शिक्षा, व्यापार और आवागमन के क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर क्षेत्र का समान विकास सुनिश्चित करे। भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करना है। पुलिया निर्माण, बाजार शेड, स्कूल भवन, सोलर संयंत्र जैसे कार्य स्थानीय जरूरतों को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार गांव-गांव विकास, जन-जन विश्वास के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से दूरस्थ अंचलों में भी विकास की रोशनी पहुँच रही है। श्री कश्यप ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से अपील की कि वे इन कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सहयोग करें और विकास को जनभागीदारी से मजबूत बनाएं। इस दौरान उनके साथ बस्तर सांसद महेश कश्यप और जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

चोरों ने संजय बाजार के...

कोई आता जाता नहीं है। वीरान पड़ चुकी इस पुलिस चौकी का उपयोग अब असामाजिक तत्व करते हैं। पिछले कई माह में कई चोरियां इस बाजार में हो चुकी हैं, मगर एक भी वारदात का खुलासा पुलिस आज तक नहीं कर पाई है।

नेशनल लोक अदालत में...

एवं अनावेदिका के मध्य लड़ाई झगड़ा व विवाद होने के कारण अनावेदिका अपने मायके चली गनानेत्रिका के तिरुल विवाह विच्छेद का यह मामला प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण के लम्बनकाल के दौरान आवेदक एवं अनावेदिका को उनके मध्य उत्पन्न विवादों को भुलकर, पति-पत्नि के रूप में साथ रहकर सुखपूर्वक व शांतिपूर्वक पारिवारिक जीवन-निर्वाह करने के संबंध में समझाईश दी गई, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आये व पति-पत्नी दोनों ने इस पर अमल करते हुए, बच्चे सहित रहना शुरू करने के कारण उभयपक्षों की सहमति से प्रकरण का नेशनल लोक अदालत दिनांक 13/09/2025 में निराकरण करते हुए पति-पत्नि के मध्य री - यूनियन स्थापित की गई ।

उत्तर मंडल भाजपा की हुई बैठक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने

कोण्डागांव, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। भाजपा उत्तर मंडल में नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने बैठक आयोजित की गई।

कोंडागांव भाजपा जिले के अटल सदन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक मनाने हेतु उत्तर मंडल की बैठक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का प्रभारी मनोज जैन उतर मंडल के प्रभारी जितेंद्र सुराना, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमति रीता सोरी, मंडल अध्यक्ष धन्जू मरकाम, जिला पंचायत सदस्य नंदलाल राठौर की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। मनोज जैन ने कहा है कि प्रत्येक वर्ग सेवा एवं सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गाँधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा के रूप में हम मनाते हैं, हम सब को मिलकर सेवा के रूप में रक्तदान, मां के नाम पेड़, सासंद खेल महोत्सव, स्वच्छता के रूप में मनाना है। इसके लिए ही यह एक दिवसीय मंडल स्तरीय च्सेवा पखवाड़ाज्ज कार्यशाला आयोजित की गई है।

इस बैठक में मुख्य रूप से दिलीप दिवान, मीनू कोर्राम, महेंद्र पांडे, मोती पांडे, महेंद्र नेताम, कुंती नेताम, कमला साहू, आसमन नेताम, जगन्नाथ मानिकपुरी, हीरा नेताम, नरेंद्र, अमिताभ विश्वकर्मा, राज बिहारी, लक्की यादव, मेंशन नेताम उपस्थित रहे।

शिक्षा में स्वर्णिम रही छत्तीसगढ़ की 25 वर्ष की यात्रा:चैतराम

दंतेवाड़ा, 13 सितंबर (देशबन्धु)। शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय दंतेवाड़ा में रजत जयंती समारोह मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता एवं छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित करने के साथ किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने पर महाविद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दंतेवाड़ा चैतराम अटामी उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी और विशेष अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष अरविन्द कुंजाम, जनपद अध्यक्ष सुनीता भास्कर, नगरपालिका अध्यक्ष पायल गुप्ता एवं जन भागीदारी समिति अध्यक्ष राहुल असरानी उपस्थित रहे। अतिथियों ने छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य छात्र-छात्राओं को संबोधित कर उनके उद्देश्य और परंपरा से अवगत कराते हुए उत्साहवर्धन किया। विधायक श्री अटामी ने छात्र एवं छात्राओं को उत्कृष्ट कार्य कर प्रदेश का नाम रोशन करने हेतु प्रेरित करते हुए उज्जवल भविष्य की बधाई और शुभकामनाएं दी। प्राचार्य डॉ. के. एम. प्रसाद ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम के उद्देश्य से सभी अतिथियों, छात्र एवं छात्राओं को अवगत कराया ।



कार्यक्रम संयोजक डॉ. दिनेश कुमार लहरी ने रजत जयंती समारोह के सफर का उल्लेख करते हुए 25 वर्ष पूर्ण होने पर शिक्षा के क्षेत्र में विकास और गतिविधियों से अवगत कराया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु छात्र व छात्राओं को जिला पंचायत उपाध्यक्ष अरविन्द कुंजाम, जनभागीदारी अध्यक्ष राहुल असरानी एवं प्राचार्य डॉ. के. एम. प्रसाद ने पुरस्कृत कर बधाई व शुभकामनाएं दी। रजत जयंती समारोह कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य व मंडल महामंत्री दंतेवाड़ा तिलेस्वरी नागेश, जिला मंत्री लता मरकाम, राधा गुप्ता, जनभागीदारी सदस्य प्रियंका बेहरा समेत महाविद्यालय के प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अतिथि व्याख्याता, कर्मचारी तथा छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे ।

आदि कर्मयोगी अभियान, जन जातीय समुदाय के लिए अहम : कलेक्टर

दंतेवाड़ा, 13 सितंबर (देशबन्धु)। प्रदेश सरकार द्वारा सभी गांवों में आदि कर्मयोगी अभियान अंतर्गत कलस्टर का आयोजन कर शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रत्येक ग्राम के जन तक पहुंचाना है। अभियान के अतंर्गत आदिसेवा पर्व/पखवाड़ा (17 सितंबर से 2 अक्टूबर) जिले के सभी ग्राम पंचायतों में मनाया जायेगा।

शासन के निर्देशानुसार जिला कार्यालय द्वारा अभियान के सुचारू क्रियान्वयन के तहत जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त कर दायित्व सौंपे गए है। इस संबंध में संपूर्ण अभियान की रूपरेखा निर्धारण के संबंध में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आज महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में अभियान पर प्रकाश डालते हुए कलेक्टर ने कहा कि जनजातीय गांवों में विजन निर्माण एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो जनजातीय समुदायों को अपनी आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और विकास की दिशा में एक स्थायी मार्ग निर्धारित करने में सक्षम बनाती है। इसमें सामूहिक लक्ष्यों की पहचान करने, स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने और प्रगति के लिए पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठाने हेतु सहभागी संवाद को बढ़ावा देना शामिल है। इसके तहत ब्लॉक टीम का गठन, गांव के दौरे के लिए रोस्टर, सामुदायिक लामबंदी के लिए जिले के द्वारा सीएसओ की पहचान, सीएसओ द्वारा प्रवेश बिंदु गतिविधि, ट्रांसेक्ट वॉक की घोषणा, प्रारूप भरना, संसाधन मानचित्रण, विजन निर्माण तथा सीएसओ और ब्लॉक टीम द्वारा गांव की जरूरतों को सारणीबद्ध किये जाने जैसे व्यापक चरण शामिल रहेगें।

नागरिक समाज संगठन (सीएसओ) इस प्रक्रिया में सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करके, समुदायों और बाहरी संसाधनों के बीच के अंतरालों को पाटकर और समावेशी नीतियों की हिमायत (एडवोकेसी) करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। क्षमता निर्माण पहलों, जागरूकता सृजन और

- क्रियान्वयन के तहत जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त
- आदि सेवा पर्व की रूपरेखा के संबंध में अधिकारियों को दिए गए निर्देश
- 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा आदि सेवा पर्व

सहयोगात्मक साझेदारियों के माध्यम से, नागरिक समाज संगठन जनजातीय गाँवों को आत्मनिर्भर, समतामूलक और सांस्कृतिक रूप से निहित विकास योजनाओं की कल्पना करने और उन्हें साकार करने के लिए सशक्त बनाएंगे। गांव के मानचित्रण के तहत आवास, पानी, बिजली जैसे सेवाओं की उपलब्धता, सामुदायिक संस्थान, पहुंच सेवाएं, आजीविका के संसाधन को सम्मिलात किया जायेगा। जल संसाधन के तहत झरने, तालाब, नदी, नाला, कुएं, बावड़ी, बांध, सिंचाई में सुधार की संभावनाएं परिवर्तन को प्रमुखता से इंगित किये जायेगे। साथ ही आवास,जलापूर्ति,स्वास्थ्य एवं पोषण देखभाल, शिक्षा, सड़क एवं परिवहन, बिजली, सामुदायिक एवं धार्मिक सुविधाएं, संचार, बाजार और व्यापार जैसी मूलभूत सेवाओं में आगामी 5 वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी फीडबैक पर भी नोडल अधिकारियों के सुझाव भी शामिल होगें ।इसके साथ ही कलेक्टर श्री दुदावत ने कहा कि आदि कर्म योगी अभियान वस्तुत: स्थानीय समुदाय के परिकल्पना को आदर्श ग्राम के रूप में साकार करना है, क्योकि परिवर्तन में शहरी क्षेत्र में जो विकास के उच्च स्तर के मानक हैं, भविष्य में वे ग्रामीण क्षेत्रों के मानक होगें। अत: इसके लिए नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों में जाकर दिये गए विकास के बिंदुओं की गहन जांच पड़ताल करके प्रारूप को भरे जायेगे। कुल मिलाकर यह व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की कोशिश है, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा प्रदाय सेवाओं को उत्कृष्ट बनाया जा सके। बैठक के दौरान अपर कलेक्टर राजेश पात्रे, आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त राजीव नाग सहित जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

व्याख्याताओं की काउंसलिंग में दंतेवाड़ा के रिक्त पद गायब

दंतेवाड़ा, 13 सितंबर (देशबन्धु)। पदोन्नत व्याख्याताओं की काउंसलिंग शुरू होने वाली है, लेकिन दंतेवाड़ा जिले के रिक्त पदों को शामिल नहीं करने से नया विवाद खड़ा हो गया है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने दंतेवाड़ा के पदों को इसलिए शामिल नहीं किया, क्योंकि यहां की समस्त शालाए सेजेस (स्वामी आत्मानंद विद्यालय) के अंतर्गत आती है। यहां प्रतिनियुक्ति के तहत ही पद भरे जा सकते हैं और यह अधिकार राज्य शासन को है। पूरे मामले से प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव को भी अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने सर्वमान्य हल की बात कही है।

- नए विवाद का सामना कर रहे शिक्षक, शिक्षा मंत्री से गुहार
- 39 की पदोन्नति, लेकिन डीपीआई ने पद ही गायब कर दिया
- प्रतिनियुक्ति पर तकनीकी दिक्कत का हवाला
- दंतेवाड़ा के सभी स्कूल सेजेस में शामिल

दंतेवाड़ा जिले में पदोन्नत व्याख्याताओं की संख्या 39 है, इन्हें काउंसलिंग में शामिल होना है। दंतेवाड़ा जिले में 140 पद रिक्त हैं। इसकी जानकारी शिक्षा विभाग द्वारा डीपीआई को भेजी जा चुकी है, लेकिन सेजेस शाला होने की वजह से इन रिक्त पदों को नहीं दर्शाया गया है। ऐसे में 39 पदोन्नत व्याख्याताओं को अन्यत्र जिलों में पोस्टिंग लेनी होगी। इससे जिले में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी हो जाएगी। रिक्त पद होने के बावजूद केवल तकनीकी कारणों से यह शामिल नहीं किया गया है। अभी हाल ही में सेजेस स्कूलों के लिए प्राचार्यो की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी। इसी तरह यूटीडी भी जिला स्तर पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर इन स्कूलों में समायोजित किये गए थे। पदोन्नत व्याख्याताओं के मामले में तकनीकी अड़चन बतायी जा रही है। लोक शिक्षण संचालनालय का कहना है कि सेजेस में प्रतिनियुक्ति का अधिकार राज्य शासन को है, डीपीआई को नहीं, जबकि पदोन्नत व्याख्याता प्रतिनियुक्ति पर जाने सहमत भी हैं। लंबे समय से जिले में सेवा दे रहे शिक्षक अपनी पूरी पारिवारिक व्यवस्था यहां बना चुके हैं। 20-25 साल की सेवा के बाद उन्हें दूसरे जिलों में जाने में असुविधा भी होगी। पूरे मामले की जानकारी शिक्षक संगठन ने प्रभारी मंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव को भी दी। इनके द्वारा स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव को भी अवगत कराया गया तो उन्होंने शिक्षा सचिव को निर्देशित किया कि दंतेवाड़ा के रिक्त पदों को शामिल करते हुए काउंसलिंग की जाए। पदोन्नत व्याख्याताओं ने प्रभारी मंत्री केदार कश्यप को पूरे मामले की जानकारी लिखित में देते हुए रिक्त पदों को काउंसलिंग में शामिल करने की मांग की है। उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में पदोन्नत व्याख्याताओं को शीघ्र न्याय मिल पाएगा।

ईवीएम, वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण

उप निर्वाचन अधिकारी के साथ राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मौजूद

दंतेवाड़ा, 13 सितंबर (देशबन्धु)। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार ईवीएम, वीवीपैट मशीनों का त्रैमासिक निरीक्षण किये जाने के निर्देश दिए गए है। इस तारतम्य में उप जिला निर्वाचन अधिकारी मूलचंद चोपड़ा कलेक्टोरेट परिसर में स्थित ईवीएम, वीवीपैट वेयर हाउस का आज निरीक्षण किया। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने वेयर हाउस की सुरक्षा, वहां स्थित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के रख रखाव, बैलट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, व्ही व्ही पीएटी मशीन, सीसी टीवी कैमरे, अग्नि से सुरक्षा परिसर की सुरक्षा सहित अन्य बिंदुओं के बारे मे जानकारी लेते अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं निर्वाचन सुपरवाइजर अजय नायक सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

पुस्तक मेले में नवप्रवेशी स्टूडेंटस ने दिखाई रूचि

जगदलपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। छग रजत जयंती महोत्सव 2025 के उपलक्ष्य में प्रदेश के अन्य संस्थानों की तरह बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विवि (मेरू) शमक विवि में राज्य की उन्नति, इसकी सभ्यता, संस्कृति, स्टार्टअप, इनोवेशन इत्यादि को लेकर कई बौद्धिक व शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शुक्रवार में विवि में आयोजित रजत जयंती महोत्सव 2025 में पुस्तक मेला का आयोजन किया गया।

अकादमिक भवन में लगे इस मेले में विवि के वर्तमान व पूर्व विद्यार्थियों ने विभिन्न स्टॉल में लगे पुस्तकों के प्रति कई जानकारी प्राप्त की। विवि ग्रंथालय द्वारा लगे इस मेले में बड़े आकार में बने भारतीय संविधान की पुस्तक को प्रदर्शनी के लिए रखा गया। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ जनजातीय समाज से जुड़ी कई महत्वपूर्ण लिटरेचर स्टॉल पर रखे गए। इसके अतिरिक्त सामान्य व विभिन्न पाठ्यक्रमों के पुस्तकों के स्टॉल लगाए गए। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित किताबों और पत्रिकाएं, धार्मिक पुस्तकों के बारे में स्टुडेंट्स ने कई जिज्ञासाएं जाहिर की। पुस्तक मेले के शुभारंभ के अवसर पर विवि में स्टॉल पर लगे पुस्तकों की सराहना करते हुए कुलपति प्रो मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आज के युवाओं की रीडिंग हैबिट बहुत घट गई है। इसे बढ़ाना बहुत जरूरी है। मोबाइल में पीडीएफ को फ्रेचेंटली पढ़ना कठिन है। पुस्तकों को हाथ में लेकर पढ़ने से ज्यादा लाभ मिलता है। उपग्रंथपाल डॉ. संजय कुमार डोंगरे ने बताया इस एक दिवसीय मेले में विवि के सभी कक्षा के स्टूडेंट्स ने रूचि दिखाई। विशेषकर स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के नवप्रवेशी विद्यार्थियों ने स्टॉल में लगे किताबों के बारे में कई जानकारी प्राप्त की। इस दौरान मेले में आए सभी स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी की सुविधाओं की जानकारी दी गई। डॉ डोंगरे ने बताया कि मेले में विवि लाईब्रेरी के अमूल्य, प्रसिद्ध और दुर्लभ पुस्तकों को विद्यार्थियों को देखने लगाया गया ताकि वे आगे इसे इशू कराकर या लाईब्रेरी आकर पढ़ सकें। मेले में सह प्राध्यापक डॉ सुकृता तिर्की द्वारा संकलित, लिखित व संपादित पुस्तकों को प्रदर्शनी हेतु रखा गया। इस आयोजन में अतिथि व्याख्याता सत्यवान साहू और बी लिब एवं एम लिब के स्टूडेंट ने सक्रिय भागीदारी दी। पुस्तक मेले को विवि के वरिष्ठ प्राध्यापकों ने भी अवलोकन किया।

बस स्टैण्ड में शीघ्र तैयार होगा शौचालय

पालिका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष ने सीएमओ के साथ किया निरीक्षण

दंतेवाड़ा, 13 सितंबर (देशबन्धु)। दंतेवाड़ा बस स्टैंड के पीछे यात्रियों की सुविधा हेतु बन रहे नवीन शौचालय का निरीक्षण करने नगरपालिका अध्यक्ष पायल गुप्ता, उपाध्यक्ष गुप्त कैलाश मिश्र एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी वीके पालदास पहुंचे। इन्होंने ठेकेदार से कार्य को समय सीमा एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। शौचालय निर्माण के स्थल परिवर्तन, भारी बारिश एवं बाढ़ की वजह से निर्माण कार्य में विलम्ब जरूर हुआ पर यात्रियों के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका दंतेवाड़ा द्वारा शौचालय निर्माण की कार्य प्रगति हेतु समय-समय पर तकनीकी सहायक एवं नगरपालिका दंतेवाड़ा के अधिकारियों द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश

सार-संक्षेप

प्रदेश संगठन महामंत्री पवन ने किए दंतेश्वरी दर्शन

दंतेवाड़ा, 13 सितंबर (देशबन्धु)। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, बेवरेज कार्पोरेशन के अध्यक्ष एवं जिला दंतेवाड़ा संगठन प्रभारी श्रीनिवास मद्दी, युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर ने आज दंतेवाड़ा पहुँच बस्तर की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी के दर्शन कर पूजा अर्चना कर सुख एवं समृद्धि की कामना की। देवी दर्शन के पश्चात भाजपा कार्यालय पहुँचने पर विधायक चैतराम अटामी एवं भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष गुप्ता ने प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, जिला दंतेवाड़ा संगठन प्रभारी श्रीनिवास मद्दी एवं युवा आयोग अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर का पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान समस्त भाजपा पदाधिकारी,जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

केन्द्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का गीदम में स्वागत

दंतेवाड़ा, 13 सितंबर (देशबन्धु)। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का गीदम हारम में भाजपाईयों ने आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान विधायक चैतराम अटामी, जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी, भाजपा नेता विनोद साहू, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, भाजपा कोषाध्यक्ष मनीष सुराना, पूर्व अध्यक्ष अभिमन्यु सोनी सहित अनेक भाजपाई उपस्थित रहे। केन्द्रीय राज्य मंत्री के साथ सांसद महेश कश्यप भी पहुंचे थे।

बारसूर आयुष शिविर में 348 लाभान्वित

दंतेवाड़ा, 13 सितंबर (देशबन्धु)। बारसूर साप्ताहिक बाजार में ब्लाक स्तरीय आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा किया गया। शिविर में 348 ग्रामीणों का उपचार और मार्गदर्शन किया गया। विभिन्न रोगों की नि:शुल्क चिकित्सा के साथ दवा का वितरण भी किया गया। यह शिविर जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ. बसंत कुमार कोसरे के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। शिविर में शिविर प्रभारी डॉ. मुकेश तिवारी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी छिंदनार, डॉ. जगदम्बा पण्डा और अन्य चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी।

विभिन्न रोगों की नि:शुल्क चिकित्सा, दवा वितरण

प्राकृतिक आपदा पीड़ित 8 परिवारों को 32 लाख की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

जगदलपुर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। कलेक्टर हरिस एस. द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत् प्राकृतिक आपदा पीड़ित 8 परिवारों को 32 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।

जिसके तहत् तहसील लोहण्डीगुड़ा के ग्राम मालेवाही निवासी रमेश की मृत्यु सांप काटने से बड़े भाई शिवकुमार को और ग्राम मिचनार -02 के निवासी कुमारी सोषनी की मृत्यु सांप काटने से पिता रिंकु मण्डावी को, तहसील करपावण्ड ग्राम चोकनार निवासी डमरू की मृत्यु पानी में डूबने से माता कुमारी को, तहसील भानपुरी ग्राम मुरकुची निवासी डोमूराम की मृत्यु पानी में डूबने से पत्नी लुदरी को, तससील दरभा ग्राम कामानार निवासी जयमनी की मृत्यु पानी में डूबने से पति लैखन को, ग्राम छोटे आमाबाल निवासी पतिराम की मृत्यु पानी में डूबने से पत्नी कारीबाई को, तहसील बकावण्ड ग्राम मंगनार निवासी गम्भीर राम की मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने से माता मंगलदई को एवं तुलाराम की मृत्यु गाज गिरने से पत्नी मंदलई को प्रत्येक को चार-चार लाख रूपए की सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। उक्त स्वीकृत सहायता राशि संबंधित हितग्राहियों के बैंक खाते में सीधे अंतरित किए जाने के निर्देश संबंधित तहसीलदारों को दिए गए हैं।

जगदलपुर। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू का भाजपा पदाधिकारियों ने मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर में स्वागत किया।

फरसगांव महाविद्यालय की रजत जयंती पर ज्ञान-विज्ञान का संगम

फरसगांव, 13 सितंबर (देशबन्धु)। चेयतू गायता शासकीय महाविद्यालय, फरसगांव में तीन दिवसीय रजत जयंती समारोह का दूसरा दिन ज्ञान और कला के रंग में पूरी तरह डूबा रहा। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रांगण में पोस्टर, भाषण और क्विज प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना (ह्रस्र्) इकाई के मार्गदर्शन में, एक जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें विद्यार्थियों ने कोर्रागांव तक मार्च किया। इस रैली का मुख्य आकर्षण नुक्कड़ नाटक था, जिसके माध्यम से समाज को महत्वपूर्ण संदेश दिए गए। इन कार्यक्रमों का सफल संचालन प्राध्यापक सीमा बघेल, राजेंद्र कुमार मरकाम, सुलोचना मरकाम, चंपा मरकाम , पुष्पा खिलाड़ी और राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी तीरथ बरिहा के कुशल नेतृत्व में हुआ। यह आयोजन न केवल विद्यार्थियों की सृजनात्मकता और ज्ञान को बढ़ाने का एक मंच था, बल्कि यह भी दिखाता है कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम है ।यह कार्यक्रम महाविद्यालय की 25 वर्ष की गौरवशाली यात्रा का उत्सव था, जिसने शिक्षा और सामाजिक चेतना का एक अनूठा संगम प्रस्तुत किया।

बस्तरिया राज मोर्चा ने सुकमा में जनसभा कर प्रथम वर्षगांठ मनाई

सुकमा, 13 सितंबर (देशबन्धु)। गुरुवार को सुकमा में बस्तरिया राज मोर्चा का स्थापना का प्रथम स्थापना वर्ष मनाया गया। उल्लेखनीय है कि 11 सितंबर 2024 को ठीक एक वर्ष पहले कोया समाज भवन परपा (जगदलपुर) में बस्तरिया राज मोर्चा की स्थापना हुई थी। सुकमा के इस स्थापना वर्ष के प्रथम वर्षगांठ के अवसर में आयोजित आमसभा में हजारों लोगों ने भाग लिया। इस महत्वपूर्ण सभा की अध्यक्षता कोया समाज के संभागीय अध्यक्ष हिरमो मंडावी ने किया।

इस अवसर पर रामा सोढ़ी ने स्वागत भाषण के माध्यम से बस्तरिया राज मोर्चा के उद्देश्यों को संक्षिप्त में बात रखी। तमाम औपचारिकता के बाद सभा में वर्ष भर में बस्तर के अंदर घटी घटनाओं व आंदोलन का उल्लेख करते हुए बस्तरिया राज मोर्चा के संयोजक मनीष कुंजाम ने कहा कि बस्तर पर केंद्रित 11 बिंदुओं पर आधारित हमारे मुद्दे हैं, जिसको लेकर अब आंदोलन को व्यापक व तेज करना है, यहां के लोह अयस्क यूरेनियम आदि खनिजों का तथा पानी व जंगल का दोहन करने के लिए कोथागुडेम से किरंदुल तक रेल लाइन डालने और बोधघाट बांध को बनाने की तैयारी चल रही है, यही नहीं दक्षिण बस्तर के सभी मुख्य सड़कों को ज्यादा सौड़ाई वाला बनाने की योजना पर काम हो रहा है। बड़ी-बड़ी प्राइवेट कंपनियों को बैलाडीला की खदाने दिया जा रहा है, इन सब पर तेजी से केंद्र व राज्य सरकारें काम कर रही है, इससे बस्तर का मूल स्वरूप जल, जंगल , जमीन ,संस्कृति रीति -रिवाज पर खतरा मंडरा रहा है। इससे बस्तर की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या संतुलन जो अब तक मूल निवासियों की और झुकी है। वहां खत्म हो जागा। उन्होंने बस्तर के इतिहास में हुई ऐतिहासिक विद्रोह का उल्लेख करते हुए कई सभी लड़ाइयां बाहरियों जैसे सामंत ,दीवान जमीदार जागीदार, अंग्रेजों व व्यापारियों के खिलाफ था। जो कि वे उस समय के शोषण अत्याचार के मुख्य केंद्र थे विशेष रूप से भूमकाल विद्रोह का उल्लेख किया। यादव समाज के संभागीय पूर्व अध्यक्ष व संरक्षक संतोष यादव ने कहा कि हम लोग बस्तर के मूल निवासी हैं, हमारा तकदीर नहीं बदला है, सब कमाई के जगह पर बाहरियों का कब्जा हो गया है। व्यापार पर ठेकेदारी ,नौकरी आदि मूल निवासियों के लिए सपना है। जिसे पा नहीं सकते हैं। उन्होंने सरल और प्रभावी भाषण करते हुए कहा कि अब चुप रहने के दिन नहीं है। युवाओं को इंगित करते हुए कहा कि उठो और हक उकूक लिए गोलबंद होकर संघर्ष शुरू करे युवाओं में बहुत ताकत होती है । अब देखो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है वहां के युवाओं ने तकता पलट दिया है। संतोष यादव ने कहा हिंसा भागजनी को अनुचित ठहराया है। उन्होंने आव्हान करते हुए कहा कि अब बस्तर के मूल निवासियों के एतो उनके समस्याओं के खिलाफ लड़ने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए बस्तरिया राज मोर्चा के साथ जुड़े कोई राजनीतिक दल खास कर भाजपा कांग्रेस यहां के मूल निवासियों के लिए काम नहीं करती है, उन्होंने बस्तर के एमएलए ,एमपी को का उदाहरण देते हुए कहा कि वे सभी बाहरियों से गिरे रहते हैं। हमारे लोग पीछे खड़े रहते हैं सिर्फ एक ही कारण है कि बस्तर के मूल निवासियों आदिवासियों में चापलूसी करने या उनर या गुण नहीं होता है।

बस्तर आर्ट गैलरी में डॉ. शांति पांडे की चित्रकला प्रदर्शनी आज से 17 तक

जगदलपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। बस्तर आर्ट गैलरी में बस्तर की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. शांति पांडे के द्वारा बनाए गए चित्रकला की प्रदर्शनी का आयोजन 13 सितंबर से 17 सितंबर तक किया गया है। प्रदर्शनी का शुभरंभ 13 सितंबर को 11 बजे किया जायेगा । डॉ शांति पांडे स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में पूरे बस्तर संभाग के लिए एक जाना पहचाना नाम है, बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्र में आज भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं । एक डॉक्टर के अंदर छिपी चित्रकला को उन्होंने सबके सम्मुख प्रस्तुत करने का निश्चय किया। इसकी प्रस्तुति के लिए अंजलि बेहार सीरीज आफ एग्जीक्यूटिव एग्जीबिशन कला अर्चना स्टूडियो के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। विदित हो के डॉक्टर शांति पांडे बस्तर की जितनी कुशल स्त्री रोग चिकित्सक रही है। इसके साथ हीयू उनके चित्रकला के शोक ने उन्हें एक अच्छा खासा कलाकार बना दिया है। डॉ शांति पांडे से हुई चर्चा में उन्होंने बताया कि चित्रकला की उन्होंने कहीं से कोई ऐसा कोर्स नहीं किया है। अपने शौक के लिए चित्रों को अपनी कल्पना के अनुसार केनवास में उकेरती रही है, इसी शौक के कारण आज एक बड़ा कलेक्शन हो गया, जिसे लोगों ने बस्तर आर्ट गैलरी में सभी के लिए प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया, इस हेतु एक छोटा सा प्रयास है। उन्होने बस्तर के कला प्रेमियों से आह्वान किया है, कि वह 13 से 17 सितंबर तक संध्या 5 से रात्री 9 बजे तक बस्तर आर्ट गैलरी में पहुंचकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें।

खुल कर बात करने से दूर होता है तनाव

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर कार्यशाला

दंतेवाड़ा, 13 सितंबर (देशबन्धु)। जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजय रामटेके के मार्गदर्शन पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर गीदम स्थित स्वामी आत्मानंद कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं को मध्य मानसिक स्वास्थ्य अंतर्गत तनाव प्रबंधन एवं आत्महत्या रोकथाम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही चलो बात करें थीम पर छात्राओं को किसी भी तनाव के समय खुलकर बात करने की सलाह दिया गया। इस कार्यशाला में छात्राओं ने भी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। कार्यशाला में मुख्य रूप से जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम डॉक्टर देश दीपक, जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रतीक सोनी, डब्ल्यू एच ओ जिला सलाहकार कुमार गौरव, जिला एनसीडी सलाहकार अंकित सिंह, यूनिसेफ से श्रुति एवं संस्था के प्राचार्य तथा शिक्षक उपस्थित थे।

छात्राओं के बीच पहुंचे मनोचिकित्सक

उल्टा पुल्टा

बंता - तुम खाली पेट होने पर कितने केले खा सकते हो...?
संता (कुछ पल सोचकर कहा) - मैं 6 केले खा सकता हूं।
बंता ने हंसते हुए जवाब दिया - गलत जवाब दोस्त,पहला केला खा लेने के बाद तुम्हारा पेट खाली कहां रहेगा...? इसलिए खाली पेट होने पर तुम केवल एक ही केला खा सकते हो।

भाजपा सरकार बिजली दर में बढ़ोतरी वापस ले : महंत

बिजली हाफ योजना बंद करना जनता से बेमानी है

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि, प्रदेश में बिजली की कीमतों में प्रति यूनिट 20 पैसे की बढ़ोतरी ने आम जनता के साथ-साथ राज्य के किसानों की भी कमर तोड़ दी है। इस वृद्धि ने घरेलू उपभोक्ताओं, उद्योगों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से,कृषि क्षेत्र को सीधे प्रभावित किया है, जिससे राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। ऊर्जा विभाग स्वयं मुख्यमंत्री विशुदेव साय के पास है। ऊर्जा विभाग के वर्तमान आकड़े अनुसार एकल बत्ती 15-लाख 16-हजार 283, कृषि पम्प कनेक्शन

5-लाख 94-हजार 277, एल.टी(घरेलु) कनेक्शन 63-लाख 45-हजार 448, एच.टी(व्यवसायिक) कनेक्शन 3-हजार 8-सौ 99 है।

मूल्य वृद्धि का कोई ठोस कारण नही है

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि, यह वृद्धि तब हुई है जब छत्तीसगढ़ कोयला और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। हम न केवल अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि इन संसाधनों की आपूर्ति दूसरे राज्यों को भी करते हैं। ऐसे में बिजली मूल्य वृद्धि का कोई ठोस कारण नहीं दिखता, महंगाई के इस दौर आम जनता आर्थिक बोझ से परेशान है।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि, प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा हमारी 'बिजली हाफ योजना' को बंद करने से जनता पर आर्थिक बोझ की दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ, बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं, वहीं दूसरी तरफ रियायती योजना को लगभग खत्म कर दिया गया है, जिससे आम नागरिकों और किसानों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं।बिजली दरों में लगातार हो रही वृद्धि ने घरेलू बजट को बुरी तरह प्रभावित किया है और छोटे व्यवसायों की लागत कई गुना बढ़ गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। इस अप्रत्याशित वृद्धि से आम नागरिकों में भारी असंतोष है, क्योंकि उनकी दैनिक जीवन की लागत लगातार बढ़ती जा रही है।

किसानों पर प्रभाव

श्री महंत ने कहा कि, कृषि प्रधान राज्य होने के नाते, छत्तीसगढ़ के किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर बिजली पर निर्भर हैं। बिजली की बढ़ती कीमतें सीधे तौर पर उनकी उत्पादन लागत में वृद्धि कर रही हैं।कई छोटे और सीमांत किसान अब अपनी फसलों की सिंचाई के लिए बिजली का खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी पैदावार और आजीविका पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। यह स्थिति न केवल किसानों की आर्थिक स्थिरता को चुनौती देती है, बल्कि राज्य की खाद्य सुरक्षा को भी खतरे में डालती है।

उन्होंने कहा सरकार बढ़ी हुई बिजली दरों को तुरंत वापस ले। किसानों के लिए कृषि पंपों पर विशेष सब्सिडी या रियायती बिजली दर लागू करे। किसानों के लिए कृषि पंपों पर विशेष सब्सिडी या रियायती बिजली दर लागू करे। राज्य में बिजली उत्पादन और वितरण प्रणाली में सुधार किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी वृद्धि को रोका जा सके।

दस सालो में पहली बार होगी सितंबर में मानसून की विदाई

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। प्रदेश में कर्ब तीन माह तक बरसे मानसूनी बादलों ने अब विदाई की राह पकड़ ली है।दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई का शुरुआत पश्चिमी राजस्थान से 15 सितंबर से होने की संभावना है। इस वर्ष मानसून की विदाई की शुरुआत पिछले 10 सालों में पहले होने की संभावना बन रही है।

मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दाब का क्षेत्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश-दक्षिण तटीय उड़ीसा के ऊपर स्थित है तथा इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा और उससे लगे उत्तर आंध्र प्रदेश तथा दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों में पहुंचने की संभावना है। मानसून द्रोणिका माध्य समुद्र तल पर श्रीगंगानगर, रोहतक, सिवनी, राजनांदगांव और उसके बाद पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में स्थित निम्न दाब के केंद्र तक स्थित है। एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पश्चिम विहार और उससे लगे झारखंड के ऊपर 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है।

एक द्रोणिका पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में स्थित निम्न दाब के केंद्र से उत्तर आंध्र प्रदेश विदर्भ तक छत्तीसगढ़ होते हुए 3.1 किलोमीटर से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है।

प्रदेश में आज हल्की से मध्यम वर्षा होगी

प्रदेश में कल 14 सितंबर को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।

प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने तथा भारी वर्षा होने की संभावना है। भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्यत: सरगुजा संभाग के जिले और बस्तर संभाग के जिले संभावित है।

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर रायपुर में लाखों की ठगी

दो महिलाओं ने ट्रासपोर्टर को ठगा

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। शेयर मार्केट में निवेश पर चार गुना मुनाफा देने का झांसा देकर राजधानी के ट्रांसपोर्टर डाकेश्वर सिंह से 71.50 लाख की ऑनलाइन ठगी हो गई ट्रांसपोर्टर की सोशल मीडिया में श्रेया नाम की युवती से दोस्ती हुइ उसने शेयर मार्केट की बातें शुरू की और झांसा दिया कि वह ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ी है जिसमें निवेश करने पर मोटा मुनाफा होता ह उसने कुछ स्क्रीनशॉट भी भेजे और ट्रांसपोर्टर को एक गुप्र से जोड़ दिया ट्रांसपोर्टर युवती के झांसे में आ गया उन्होंने अलग.अलग किश्तों में 19.50 लाख जमा कर दिए कुछ दिन बाद जब उसने पैसा निकालने की कोशिश की तो श्रेया ने टैक्स जमा करने की बात कही तब ट्रांसपोर्टर को अहसास हुआ कि वे ठगी के शिकार हो गए है।

इसी दौरान सोशल मीडिया पर जुड़ी एक अन्य युवती आराध्या से बातचीत हुइ उसने ट्रांसपोर्टर से कहा कि देश में अभी शेयर मार्केट के नाम पर बहुत ठगी हो रही है इसलिए किसी पर भरोसा न करें आराध्या ने दावा किया कि वह अधिकृत कंपनी से जुड़ी हुई ह ट्रांसपोर्टर इस बार भी उसके झांसे में आ गया और 52 लाख से ज्यादा का निवेश कर दिया अब पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है पुलिस ने जांच शुरू कर दी है इस मामले में सरस्वती नगर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक कोटा निवासी डाकेश्वर सिंह 47 का ट्रांसपोर्ट का कारोबार है जून में उनके

सोशल मीडिया अकाउंट पर श्रेया अग्रवाल की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई दोनों में वाट्सएप पर बात होने लगी श्रेया के कहने पर 2 से 15 जुलाई के बीच डाकेश्वर ने 19.50 लाख जमा कर दिए एप में 78 लाख का मुनाफा दिखने लगा इसके बाद आराध्या के कहने पर 2 से 15 अगस्त के बीच 52 लाख और जमा कर दिए दोनों युवतियां बार.बार टैक्स जमा करने का दबाव बनाने लगीं इसके बाद ही उन्हें ठगी का एहसास हुआ।

दूसरी बार में छह लाख देकर भरोसा जीता

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि पहली ठगी के कुछ दिन बाद एक अन्य महिला आराध्या अग्रवाल फेसबुक से जुड़ी कारोबारी ने उसे पहले वाली ठगी की बात बताई उसने भरोसा दिलाया कि उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म असली है उसने कारोबारी को भरोसा दिलाया कि उसके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर निवेश कर फायदा मिल सकता ह कारोबारी ने पांच लाख रुपए लगाए और तुरंत छह लाख रुपए वापस भी मिले यही भरोसा ठगों की चाल थी फिर फर्जी ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाकर कारोबारी से दो अगस्त से 31 अगस्त के बीच अलग.अलग खातों में 52 लाख रुपए और जमा करा लिए रकम वापसी मांगी तो पेनाल्टी की बात कहकर टालते रहे आखिरकार कारोबारी को दूसरी बार ठगी का अहसास हुआ और इस बार एफआईआर दर्ज कराई।

जरासी लापरवाही, पूरी जमापूंजी ले सकती हैं

ट्रांसपोर्ट कारोबारी की कहानी उन तमाम लोगों के लिए चेतावनी है जो सोशल मीडिया पर आए निवेश के ऑफर को सच मान लेते है ठग पहले भरोसा जीतते हैं फिर धीरे.धीरे रकम बढ़वाकर पूरा बैंक बैलेंस साफ कर देते हैं सिर्फ एक गलत क्लिक एक झूठी दोस्ती या एक नकली ऐप किसी की जिंदगीभर की मेहनत को पल भर में लूट सकता है।

दुकान से मोबाइल चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। बीते जुलाई माह में आरंग बस स्टैंड स्थित शुभकामना मोबाइल दुकान में हुई चोरी मामले में आरंग पुलिस ने एक नाबालिग सहित 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 14 मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकल को जब्त किया है। पूरे मामले का खुलासा थाना प्रभारी राजेश सिंह ने किया। टीआई ने बताया कि 04 .05 जुलाई 2025 की रात बस स्टैंड के पास स्थित शुभकामना मोबाइल दुकान में चोरी हुई थी। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर कई कंपनियों के मोबाइल चोरी किए थे। पीड़ित की शिकायत पर आरंग पुलिस में मामला दर्ज कर जांच में लिया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर आसपास के लोगों

14 मोबाइल फोन बरामद

से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया। टीम के सदस्यों ने घटना स्थल व उसके आसपास लगे सीसीटीव्ही कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही प्रकरण में मुखबिर लगाए थे। हाल ही में जेल से रिहा हुए चोरी के आरोपियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र करने के साथ ही चोरी के पुराने आरोपियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर उनकी गतिविधियों पर निगाह रखी जा रही थी। तकनीकी विश्लेषण सहित अन्य माध्यमों से भी लगातार अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी में लगी टीम के सदस्यों को प्रकरण में संलिप्त आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों ने मंदिर हसौद रायपुर निवासी आरोपी नवीन बंजारे एवं अश्वनी बंजारे उर्फ बंटी और एक नाबालिक को पकड़ा। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर तीनों से कड़ाई से पूछताछ करने पर तीनों ने मोबाइल दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। तीनों आरोपी अपचारी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की विभिन्न कंपनियों के कुल 14 नग मोबाइल फोन एवं घटना में उपयोग की गई बाइक सहित कुल जुमला लगभग 2,20,000६.रुपए जब्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए सभी को जेल भेजा गया।

थाना परिसर में परिवार के 5 लोगों ने की आत्महत्या की कोशिश

महिला ने दो बच्चों पर डाला पेट्रोल

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर जिले से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आयी है। जहां थाना परिसर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की है। पीड़ित महिला ने गांव के दबंगों पर प्रताड़ना और हुक्का.पानी बंद करने का आरोप लगाया है। अंबागढ़ चौकी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। जहां अंबागढ़ चौकी थाना परिसर में एक महिला अपने बच्चों पर और खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि महिला का परिवार चौकी ब्लॉक के पांगरी गांव का रहने वाला है। जो कि गांव के दबंगों की शिकायत लेकर थाने पहुंची थी। इस परिवार ने दबंगों पर प्रताड़ना और हुक्का.पानी बंद करने का आरोप लगाया है। फिलहाल अंबागढ़ चौकी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

इधर भिलाई में भी अपनी पत्नी से विवाद के बाद पति ने आत्महत्या की कोशिश की है। पति ने खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग लगा ली है। जिसके कारण शख्स झुलस गया है। बताया जा रहा है कि वह पत्नी और बच्चों से मारपीट करता था। जिसकी शिकायत आज पत्नी ने महिला थाना में की थी। जिसके बाद पति ने इस तरह आत्महत्या करने की कोशिश की है। यह घटना वैशालीनगर थाना क्षेत्र की है।

बृजमोहन ने अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय जंबूरी की तैयारियों की समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। भारतीय स्काउट्स एंड गाइड्स छत्तीसगढ़ राज्य परिषद की बैठक आज रायपुर सांसद एवं संस्था के अध्यक्ष श्री बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में आगामी कार्यक्रमों, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जंबूरी की तैयारी, सदस्यता विस्तार तथा समाजोपयोगी अभियानों पर विस्तृत चर्चा कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि युवाओं के मानसिक, शारीरिक विकास के साथ देश सेवा में कार्य कर रहे स्काउटिंग को लोग और अच्छे से जाने इस हेतु नव भारत निर्माण थीम पर मै 33 जिलों में दौरा करूंगा।

श्री अग्रवाल ने कहा कि भारतीय स्काउट्स एंड गाइड्स एक गौरवशाली संस्था है, जिससे जुड़ना स्वयं में गर्व की अनुभूति है। यह संगठन केवल अनुशासन और सेवा भाव ही नहीं सिखाता, बल्कि समाज निर्माण में भी अहम भूमिका निभाता है। इस अवसर पर राज्य मुख्य आयुक्त डा सोमनाथ यादव ने बताया कि आगामी दिनों में राज्य पुरस्कार जांच शिविर संभाग स्तर पर आयोजित किया जाएगा,वही उन्होंने बताया कि नवंबर माह में लखनऊ में आयोजित जंबूरी मे राज्य से 3 सौ से अधिक स्काउट्स गाइड्स हिस्सा लेंगे, इसी तरह प्राकृतिक आपदा में स्काउट्स गाइड्स की भूमिका को लेकर प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। डॉ सोमनाथ यादव ने बताया कि बच्चों को साहसिक कार्यों में भी हिस्सेदारी हो इस हेतु लगातार एडवेंचर कैंप आयोजित किए जा रहे है। आगामी 23 से 29 नवम्बर तक लखनऊ में होने वाली राष्ट्रीय जंबूरी में राज्य के 313 रोवर्स-रेंजर्स भाग लेंगे।

महिला वकील से पड़ोसियों ने की मारपीट

बिल्ली पालने को लेकर विवाद, पड़ोसी बोले-आरोप गलत वकील होने का धौंस दिखाती है

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहने वाली एक महिला वकील को उसके ही पड़ोसियों ने मारा है। बताया जा रहा है कि बिल्ली पालने को लेकर विवाद हुआ था। जिसके बाद बात मारपीट तक पहुंच गई। महिला वकील का आरोप है कि पड़ोसी ने उसका बाल खींचा और मारपीट के बाद मोबाइल तोड़ा गया। मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का है। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि महिला वकील होने का धौंस दिखाती है। कोई मारपीट नहीं हुई है उसके आरोप गलत है। महिला वकील के मुताबिकए उनकी सोने के चेन भी गायब है।

दोनों पक्ष ने एक.दूसरे पर लगाया आरोप-इस मामले में महिला वकील का कहना है कि उसके साथ पड़ोसी ने बेरहमी से मारपीट की है। पड़ोसियों को बिल्ली पालने को लेकर जबरन विवाद किया। फिर गाली गलौज के बाद हाथापाई शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर पड़ोसियों का कहना है कि विवाद की शुरुआत महिला वकील ने की है।

पड़ोसियों ने कहा कि महिला ने बिल्ली पाल रखा है। जो उत्पात करती है। उसे जब मना किया गया तो वह वकील हूंए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते करके कहने लगी। विवाद की शुरुआत उसने की थी। फिलहाल इस मामले में डीडी नगर पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है।

बिरगांव से 7 साल की बालिका का अपहरण

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। राजधानी के उरला से बालिका के अपहरण होने की जानकारी सामने आई है पुलिस ने मामले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर बालिका की तलाश शुरू कर दी है। बताया गया कि बालिका नाम अपहृता अवनि जोशी पिता

धर्मराज जोशी उम्र 7 वर्ष इंद्रानगर शुक्रवारी बाजार निवासी बताई गइ है। बालिका इंद्रानगर शुक्रवारी बाजार उरला में घर के पास आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रही थी जहां अंतिम बार देखी गई है एबाद रात्रि तक घर नहीं आई है, पिंक कलर का फ्रॉक पहनी है । बालिका का पता तलाश की जा रही है ।

भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के 400 शिक्षकों का आज होगा सम्मान

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। अखिल विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार के नेतृत्व में आयोजित होने वाली भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में सहयोग करने वाले शिक्षकों और प्राचार्यो का सम्मान गायत्री परिवार ट्रस्ट समता कॉलोनी रायपुर के द्वारा 14 सितंबर रविवार को गायत्री शक्तिपीठ समता कॉलोनी रायपुर में दोपहर 12 बजे किया जाएगा। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ श्री टंकाराम वर्मा और छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री रूपनारायण जी सिन्हा विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के प्रांतीय संयोजक श्री श्याम बैस ने जानकारी देते हुए बताया कि अखिल विश्व गायत्री परिवार छत्तीसगढ़ के द्वारा समूचे छत्तीसगढ़ में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसमें फिलहाल रायपुर जिले में शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा वहीं आने वाले समय में अलग-अलग स्थानो पर भी शिक्षकों का सम्मान का कार्यक्रम तय किया जाएगा।

श्री श्याम बैस ने आगे यह भी बताया कि इस परीक्षा का उद्देश्य स्कूली बच्चों में भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता पैदा करना और उन्हें इसके महान तत्वों से अवगत कराना है। साथ ही प्रदेश स्तर पर सर्वप्रथम आने वाले छात्रों को गायत्री परिवार के द्वारा हरिद्वार दर्शन और भ्रमण भी कराया जाता है।

गायत्री परिवार ट्रस्ट के मीडिया प्रभारी आरके शुक्ला ने जानकारी देते हुए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के बारे में बताया कि इस परीक्षा में बैठने से विद्यार्थियों को कई तरह के लाभ भविष्य के लिए मिलता है जिसमें विद्यार्थी भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से परिचित होते है।- व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों की पुन:स्थापना और अभिवर्धन करने की जानकारी मिलती है, युवाओं को भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक करके राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की जानकारी के साथ ही विद्यार्थियों को अपने आत्म-विकास के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह परीक्षा मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति के महत्व और मूल्यों के बारे में जानने का अवसर मिलता है, और उन्हें अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में सहयोग करने वाले शिक्षकों का सम्मान 14 सितंबर रविवार को किया जाएगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित इस परीक्षा का उद्देश्य स्कूली बच्चों में भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता पैदा करना है।

सम्मान समारोह के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आयोजित बैठक में विशेष रूप से गायत्री परिवार ट्रस्ट के सहायक प्रबंध ट्रस्टी सदाशिव हथमल ट्रस्टी श्रीमती आदर्श वर्मा जी ट्रस्टी श्री हनुमान प्रसाद जी अग्रवाल ट्रस्टी श्री दीनानाथ जी शर्मा ट्रस्टी श्री शैलेश वर्मा के साथ जिला समन्वयक लच्छू राम निषाद, परीक्षा प्रभारी श्री रामपाल तिवारी, के साथ भारी संख्या में गायत्री परिवार के पदाधिकारी और परिजन मौजूद रहेंगे।

जन्म दिन की बधाई

याशी राय को 4 वर्ष के होने पर जन्म दिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं



शुभेच्छु- दादी, बड़ी मम्मी-बड़े पापा, मम्मी-पापा, चाचा-चाची एवं परिवार

अनेकांतवाद हर व्यक्ति की आवश्यकता : मनीष सागर

रायपुर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। टैगोर नगर पटवा भवन की धर्मसभा में शनिवार को परम पूज्य उपाध्याय प्रवर युवा मनीषी मनीष सागरजी महाराज ने कहा कि व्यवहार में आपको अनेकांतवादी बनना होगा। अनेकांतवाद हर व्यक्ति की आवश्यकता है। वस्तु खुद अनेकांत है। ।वस्तु के अनेक गुण होते हैं। इसलिए वस्तु को अनेक नजरिये से देखना है। वस्तु अनेक पक्ष वाली होती है। उसे एक तरह से नहीं समझा जा सकता। वक्ता यदि अनेकांत वाला है तो श्रोता को भी अनेकांत वाला होना चाहिए। उपाध्याय भगवंत ने कहा कि परमात्मा ने कोई कथन कहा है तो इसके दूसरे भी आयाम है। परमात्मा के कथन को यदि एकांत से ग्रहण कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। परमात्मा के कथन को समझना होगा कि वह किस अपेक्षा से बोला गया है। इसलिए हमें जिनवाणी समझ में नहीं आती है। जिनवाणी को अनेकांत से सुनकर उस दृश्य को बनाना होगा। जब तक हम अनेकांत दृष्टि से नहीं समझेंगे, तब तक जिनवाणी समझ में नहीं आएगी। उपाध्याय भगवंत ने कहा कि सिद्धांत बनाने में कंजूसी ना करें। सिद्धांत परिपूर्ण बनाओ। सिद्धांत सही बनेगा तो आचरण में ला पाएंगे। सिद्धांत नहीं बनाएंगे तो आचरण में आएगा नहीं। लक्ष्य निर्धारित करना होगा। तभी उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप चलना शुरू करोगे। ।जिनवाणी को समझने का प्रयास कर रहे। जिनवाणी को नहीं समझा तो असरकारी नहीं होगी। जैन धर्म के तीन मुख्य सिद्धांत अहिंसा,अनेकांत और तीसरा अपरिग्रह है।

उपाध्याय भगवंत ने कहा कि अहिंसा को समझना थोड़ा आसान है और अपरिग्रह को भी समझा जा सकता है। अनेकांत को समझना कठिन हो जाता है। अहिंसा अर्थात किसी को सताना नहीं। किसी से हिंसा नहीं करना। वहीं जो हम वस्तु का संग्रह करते हैं। वस्तु के प्रति राग,इच्छाएं होती है यह परिग्रह है। इसके विपरीत अनासक्ति का जीवन अपरिग्रह है। अपरिग्रह को समझना इसलिए कठिन है। वस्तु खुद अनेकांत है। इसलिए वस्तु को अनेक नजरिए से देखना होता है। उस नजरिया से हम वस्तु को समझेंगे। तभी अनेकांत दृष्टि से हम वस्तु के अनेक गुण को समझ पाएंगे।

आज लिटिल मास्टर शतरंज प्रतियोगिता, ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से करेंगे पुरस्कृत

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। प्रदेश की राजधानी रायपुर में 14 सितंबर को लिटिल मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है. छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ और अंबुजा सिटी मॉल के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया है. अंबुजा सिटी मॉल में ही सुबह 11 बजे इसका आयोजन होगा. 500 रुपए इसकी एंट्री फीस रखी गई थी. ग्रैंड मास्टर थिप्से शामिल- यह आयोजन ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से के छत्तीसगढ़ आगमन पर हो रहा है. राज्य के खिलाड़ियों का शतरंज खेल के प्रति इससे मनोबल बढ़ेगा. साथ ही अर्जुन अवॉर्डी ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से की उपस्थिति से छत्तीसगढ़ के शतरंज खिलाडी अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे. 14 सितंबर को लिटिल मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है ।

सरयूपारीण ब्राम्हण सभा ने शिक्षकों का किया सम्मान

◆ **ब्राह्मण समाज के आधा दर्जन पार्षद भी सम्मानित**

रायपुर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। सरयूपारीण ब्राम्हण सभा रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रथम बार आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में 154 ब्राम्हण समाज के शिक्षकों का सम्मान करते हुए मुख्य अतिथि श्रीमती मीनल चौबे महापौर ने शिक्षकों को समाज का निर्माता बताया। उन्होंने कहा की जिसके जीवन में अच्छे शिक्षक आते हैं उस शिष्य का जीवन धन्य हो जाता हैं । कार्यक्रम के विशिष्ठ अतिथि राजेश्री महंत रामसुंदर दास ने कहा की शिक्षा की जीवन भर सम्मान पाता हैं अन्य लोगों का सेवा निवृत लोग सम्मान करना भूल जाते हैं वही दूसरी ओर एक शिक्षक के पढ़ाए हुए शिक्षा के उस उस शिक्षक का सामान करते हैं । इस अवसर पर ब्राम्हण समाज के निर्वाचित बद्री प्रसाद गुप्ता, मुरली शर्मा, श्रीमती सरिता दुबे ,श्रीमती स्वप्निल मिश्रा,श्रीमती ममता तिवारी देवदत्त द्विवेदी, श्रीमती सुमन पाण्डेय, का समाज के द्वारा सम्मान किया गया। साथ ही ब्राम्हण समाज के शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े सेवा निर , प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक एवं डिग्री धारो का महापौर श्रीमती मीनल चौबे , महेंद्र अग्रवाल , सुरेश शुक्ला द्वारा सम्मानित किएय गया । सरयूपारीण ब्राम्हण सभा के अध्यक्ष डॉ सुरेश शुक्ला ने कहा की यह पहला अवसर हैं जब ब्राम्हण समाज के शिक्षिकों का सम्मान ब्राम्हण सभा के द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर समाज के प्रमुख रमाकांत शुक्ला, अवध बिहारी दुबे , आर.एल द्विवेदी, व्ही के मिश्रा, आदि के साथ 154 शिक्षक शिक्षक सम्मानित किए गए। इस अवसर पर मुख्य रूप से डी एस परोहा,रमाकांत शुक्ला, अवध विहारीदुबे ,राम मूरत तिवारी, कैलास तिवारी, आर एल द्विवेदी,राजेन्द्र शर्मा, व्ही के मिश्रा, शिव प्रसाद मिश्रा,प्रमोद शर्मा, उमाकांत तिवारी, संगमलाल त्रिपाठी,अभय तिवारी, के एन तिवारी,शिवम त्रिपाठी, उमाकांत पान्डेय,रमाकांत द्विवेदी बैजनाथ मिश्रा, अंकुश शुक्ला, राजीव मिश्रा, मित्रेशदुबे, प्रवीण चौबे, कुसुम त्रिपाठी, बृजेश त्रिपाठी, अपर्णा तिवारी, शशि मिश्रा, प्रमिला शुक्ला, मिनाक्षी त्रिपाठी, कुसुम शुक्ला, निशाकान्त त्रिपाठी, आदि उपस्थित थे।

आप पार्टी सह प्रभारी का छग प्रवास-व्यापक संगठनात्मक दौरा

◆ **सिंधु भवन में रायपुर लोकसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन सम्पन्न हुआ- विजय झा**

रायपुर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी मुकेश अहलावत विधायक, का छत्तीसगढ़ का व्यापक दौरा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कर्मचारी विंग के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार झा ने बताया कि वे जोन वार संगठनात्मक बैठक लेकर प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में चुनावी वादों व नरेंद्र मोदी के गारंटी के विरुद्ध किए जा रहे जन विरोधी कार्यों तथा शिक्षा स्वास्थ्य पानी बिजली की गिरते स्तर पर पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का विस्तृत मार्गदर्शन करेंगे। जिसमें प्रदेश में जारी एनएचएम आंदोलन के संबंध में भी समीक्षा करेंगे। श्री झा ने बताया है कि 11 सितंबर को बिलासपुर जांजगीर लोकसभा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की बैठक अकलतरा में सम्पन्न हुई, जिसमें हजारों की संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए। इसी कड़ी में 12 सितंबर को दुर्ग जोन में दुर्ग व राजनांदगांव लोकसभा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन संपन्न हुआ। आज 13 सितंबर को रायपुर जोन जिसमें रायपुर महासमुंद लोकसभा के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की प्रात: 11 शंकर नगर बीटीआई मैदान स्थित सिंधु भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक सम्पन्न हुई। आप पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू, महासचिव एवं प्रमुख प्रवक्ता सूरज उपाध्याय, उत्तम जायसवाल, तेजेंद्र तोड़ेकर, भानु प्रकाश चन्दा,नंदन सिंह, देवलाल नारेटी, दुर्गा झा व, एम एम हैदरी, परमानंद जांगडे,अजीम खान, इमरान खान, मनोज चक्रधारी, संतोष कुशवाहा, नवनीत नंदे, विजय गुरूबक्षानी, पुनारद निषाद, कलावती मार्को, शिव शर्मा, सागर क्षीरसागर, आर एस ठाकुर, नरेंद्र ठाकुर आदि के नेतृत्व में हजारों पदाधिकारियों ने सिंधु भवन में आयोजित साथी बैठका में शामिल हुए।

तेरापंथ युवक परिषद की रायपुर में मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव 17 को

◆ **रक्तदान के प्रति जागरुकता लाने रायपुर के 17 कलेक्शन सेंटरों तक जाएगी जागरुकता रैली**

रायपुर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। राजधानी रायपुर मेगा ब्लड डोनेशन का साक्षी बनने जा रहा है। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद 17 सितंबर को पूरे देश में मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव का आयोजन करेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ में 100 से अधिक सेंटर्स में रक्तदान किया जाएगा। रायपुर में 17 सेंटर्स रक्तदान के लिए बनाए गए हैं। 17 सितंबर को मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव के पहले तेरापंथ युवक परिषद रायपुर राजधानी रायपुर के सभी 17 कलेक्शन सेंटर्स तक जागरुकता रैली निकालेगी। उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद का नाम सर्वाधिक रक्त संग्रहण में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। एक बार फिर से नए कीर्तिमान रचने की तैयारी है। राजधानी रायपुर भी इस महा रक्तदान शिविरों का साक्षी बनेगा। इस नेक कार्य के प्रति जागरुकता फैलाने का भी विशेष प्रयास किया जाएगा। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य रक्त की कमी को दूर करना और जरूरतमंद मरीजों की मदद करना है। साथ ही रक्तदान के प्रति जागरुकता बढ़ाना है। पूरे समाज में इसका बढ़ चढ़कर सहयोग करने की सहमति दी है।

राज्य आंदोलनकारी हजारों के साथ 26 वां राज्योत्सव मनाएंगे

रायपुर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। ठाकुर प्यारेलाल सिंह मार्ग हांडीपारा स्थित छत्तीसगढ़ी भवन में आज दोपहर 02 बजे राज्य आंदोलनकारी छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी एवं छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा प्रदेश समिति की संयुक्त बैठक हुई! बैठक की अध्यक्षता छसपा अध्यक्ष किसान मोर्चा के संस्थापक इंजी. दाऊ जी.पी. चंद्राकर ने किया !बैठक में रायपुर, महासमुंद,दुर्ग, धमतरी, बेमेतरा,कवर्धा,बालोद, बलोदा बाजार,बिलासपुर जिला के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए! बैठक के मुख्य मुद्दों पर विस्तार से राज्य आंदोलनकारी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल दुबे ने विचार रखा जिसमें राज्य आंदोलनकरियों का 26 वां राज्योत्सव को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया !राज्योत्सव के एक मंच पर 1000 छत्तीसगढ़ी कलाकारों द्वारा कार्यक्रम पेश किया जाएगा !जिसके लिए प्रभारी टीम का गठन किया गया जिसमें जागेश्वर प्रसाद,चेतन देवांगन, लालाराम वर्मा, विमल ताम्रकार,वेगेंद्र सोनवेर,श्यामू राम सेन, अशोक कश्यप,जगदम्बिका साहू,राजपाल टंडन,छन्नू साहू,रोहित चंद्रवंशी अंकित साहू शामिल है!आयोजन समिति सभी कार्यक्रम के अध्यक्ष दीनदयाल वर्मा,जी.पी.चंद्राकर,अनिल दुबे बनाये गए हैँ! दूसरा मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के छत्तीसगढ़ आगमन पर किसान मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल से मिलने के लिए डी एम महासमुंद और डी एम रायपुर के माध्यम से अनुमति हेतु आवेदन दिया गया है! राज्य आंदोलनकरियों का मुख्य केंद्र राज्य आंदोलनकारी स्थल छत्तीसगढ़ी भवन के मुख्य द्वार पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया ! बैठक का संचालन जागेश्वर प्रसाद ने किया !

साहित्य का अनोखा संगम 'हिंद युग्म उत्सव' का चौथा संस्करण रायपुर में

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। साहित्य प्रेमियों के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक बड़ा तोहफा आने वाला है। देश का एकमात्र घुमंतू साहित्य समारोह 'हिंद युग्म उत्सव 2025' का चौथा संस्करण 20 और 21 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। यह उत्सव पहली बार रायपुर पहुंच रहा है, जहां देशभर से करीब 100 लेखक, कवि और कलाकार जुटेंगे। समारोह का केंद्र रहेगा प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल, जिनकी कविताओं पर नाट्य प्रस्तुतियां और एक विशेष डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। इस दो दिवसीय आयोजन में कविताओं, कहानियों, संगीत और कला का बेहतरीन मेल होगा। साहित्यिक चर्चाएं, लेखकों से मुलाकात, सिनेमा विशेषज्ञों के सत्र, हिंदवी का 'कैंपस कविता' कार्यक्रम, ओपन माइक सेशन जहां 200 नई प्रतिभाएं अपनी कला दिखाएंगी। संगीतमय शामें, स्टैंड-अप कॉमेडी, बच्चों-बड़ों के लिए टेराकोटा-पेंटिंग वर्कशॉप, किताबों की प्रदर्शनी-बिक्री, एआई पर विशेष सत्र, नई किताबों का विमोचन और स्टोरीटेलिंग जैसे कई आकर्षण होंगे। गौरतलब है कि हिंद युग्म उत्सव हर साल अलग शहर में होता है जो लेखकों, विचारकों, कलाकारों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को एक मंच देता है। इससे पहले बाड़मेर, वाराणसी और भोपाल में इसके संस्करण सफल रहे। रायपुर संस्करण साहित्य-कला के उत्सव को और समृद्ध करेगा जहां किताबों का जश्न मनाया जाएगा।

सृष्टि सेवा का संकल्प ईंधन का हो कम उपयोग

रायपुर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। सृष्टि सेवा संकल्प, रायपुर इकाई के कार्यकर्ताओं को राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक ने समिति को प्रशिक्षण देने हेतु आर. के. पाटले, अनुसंधान सहायक एवं डॉ. संगीता श्रीवास्तव, बॉटनिस्ट वन औषधि पादप बोर्ड द्वारा हमें प्रशिक्षण प्राप्त हुआ प्रशिक्षण में महेश देवांगन भी सहयोगी रहे विभाग की डॉ. संगीता श्रीवास्तव एवं आर.के. पाटले ने प्रशिक्षण दिया। सृष्टि सेवा संकल्प एक संस्था है जो प्राकृतिक रूप से निर्मित सृष्टि के संधारण हेतु अपनी ओर से अनेकों प्रयास कर रही है जिसमें वृक्षारोपण एवं उनका संरक्षण भी एक भाग है। संस्था की नीमा गुप्ता ने वन विभाग से वृक्षों के सम्बन्ध में शिक्षित करने हेतु निवेदन किया था जिस संबंध में कार्यवाही की गई। सृष्टि सेवा संकल्प प्लास्टिक का उपयोग ना करने, आस पास में स्वच्छता, ईंधन का काम उपयोग, इत्यादि हेतु प्रयास कर रही है। संस्थान अनेकों विद्यालयों में सम्पर्क कर विद्यार्थियों के मन में सृष्टि के संरक्षण हेतु भाव उत्पन्न करना चाह रही है क्योंकि वे ही देश के भविष्य हैं। इस संबंध में उनका मानना है कि वे यह कार्य तब कर पाएंगे जब वे प्रशिक्षित हों जो लेने को वे तैयार हैं। वन विभाग ने संस्था को आश्वासन दिया है कि वह उन्हें एवं विद्यार्थियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित करने को तत्पर है। इस प्रशिक्षण में नीमा गुप्ता, यशेंद्र गुप्ता, ममता मांडवी, श्रीमती बालिका साहू, दीपाली निगम, जय कुमार गायकवाड़, नितिन सचदेवा, अभिमन्यु, शेखर इत्यादि शामिल रहे।

धारदार चाकू के साथ युवक पकड़ाया

***रायपुर**, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। उरला पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति धारदार चाकू रखा है एएवं लहराकर लोगों को आतंकित कर रहा है सुचना पर पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही किया गया जिसमें आरोपी शनि ध्रुव पिता झावेन्द्र ध्रुव उम्र 21 साल साकिन स्वास्थ्य केन्द्र के पास अछोली थाना उरला थाना उरला जिला रायपुर के कब्जे से 01 नग लोहे का धारदार चाकु घेराबंदी कर पकड़कर जप्ती की गई ए आरोपी के विरूद्व धारा 25 27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।*

हिंदी दिवस पर अमन का पैग़ाम द्वारा विशेष सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम

रायपुर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। हिंदी दिवस के अवसर पर अमन का पैग़ाम के तत्वावधान में रायपुर स्थित मरीन ड्राइव पर एक विशेष सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन 14 सितम्बर को शाम 7 बजे किया जाएगा। इस अवसर पर हिंदी भाषा की महत्ता, उसकी क़ौमी भूमिका तथा सामाजिक सौहार्द और भाईचारे में उसके योगदान पर विचार-विमर्श एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होंगी। आयोजकों का कहना है कि यह कार्यक्रम समाज में यह संदेश देने का प्रयास है कि 'हिंदी हमारी क़ौमी ज़ुबान है ङ्क क़ौमी एकता और भाईचारे का आधार।' कार्यक्रम का उद्देश्य यह उजागर करना है कि भाषाएँ केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने और आपसी मोहब्बत व एकजुटता को मज़बूत करने का माध्यम हैं। हिंदी, हमारी साझा संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। कार्यक्रम विवरण- स्थान- मरीन ड्राइव, रायपुर, तारीख़- 14 सितम्बर, समय-:शाम 6.30

गाइड ज्ञानेश्वारी साहू ,खुशी जायसवाल, रोवर दानेश्वर साहू ,वासुदेव रेजर रूचिता बोस मेघा मिश्रा को राष्ट्रपति पुरस्कार

रायपुर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। रायपुर के होनहार गाइड ज्ञानेश्वरी साहू ए खुशी जायसवाल और रोवर दानेश्वर साहू वासुदेव रेंजर रुचिता बोसए मेघा मिश्रा को राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त होने पर यह सम्मान केवल आपका ही नहीं बल्कि पूरे रायपुर जिले और छत्तीसगढ़ का गौरव है । दिल्ली के भारत मंडपम में यह ऐतिहासिक पल हम सभी के लिए गर्व का क्षण बना। आपकी इस उपलब्धि ने स्काउट गाइड परिवार को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है । साथ ही रोवर लीडर दिलीप पटेलए रेंजर लीडर गाइड कैप्टन अनीता सरकार मार्गदर्शक को भी ढेर सारी शुभकामनाएँ । आपका अथक परिश्रम और प्रेरणा हम सबके लिए मिसाल है। यह सफलता सिर्फएक पुरस्कार नहींए बल्कि रायपुर की पहचान और छत्तीसगढ़ का गौरव है।

सौर ऊर्जा पहले सभी सरकारी दफ्तरों में लगाए जाएं: कांग्रेस

◆ **मुफ्त बिजली का दावा हवा हवाई जनता दोगुना बिजली बिल से परेशान**

रायपुर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। बिजली बिल हाफ योजना पुन: शुरू करने की मांग करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की सरकार ने सोलर पैनल बनाने वाले अपने पूंजीपति मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए बिजली बिल हाफ योजना को बंद किया है जिसका परिणाम इस माह हर घर में दोगुना बिजली बिल आया है जिसके चलते गृहस्थ जीवन में खर्च बढ़ गया है आम लोगों का घरेलू बजट बिगड़ गया है। जनता वैसे ही महंगाई से परेशान है उस पर बिजली बिल हाफ योजना बंद करना कुठाराघात साबित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है बिजली बिल हाफ योजना पुन: शुरू की जाए ताकि जनता को महंगी बिजली बिल से राहत मिल सके। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार मुफ्त बिजली का दावा कर रही है वह सिर्फ हवा हवाई है धरातल में उतरने में उन्हें सालों लग जाएंगे। इससे आम जनता को कोई लाभ नही होगा। सरकार सौर ऊर्जा को जो प्रमोट कर रही है आम जनता के ऊपर जबरिया थोपने का प्रयास कर रही है यह उचित नहीं है सौर ऊर्जा को सरकार पहले अपने सभी सरकारी संस्थानों मे लगाये मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के दफतरों और बंगलो की बिजली सप्लाई तत्काल बंद करें और वहां सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन कर अतिरिक्त बिजली को आम लोगों के लिए बिजली विभाग के माध्यम से दे। वैसे भी सरकारी विभागों के द्वारा बिजली कंपनी को करोड़ों रुपए का बिल देना होता है जो सरकारी खजाने से जाता है बिजली कंपनी का करोड़ों रुपए का बिल का बकाया आज भी सरकारी विभाग भुगतान नहीं कर रहे हैं बिजली कंपनी को भी नुकसान हो रहा है सरकारी खजाने को भी नुकसान हो रहा है। श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ़ की सुविधा दिया था। जिसके कारण हर घर में 40 से 50हजार रु की बचत होती थी। अब योजना बंद होने से अब हर घर के ऊपर 1000रु से लेकर 2000 रु तक की अतिरिक्त बिजली खर्च बढ़ गया है। बिजली का बिल परेशान करने वाला है सरकार का योजना बंद करने का फैसला आम जनता के लिए घातक साबित हो रहा है।

प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप्प गृहमंत्री इस्तीफा दें : विकास

रायपुर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप्प हो चुकी है।प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से आपराधिक ग्राफ अत्यधिक बढ़ गए हैं। लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार और गृहमंत्री विजय शर्मा को जनता की तनिक भी चिंता नहीं है।अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। राजधानी रायपुर के रिहायशी क्षेत्र में हुई घटनाओ से आम लोगों में भय का माहौल निर्मित हो रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ा है। बलात्कार ही नहीं हत्या, लूट, अपहरण जैसे अपराधों के मामलों में भी रायपुर प्रदेश में सबसे आगे है। आंकड़ों के मुताबिक दुष्कर्म के मामले में रायपुर पहले पायदान पर है, जबकि बिलासपुर दूसरे और कोरबा तीसरे नंबर पर है। इन झकझोर देने वाले आंकड़ों का खुलासा राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्वयं विधानसभा सत्र के दौरान किया है। उपाध्याय ने सोशल न्यूज़ के आंकड़ों के अनुसार बताया कि प्रदेश की राजधानी रायपुर डकैती को छोड़कर हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार के मामलों में भी सबसे आगे है। यहाँ पिछले एक साल में हत्या के 93, लूट के 80, अपहरण के 515, चोरी के 1645, डकैती के 9 और बलात्कार के 268 केस दर्ज किए गए हैं। 2024 में 247 और इस साल यानी 2025 में अब तक 21 मामले रेप के सामने आए हैं। इन सब आंकड़ों में बलात्कार के आंकड़े सबसे ज्यादा चौकाने वाले हैं। प्रदेश में एक साल के भीतर बलात्कार के कुल 3191 केस दर्ज किए गए हैं। इस हिसाब से रोज प्रदेश में 8 से 9 महिलाएं हवस का शिकार बन रही हैं। इस तरह से छत्तीसगढ़ में हर 3 घंटे में एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना हो रही है। उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार जनता को सुरक्षा मुहैया कराने में पूरी तरह फेल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार अपराधों को छिपाने और राजनीतिक हित साधने में व्यस्त हैं। जतना की सुरक्षा की जिम्मेदारी ट्रिपल इंजन सरकार की है ।और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केन्द्र सरकार की नाकामी भी लगातार सामने आ रही है।प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप्प हो चुकी है, जिसे प्रदेश के मुख्यमंत्री साय और गृहमंत्री विजय शर्मा अनदेखा कर रहे हैं।इसलिए गृहमंत्री विजय शर्मा अपने पद से तत्काल इस्तीफा दें।

रायपुर में गैंगवार, 5 युवक गिरफ्तार

जहां मचाई थी दहशत, पुलिस ने हथकड़ी पहनाकर वहीं निकाला जुलूस

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। राजधानी रायपुर में डीडी नगर थाना क्षेत्र में हुई गैंगवार के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार 11 सितंबर को हुए इस विवाद में दो गुटों के बीच खुलेआम लाठी.डंडे और पत्थरों से हमला किया गया था। इतना ही नहीं एक पक्ष द्वारा दूसरे पर कार चढ़ाने का प्रयास भी किया गया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआए जिसके बाद पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया। शनिवार को पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों वैभव रागी ओम दुबे शुभम मिश्रा आयुष अग्रवाल और ऋषभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला। आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर न केवल साक्ष्य संकलित किए गए बल्कि कानून.व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश देने

के लिए उन्हें जनता के सामने घुमाया गया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से कानून हमारा बाप है अपराध करना पाप है जैसे नारे भी लगवाए। सड़क पर यह नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सीएसपी राजेश देवांगन ने बताया कि बीते दिनों डीडी नगर इलाके में इन आरोपियों ने बीच सड़क पर जमकर उपद्रव किया था। लाठी.डंडों और पथराव के जरिए आमजन का चैन और सुरक्षा भंग की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर पहचान कर इन पांचों को गिरफ्तार किया है। देवांगन ने साफकहा कि रायपुर पुलिस अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शेगी नहीं। कानून से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफकड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

गौरतलब है कि इस गैंगवार की पूरी घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीए जिसमें दोनों पक्षों को बेकाबू होकर हिंसा करते और एक वाहन से हमला करने का प्रयास करते साफदेखा जा सकता था। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की थी और अब आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्ती से पेश किया गया है।

पुलिसकर्मी के साथ मारपीट, 4 गिरफ्तार

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। राजधानी में पुलिस ने पुलिसकर्मी के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने आरोपी युवको हिरासत में ले लिया है बताया गया कि11 सितबर की रात थाना न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत अमलीडीह शराब भट्ठी के पास सेंट

जोसेफकालोनी रोड में कुछ शरारती लोगों द्वारा शराब पीकर हुल्लड़बाजी किया जा रहा था कि सूचना पर थाना न्यू राजेन्द्र नगर के डॉयल 112 वाहन में कार्यरत पुलिसकर्मी द्वारा उक्त स्थान पर जाकर उनको समझाईश देने के दौरान कुछ लड़के शराब के नशे में पुलिसकर्मी से वाद विवाद कर उसे अश्लील गाली गलौच करते हुये पुलिस वाले जबरदस्ती परेशान करते हो हम लोगों को नहीं जानते कहते हुए अपना नाम अरूण चौहान राजेश यादव राहुल दीवान एवं रविन्द्र भगत बताये और पुलिसकर्मी को जान से मारने की धमकी देकर अपने पास रखें कटर को दिखाकर उसके साथ हाथ मुक्का एवं हाथ में पहने हुए कड़ा से मारपीट किये जिससे उसे चोट आयी तथा उसके वर्दी को भी फाड़ दिये कि पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में धारा 121, 132, 221, 296, 351; 2, 115;2, 3;5, बी.एन.एस का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी न्यू राजेन्द्र नगर के नेतृत्व में थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की टीम द्वारा आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में आरोपी अरूण कुमार चौहान राजेश यादव उर्फछोट राहुल दीवान उर्फरामू एवं रविन्द्र कुमार भगत को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

वाहन दुर्घटना में विवाद को लेकर जानेलवा हमला, 2 आरोपी हिरासत में

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। वाहन दुर्घटना को लेकर हुए विवाद के बाद जानलेवा हमलें के मामले में पुलिस ने आरोपी युवकों को पकड़ लिया है एक अन्य आरोपी फरार है जिसके तलाश में पुलिस जुटी हुई है बताया गया कि प्रार्थी सुजीत सिंह ने थाना न्यू राजेन्द्र नगर में रिपोर्ट

दर्ज कराया कि वह श्याम नगर तेलीबांधा का निवासी है। वह 16 अगस्त की रात को लगभग 08:25 बजे प्रार्थी की बहन से उसे फोन कर बताया कि उसका बेटा अस्वीन सिंह ने उसे फोन कर बताया कि वह अपनी इलेक्ट्रानिक ओला स्कूटी में टैगोर नगर जा रहा था। महावीर नगर चौक न्यू राजेन्द्र नगर सिग्नल क्रॉस कर रहा था उसी समय श्याम नगर तेलीबांधा तरफसे आ रहे एक्टीवा वाहन का चालक रंजीत सिंग निवासी महावीर नगर रायपुर के द्वारा रेड सिग्नल में लापरवाही पूर्वक अपनी वाहन को चलाते हुये अस्वीन के वाहन को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर अस्वीन सिंह के साथ मारपीट कर उसके वाहन को पटक कर क्षतिग्रस्त कर दिये तथा रंजीत सिंग एवं उसके साथी अस्वीन सिंह के साथ लडाई झगड़ा कर विवाद कर रहे है। जिस पर प्रार्थी द्वारा मौके पर पहुंचकर रंजीत सिंग एवं उसके साथियों से घटना के संबंध में पूछने पर रंजीत सिंग एवं उसके अन्य साथी प्रार्थी को अश्लील गाली गलौच देने लगे गाली देने मना करने पर रंजीत सिंग और उसके अन्य साथियों ने प्रार्थी को जान मारने की धमकी देकर आज तुझे खत्म कर देगे कहते हुये हाथ मुक्का और डंडा से मारपीट करने लगे तथा रंजीत सिंग अपने पास रखें चाकू से प्रार्थी की हत्या करने की नियत से उस पर चाकू से वार कर प्राण घातक हमला कर चोट पहुंचाया। उसी समय प्रार्थी के पिता सुभाष सिंह द्वारा पहुंच कर बीच.बचाव करने के दौरान रंजीत सिंग एवं उसके अन्य साथियों ने प्रार्थी के पिता के साथ भी डण्डे से मारपीट किया कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना न्यू राजेन्द्र नगर में आरोपियों के विरूद्ध धारा 281, 296, 351;2, 115;2, 109,3;5, बी एन एस का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना व आरोपियों के संबंध में प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता सहित आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ कर आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपियों के छिपने के हर संभावित स्थानों में लगातार रेड कार्यवाही कर प्रकरण में संलिप्त आरोपी रविंदर सिंह एवं हरकीरत सिंह को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध कार्यवाही किया गया। प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी फरार है जिनकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है।

न्यूड पार्टी विवाद, पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। राजधानी रायपुर में सोशल मीडिया पर वायरल हुए विवादित न्यूड पार्टी पोस्टर ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है। इस पोस्टर में पार्टी में लड़के.लड़कियों को शराब लेकर आने और अश्लील गतिविधियों में शामिल होने का खुला आमंत्रण दिया गया था। अब इस मामले में पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है।

एसएसपी कार्यालय पहुंचे युवक हिरासत में लिए गए: जानकारी के मुताबिकए इस मामले से जुड़े दो युवक आज अपनी सफाई देने रायपुर एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। फिलहाल दोनों से क्राइम ब्रांच ऑफिस में गहन पूछताछ की जा रही है।

कांग्रेस ने किया कड़ा विरोध: पोस्टर वायरल होने के बाद से ही राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने इसे लेकर खुलकर विरोध जताया है। उनका कहना है कि रायपुर जैसे सांस्कृतिक और शांत शहर में इस प्रकार की अश्लील पार्टियों को किसी भी हाल में होने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस ने सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि ऐसे आयोजनों को तुरंत रोका जाए और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

अलग–अलग नामों से प्रचारित हुआ पोस्टर: मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर एट द रेट साइन फूल वाइठर नामक अकाउंट से न्यूड पार्टी का आपत्तिजनक विज्ञापन जारी किया गया है।

इन पोस्टरों में पार्टी का प्रचार अलग.अलग नामों से किया गया है। इनमें न्यूड पार्टी और स्ट्रेंजर हाउस पार्टी शामिल हैं।

क्राइम ब्रांच कर रही पूछताछ

स्ट्रेंजर हाउस पार्टी की तारीख 21 सितंबर बताई गई है और उसमें प्रतिभागियों से खुद की शराब लाने के लिए कहा गया है। हालांकि पार्टी का स्थान और आयोजकों के नाम अब तक सामने नहीं आए हैं।

गृहमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने दी प्रतिक्रिया: मामले पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि हमारा देश संतों और परंपराओं का देश है। गंगा.यमुना जैसी पवित्र नदियों की धरती पर इस तरह के आयोजन पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। वहींए गृहमंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि यदि कोई इस तरह का आयोजन करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस की जांच जारी: एसएसपी लाल उमेद सिंह ने पहले ही साफकर दिया था कि रायपुर पुलिस ऐसे आयोजनों की अनुमति किसी भी हाल में नहीं देगी। अब दो युवकों की गिरफ्तारी के बाद जांच और भी तेज हो गई है। क्राइम ब्रांच की टीम वायरल पोस्टर से जुड़े सभी डिजिटल अकाउंट्स की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी और जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी।

लोगों में खलबली, सोशल मीडिया पर चर्चा: वायरल पोस्टर के बाद रायपुर शहर में तरह.तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें पुलिस की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैंए जिससे साफहो सकेगा कि यह वास्तव में किसी अश्लील पार्टी का आयोजन था या केवल सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने की कोशिश।

हाइपर क्लब में किया गया था न्यूड पार्टियों का प्रमोशन

राजधानी में सोशल मीडिया पर वायरल हुए विवादित न्यूड पार्टी और स्ट्रेंजर हाउस पार्टी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हाल ही में सामने आए वीडियो में देखा गया किहाईपर क्लब में इन पार्टियों का प्रमोशन किया जा रहा था। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस सक्रिय हो गई और क्लब संचालक जेम्स बेक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। एसएसपी डॉ लाल उमेद सिंह खुद इस मामले की जांच कर रहे हैं। जेम्स बेक से पूछताछ के दौरान यह जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि क्लब में इन पार्टियों का आयोजन किस हद तक किया जा रहा था और किन लोगों का इसमें सहयोग था। पुलिस का कहना है कि अगर जांच में क्लब संचालक की भूमिका साबित होती है तो उन पर गिरफ्तारी भी हो सकती है।

पुलिस ने क्लब संचालक को हिरासत में लिया

19 साल बाद मिला न्याय

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महासमुंद जिले के एक युवक 2005 में दर्ज दुष्कर्म और धमकी के मामले में सुनाई गई सजा से बरी कर दिया न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की एकलपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपित की दोषसिद्धि को संदेह से परे सिद्ध नहीं कर सका इसलिए उसे संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

कोर्ट ने पाया कि पीड़िता की गवाही में गंभीर विरोधाभास हैं एफआईआर में कई बार दुष्कर्म का आरोप थे जबकि अदालत में केवल एक घटना का उल्लेख है मेडिकल रिपोर्ट में न तो गर्भपात के निशान मिले और न ऐसा प्रमाण कि गर्भधारण कथित कृत्य का परिणाम था रिपोर्ट सात महीने देर से दर्ज हुई और इसका कोई संतोषजनक कारण नहीं दिया गया आरोपित और पीड़िता के पिता के बीच पुरानी दुश्मनी भी सामने आई इन्हें देखते हुए अदालत ने कहा कि संदेह का लाभ आरोपित को मिलना चाहिए पुलिस रिकार्ड के अनुसा बसना थानाक्षेत्र की 18 वर्षीय युवती जो बचपन से दोनों पैरों से पोलियो पीड़ित है अपने घर में अकेली थी जनवरी 2005 से लगभग छह महीने पहले करिया उर्फमालसिंह बिझवार उसके घर में

- **ट्रायल कोर्ट ने दुष्कर्म में मामले में दी थी सजा, हाईकोर्ट ने किया बरी**
- **कोर्ट ने पाया, पीड़िता की गवाही में विरोधाभास**

घुसा और उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकाया कि किसी को बताने पर जान से मार देगा युवती ने आरोप लगाया कि इसके बाद जब भी वह अकेली होती आरोपित बार.बार जबरन यौन शोषण करता रहा जिससे वह गर्भवती हो गइ घटना के लगभग सात महीने बाद 10 जनवरी 2005 को पीड़िता ने अपने पिता को जानकारी दी और फिर लिखित शिकायत पुलिस स्टेशन बसना में दर्ज कराई

कोर्ट ने दिया यह निर्णय

आरोपित युवक करिया उर्फमाल सिंह को धारा 376 और 506.बी दोनों आरोपों से बरी किया गया उसकी जमानत की शर्तें भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 481 के तहत छह महीने तक प्रभावी रहेंगी ट्रायल कोर्ट का 9 सितम्बर 2005 का दोषसिद्धि आदेश निरस्त कर दिया गया

ट्रायल कोर्ट का यह था फैसला

डॉक्टर ने जांच में पीड़िता को करीब 20 सप्ताह लगभग 5 महीन का गर्भवती पाया आरोपित की भी मेडिकल जांच हुई और उसे यौन संबंध बनाने में सक्षम बताया गया प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महासमुंद ने 9 सितम्बर 2005 को आरोपित युवक करिया को धारा 376 ;दुष्कर्म में 7 साल सश्रम कारावास और 500 रुपये जुर्माना और धारा 506.बी में 3 साल सजा सुनाई।

दुकान मे घुसकर लैपटाप की चोरी, युवक पकड़ाया

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। राजधानी में बिरगांव में एक दुकान से हुए लैपटाप चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है बताया गया किप्रार्थी बेनी राम सेन पिता स्व मनराखन सेन उम्र 53 साल का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका बीरगांव बजरंग नगर नाला के पास गणेश मंदिर के बाजू में चाय दुकान है एवं बगल में ही लडका रवि



सेन च्वाईस सेंटर चलाता है। दोनो का काउंटर एक साथ लगा हुआ है। रोज की तरह 11 सितबर की शाम करीबन 04 बजे यह अपने चाय दुकान में था और इसका लडका खाना खाने घर गया था उसी समय दो अज्ञात लडके अपने स्कूटी जैसा वाहन में इसके दुकान में आये और एक लडका इससे चाय मांगे जिसे यह चाय दिया जिसमें से एक लडका पैसा देने के लिए दुकान के अंदर आया और दूसरा लडका इसके दुकान के सामने जहां बार कोर्ड लगा था वही खडा था। तब बाहर खडे लडका ने फोन पे मार दूं क्या बोलकर इसे बातो में उलझा दिया और इसी दौरान जो लडका इसके दुकान अंदर आया था वह च्वाईस सेंटर के काउन्टर में रखे लेपटाप किमती करीबन 20,000 रू को चोरी कर लिया जिसे ले जाते देखा तो उसे पकडने की कोशिश भी किया लेकिन दोनो लडके इसके लेपटाप को लेकर अपने वाहन में बैठकर भाग गये। कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अज्ञात आरोपी का पता तलाश दौरान दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक किया गया एतकनीकी साक्ष्य के आधार पर संदेही सददाम अहमद को थाना लाया गया पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार कर अपने दोस्त बॉबी सिंह के साथ घटना घटित करना स्वीकार किया एवं चोरी गये लेपटाप को अपने घर मौदाहापारा में छुपाकर रखना बताया जिससे आरोपी द्वारा घर से एक नग लेपटाप जप्त किया। आरोपी सददाम अहमद को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।

साइंस कॉलेज मैदान में मिली युवक की लाश

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शनिवार सुबह युवक की लाश मिली ह घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची ह मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले है घटना सरस्वती थाना क्षेत्र की है

मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम: जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह साइंस कॉलेज मैदान में अज्ञात युवक की लाश मिली ह आशंका जताई जा रही है कि मृतक की उम्र 30 से 35 साल होगी स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम मौके पर पहुंची मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है मामले की जांच जारी है

पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में आपस में भिड़े हवलदार

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। तलाक के मामले में पेशी के लिए पहुंचे प्रधान आरक्षकों के बीच विवाद हो गया इसे देख जज ने दोनों को कोर्ट से बाहर कर दिया बाहर निकलते ही पुलिसकर्मी एक दूसरे की कॉलर पकड़कर पिटाई शुरू कर दी मारपीट के बाद दोनों ने घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में की है इस पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

पुलिस लाइन में पदस्थ अरुण कमलवंशी 40वर्ष के मुताबिक शुक्रवार को उनके तलाक का मामला कोर्ट में लगा था इसकी सुनवाई के लिए कोर्ट में पहुंचे थे तभी उन्हें पता चला कि प्रधान आरक्षक संजय जोशी ने अपने मामले में उन्हें पक्षकार बनाया है उसने सरोज जोशी के मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर जज के सामने ही विवाद शुरू कर दिया इस पर जज ने दोनों को कोर्ट से बाहर कर दिया बाहर निकलते ही संजय ने अरुण का कालर पकड़कर मारपीट शुरू कर दी इस दौरान वहां पर मौजूद दुलाल मुखर्जी ने मारपीट का वीडियो बनाना शुरू कर दिया इसका विरोध करने पर दुलाल ने भी अरुण को जान से मारने की धमकी दी विवाद के बीच पहुंची पुलिस उन्हें पकड़कर थाने ले आई थाना परिसर में संजय जोशी की मां सावित्री लहरे बहन रजनी आवले अंकिता मुखर्जी ने गाली. गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी इधर प्रधान आरक्षक संजय जोशी ;38 ने भी मारपीट की शिकायत की है उसने पुलिस को बताया कि शुक्रवार दोपहर वह अपने तलाक के प्रकरण में पेशी के लिए कुटुंब न्यायालय पहुंचा था मामले में प्रतिवादी के रूप में अरुण कमलवंशी भी पेश हुआ उसने केस में अपना नाम लिखाने पर आपत्ति करते हुए जज के सामने ही गाली.गलौज शुरू कर दी इसे देख जज ने उन्हें बाहर निकाल दियाए कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही अरुण ने संजय की पिटाई शुरू कर दी बाहर वीडियो बना रहे दुलाल मुखर्जी को भी जान से मारने की धमकी दी दोनों पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

एक–दूसरे के साथ

दोपहिया की चोरी करने वाला युवक पकड़ाया

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। राजधानी में पुलिस ने दोपहिया चोरी के मामले में आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है बताया गया कि प्रार्थी रोहित लहरी ने थाना विधानसभा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह 11 सितबर को अपनी एच एफ डीलक्स मोटर सायकल वाहन क्रमांक सी जी 22 9104 को विधानसभा क्षेत्रांतर्गत आमासिवनी स्थित शराब दुकान पास खडी किया था थोड़ी देर बाद वापस आकर देखा तो उसकी उक्त वाहन खड़ी किये गये स्थान पर नहीं था। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी की

खड़ी मोटर सायकल को चोरी कर ले गया था कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना विधानसभा में धारा 303;2 बी.एन.एस का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना विधानसभा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रकरण में आरोपी ईश्वर यादव को पकड़कर घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा वाहन चोरी की उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। जिस पर आरोपी ईश्वर यादव को गिरफ्तार के उसके कब्जे से चोरी की एच एफडीलक्स मोटर सायकल वाहन क्रमांक सी जी 22,9104 कीमती लगभग 50,000 रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

एक्टिवा में आए बदमाश, राह चलती महिला का पर्स छीनकर हुए फरार

रायपुर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। राजधानी रायपुर में बदमाशों के हौंसले बुलंद है गुढ़ियारी इलाके में लूट की वारदात सामने आई है स्कूटी बदमाशों ने फोन पर बात करते हुए जा रही महिला को निशाना बनाया और उसका पर्स छीनकर फरार हो गए शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है जानकारी के मुताबिक सड़क पर महिला फोन पर बात करते हुए जा रही थी इसी दौरान

घटना सीसीटीवी में कैद

पीछे की तरफसे स्कूटी सवार बदमाश आए और महिला के बाएं हाथ में रखे पर्स को छीननकर फरार हो गए घटना के बाद महिला ने गुड़ियारी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है गुढ़ियारी थाना प्रभारी ने घटना को लेकर जानकारी दी कि मामले में शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है पुलिस लोगों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है घटना में 3 बदमाश शामिल है सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

उल्टा पुल्टा

बंता - तुम खाली पेट होने पर कितने केले खा सकते हो...?
संता (कुछ पल सोचकर कहा) - मैं 6 केले खा सकता हूं।
बंता ने हंसते हुए जवाब दिया - गलत जवाब दोस्त,पहला केला खा लेने के बाद तुम्हारा पेट खाली कहां रहेगा...?
इसलिए खाली पेट होने पर तुम केवल एक ही केला खा सकते हो।

शास्त्र के साथ शस्त्र का ज्ञान भी जरूरी : यादव

■ छग बजरंग दल ने शुरू की विजयादशमी की तैयारियां

दुर्ग, 13 सितंबर (देशबन्धु)। छत्तीसगढ़ बजरंग दल की बैठक में आगामी विजयादशमी उत्सव एवं शस्त्र पूजन के तैयारियों के साथ-साथ त्रिशूल दीक्षा और शौर्य प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर व्यापक चर्चा की गई।

इस अवसर पर बजरंग दल के प्रांत संयोजक रतन यादव ने कहा कि शास्त्र के साथ शस्त्र का ज्ञान भी जरूरी है। श्री यादव ने त्रिशूल दीक्षा, शस्त्र पूजन एवं शोभायात्रा की तैयारियों की जानकारी दी ।

प्रांत अध्यक्ष गौतम जैन ने आश्वस्त किया कि संगठन की हर आवश्यकता और सनातन सेवा के लिए वे सदैव समर्पित रहेंगे। प्रांत सह मंत्री विकास ठाकुर, प्रांत उपाध्यक्ष चंदन राजपूत ने भी संबोधित किया।

विधिक सलाहकार ज्ञानेश दुबे ने संविधान की मर्यादा और सम्मान बनाए रखते हुए कार्य करने की सलाह दी। इस अवसर पर संगठन विस्तार के अंतर्गत प्रांत संयोजक रतन यादव ने पदोन्नति एवं नई नियुक्तियों की घोषणा की। जिनमें रवि निगम प्रांत सह संयोजक, अजय सेन विभाग सह संयोजक, अपूर्व सिंह विभाग सह मंत्री, इंद्रजीत गोस्वामी जिला मंत्री,जनार्दन पांडे जिला सत्संग प्रमुख, हंसराज देशमुख जिला सह मंत्री, अनिल सोनी जिला अखाड़ा प्रमुख, यश यादव शहर अखाड़ा प्रमुख, जय महेश शहर अध्यक्ष दुर्ग, जाएं चंद शहर उपाध्यक्ष, पुकेश्वर निषाद जिला सुरक्षा प्रमुख, मनोज साहू सह सुरक्षा प्रमुख, मोती साहू खंड अध्यक्ष करहीडीह, विक्रम सिंह खंड उपाध्यक्ष, धानु धनकर नदकट्टी खंड अध्यक्ष, अंकित झा भिलाई शहर उपाध्यक्ष, मोनू कामठी शहर उपाध्यक्ष, गोलू गुप्ता कैंप प्रखंड अध्यक्ष बैठक को संगठन प्रभारी ईश्वर गुप्ता ने भी संबोधित किया।

नवरात्रि के पहले शहर की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था चुस्त दुरूस्त कर ली जाये : महापौर

महापौर ने ली जल विभाग के अधिकारियों की बैठक

दुर्ग, 13 सितंबर (देशबन्धु)। शहर के नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वार्डो में लिकेज व तकनीकी खराबी के चलते हो रहे जल संकट को लेकर आज नगर निगम की महापौर अल्का बाघमार ने आयुक्त सुमित अग्रवाल के साथ जलगृह विभाग के सभी अधिकारियो की समीक्षा बैठक लेकर फिल्टर प्लांट से लेकर टंकी व सप्लाई तक सभी खामियों को ठीक कर नवरात्रि से पहले पेयजल व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए है

बैठक में निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल जल विभाग प्रभारी लीना दिनेश देवांगन कार्यपालन अभियंता आरके जैन सहायक अभियंता गिरीश दीवान उप अभियंता विनोद मांझी जल निरीक्षक नारायण ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में महापौर अलका बाघमार ने एक-एक कर पानी की समस्या की जानकारी लेकर अधिकारियों को फिल्टर प्लांट में फिटकीरी एलम का पर्याप्त स्टॉक रखने के साथ-साथ पानी शुद्धता पर विशेष ध्यान देने कहा शहर के कई वार्डो में पाईप लाईन फूटने व वाल लिकेज के चलते लो प्रेशर पर सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जितने भी स्थानों पर लिकेज की शिकायत है उन्हे सूचीबद्ध कर प्राथमिकता से ठीक किया जाए।

महापौर अलका बाघमार ने इंटकवेल व फिल्टर प्लांट में मोटर की वस्तुस्थिति की भी जानकारी ली तथा खराब हो रहे मोटर को गुणवत्ता के साथ ठीक करने कहा । उन्होंने बघेरा में किए जा रहे मरम्मत कार्य के अलावा बोरसी, पोटिया टंकी जैसे क्षेत्रों में लिकेज बनाने मिशन मोड पर करने कहा है।

इसके अलावा जलगृह प्रभारी लीना दिनेश देवांगन द्वारा शहर के कई वार्डो में लो प्रेशर की एक मुख्य वजह नया के साथ साथ पुराना व डबल लाईन चालू रहने की जानकारी देने पर महापौर ने उसे चिन्हाकित कर प्राथमिकता से विच्छेद करने विस्तृत प्लान बनाकर कार्य करने कहा ताकि उंचाई क्षेत्र में भी प्रेशर के शेष पृष्ठ 9 पर

उद्यानों के रख रखाव के लिये 20 लाख स्वीकृत रखे जायेगें प्लेसमेंट में 20 कर्मचारी

पर्यावरण एवं उद्यानिकी समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

दुर्ग, 13 सितंबर (देशबन्धु)। नगर निगम पर्यावरण एवं उद्यानिकी समिति की बैठक में लोककला पथ का सौंदर्यीकरण, उद्यानों एवं शहर में लगी महापुरूषों की मूर्तियों के रखरखाव के लिये प्लेसमेंट पर 20 कर्मचारी रखने के साथ ही उद्यानों व मूर्तियों के रख रखाव के लिये 20 लाख रूपयों का विशेष संधारण मद स्वीकृत किया गया। बैठक की अध्यक्षता एमआईसी में पर्यावरण एवं उद्यानिकी समिति के प्रभारी काशीराम कोसरे ने की।

बैठक में रेल्वे स्टेशन व तहसील कार्यालय के सामने भी सौंदर्यीकरण का कार्य करने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद समिति के प्रभारी कांशीराम कोसरे ने बताया कि प्लेसमेंट में नियुक्त किये जाने वाले 20 कर्मचारी प्रतिनिधि उद्यानों में सिंचाई, सफाई व पौधों के रख रखाव के साथ ही मूर्तियों इत्यादि की भी साफ सफाई करेगें। उन्होंने गार्डन की मरम्मत, झूलों की व्यवस्था, पौधरोपण व फाउंटेन की देखभाल का कार्य बजट में स्वीकृत 20 लाख रूपये से करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा उक्त बैठक में वार्ड 56 बघेरा न्यू कालोनी में साफ सफाई वृक्षारोपण वार्ड 20 आदित्य नगर में शेखर साहू के घर के सामने रिक्त पड़ी भूमि पर अतिक्रमण हटाकर, फेंसिंग कर वृक्षारोपण करने, बघेरा मुक्तिधाम रोड और गणपति विहार में वृक्षारोपण कर हरियाली बढ़ाने, द्वारिकापुरी गार्डन की साफ सफाई व रखरखाव, फाउण्टेन की मरम्मत । कंपनियों और उद्योगों की होगी जांच - बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शहर में चल रहे उद्योगों व कंपनियों की जानकारी लेकर उन्हें जारी किये गये लाइसेंस व अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि के बारे में भी जांच की जायेगी।

उतई टेम्पो स्टैंड के पास रिक्त प्लाट पर बनाया जाये हेण्डीक्राफ्ट मार्केट : कैट

दुर्ग, 13 सितंबर (देशबन्धु)। कैट की महिला इकाई ने महापौर अलका बाघमार से मुलाकात कर उतई टेम्पो स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर के पीछे खाली प्लाट में त्यौहारों से पूर्व हेण्डीक्राफ्ट मार्केट शुरू करने की मांग की है। इससे महिला उद्यमियों के समय समय पर अपने उत्पाद विक्रय का अवसर मिलेगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

कैट की महिला इकाई की अध्यक्ष पायल जैन ने अपनी टीम के साथ महापौर अलका बाघमार से मिलकर उद्यमिता को नई दिशा देने अपने सुझाव दिये। उन्होंने इस दौरान महापौर से आग्रह किया कि उतई टेम्पो स्टैंड के पीछे विगत कई वर्षो से खाली गुमटियां पड़ी हुई है। वहां की साफ सफाई एवं सौंदर्यीकरण कर त्यौहारों से पूर्व हैण्डीक्राफ्ट मार्केट शुरू किया जाये। इससे स्थानीय महिला उद्यमियों एवं गृह उद्योगों को अपने उत्पाद बेचने का एक अच्छा अवसर मिलेगा।

इस अवसर पर कैट की महामंत्री मुंजा पींचा, कोषाध्यक्ष अमीना हिरानी, एवं मोहम्मद अली हिरानी भी उपस्थित ते। उन्होंने इसके तहत उक्त स्थल पर एक डोम निर्माण की मांग की है।

मतदाता सूची के पुनरीक्षण में निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन करें: कलेक्टर

बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों की बैठक संपन्न

दुर्ग, 13 सितंबर (देशबन्धु)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिजीत सिंह, भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देश के परिपालन में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण के पूर्व आवश्यक तैयारी के संबंध में साइंस कालेज दुर्ग के सर्वपल्ली राधाकृष्णन हाल में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 63 दुर्ग ग्रामीण के बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों की बैठक सह प्रशिक्षण में शामिल हुए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने उक्त बैठक सह प्रशिक्षण में सभी बीएलओ को संबोधित करते हुए निर्देशित किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के पूर्व वर्ष 2003 एवं वर्ष 2025 के मतदाता सूची का मिलान कर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्ष 2003 एवं वर्ष 2025 के मतदाता सूची में किसी मतदाता का नाम प्रविष्ट पाए जाने पर ए श्रेणी एवं उनके वारिसानों का नाम वर्ष 2025 की मतदाता सूची में प्रविष्ट पाए जाने पर बी श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए मिलान किया जाए। उन्होंने कहा कि उक्त कार्य में सहयोग राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए, बुजुर्ग निवासी एवं अन्य जानकार लोगों के सहयोग लिया जाए। कलेक्टर ने कार्य 20 सितम्बर तक अनिवार्य रूप पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं। प्रशिक्षण में ईआरओ हरवंश सिंह मिरी एसडीएम दुर्ग एवं डिप्टी कलेक्टर उत्तम ध्रुव, तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता, अतिरिक्त तहसीलदार क्षमा यदु एवं एईआरओ उपस्थित रहे।

प्रदेश चेम्बर ऑफ कामर्स में बनाये गये दुर्ग से 5 नये पदाधिकारी

■ प्रहलाद, शिव, दिनेश उपाध्यक्ष, डॉ. राहूल व जवाहर बने प्रदेश मंत्री

दुर्ग, 13 सितंबर (देशबन्धु)। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफकॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में दुर्ग से 5 और नए पदाधिकारी शामिल किए गए है। नए पदाधिकारियों में दुर्ग जिला चेम्बर के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद रुंगटाए शिव चंद्राकर और दिनेश टावरी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा डॉ. राहुल गुलाटी व जवाहर जैन को प्रदेश मंत्री पद का दायित्व सौंपा गया है। नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री को रायपुर में आयोजित चेम्बर के एक कार्यक्रम में चेम्बर के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थैरानी और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जसप्रीत सिंह सलूजा ने नियुक्ति पत्र सौंपा ।

प्रहलाद रुगंटा, शिव चंद्राकर, दिनेश टावरी, डा.राहुल गुलाटी व जवाहर जैन की नियुक्ति से चेम्बर में उत्साह का माहौल है। दुर्ग से चेम्बर के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री की नियुक्ति में चेम्बर के प्रमुख सलाहकार संजय रुंगटा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

इस दौरान दुर्ग जिला चेंबर अध्यक्ष अनूप गटागट, प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक राठी, चेयरमैन किशोर जैन, उपाध्यक्ष मनोज अग्रवाल, टोनी खंडेलवाल, युवा चेंबर के आशीष सेक्सरिया, हेमंत गोयल, आनंद जैन के अलावा चेम्बर के अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।

स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण के 132 वें स्मृति दिवस पर हुए अनेक कार्यक्रम

दुर्ग, 13 सितंबर (देशबन्धु)। सेठ आर.सी.एस आर्टस एंड कामर्स कालेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं विवेकानंद केन्द्र कन्याकुमारी शाखा दुर्ग भिलाई के संयुक्त तत्वावधान में विश्वबंधुत्व दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विवेकानंद द्वारा शिकागो में लगभग 132 वर्ष पूर्व दिये गए ऐतिहासिक भाषण पर केन्द्रित कार्यक्रम किये गये।

कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता विवेकानंद केन्द्र छत्तीसगढ़ के विभाग संचालक अधिवक्ता प्रतीक शर्मा थे। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. पूजा मल्होत्रा, जीवनव्रती कार्यकर्ता रितुमणि दीदी दुर्ग-भिलाई विवेकानंद केन्द्र शाखा रोहिणी पाटणकर ने स्वामी विवेकानंद केन्द्र कन्याकुमारी तथा शिकागो भाषण कको लेकर विस्तृत जानकारी दी। श्रीमती पाटणकर ने सुझाव दिया कि सभी महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को एकत्र कर एक दिवसीय कार्यशाला लगाई जाये जिसमें बच्चों को विवेकानंद केन्द्र से जोड़ा जाये। अधिवक्ता एवं विवेकानंद केन्द्र संपर्क प्रमुख ने गीत प्रस्तुत किया। प्राध्यापक संगठक डॉ. डी.पी.मिश्रा अभियांत्रिकी बीआईटी ने आनलाईन प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम किया। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को विवेकानंद केन्द्र से जोड़ने का था।

मंच संचालन कौशल साहू, आभार प्रदर्शन पूर्व प्राचार्य डी.आर. भावनीने ने किया।

चेंबर अध्यक्ष थोरानी ने परिवहन संघ की मांगों का किया समर्थन

■ केंद्रीय इस्पात खनन मंत्री से संघ के मांगों पर चर्चा कर निराकरण करने करेंगे प्रयास : सतीश थोरानी

दल्लीराजहरा,13 सितंबर (देशबन्धु)। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थोरानी राजहरा परिवहन संघ के अनिश्चितकालीन धरना स्थल पहुंचकर उनकी मांगों का समर्थन किया ,सतीश थोरानी सहित प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों का धरना स्थल पहुंचने पर पुष्पगुच्छ व माला से स्वागत किया गया।नरेंद्र सिंह तुली अध्यक्ष राजहरा परिवहन संघ ने मांगो का ज्ञापन सोपा ,अनिल सुथार ने संघ की मांगों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी,सतीश थोरानी ने आंदोलित राजहरा परिवहन संघ के सदस्यो को आश्वस्त किया की उनकी मांगो के संबंध में केंद्रीय इस्पात व खनन मंत्री से मिलकर निराकरण करने का प्रयास करने की बात कही है। धरना स्थल पर सतीश थोरानी के साथ गोविंद वाधवानी अध्यक्ष व्यापारी संघ दल्लीराजहरा, तोरणलाल साहू शेष पृष्ठ 9 पर

कन्नौजिया स्वर्णकार समाज 17 को विश्वकर्मा जयंती मनायेगा

दुर्ग, 13 सितंबर (देशबन्धु)। छत्तीसगढ़ कन्नौजिया स्वर्णकार समाज द्वारा 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई जायेगी। इस अवसर पर मूर्ति स्थापना, मंच सज्जा, पूजा अर्चना, 10 वीं एवं 12 वीं के कुशाग्र बच्चों का सम्मान, रामायण पाठ इत्यादि के कार्यक्रम होगें। इसी अवसर पर समाज की वयोवृद्ध महिलाओं का सम्मान किया जायेगा। मेंहदी प्रतियोगिता भी की जायेगी। प्रतियोगिता निःशुल्क होगी। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जायेगा। सभी कार्यक्रम कन्नौजिया स्वर्णकारों के सामाजिक भवन नयापारा में होगा। उक्त तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में हुई बैठक में समाज के अध्यक्ष सूरज स्वर्णकार, उपाध्यक्ष विवेक सोनी, सचिव सुनील स्वर्णकार, सहसचिव अनिल सुरेश सोनी, मनीष सोनी सहित बड़ी संख्या में सामाजिक सदस्य उपस्थित थे।

किशोरीलाल शुक्ल विधि महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने लोक अदालत की कार्यवाही का किया अध्ययन

राजनांदगांव, 13 सितंबर (देशबन्धु)। पंडित किशोरीलाल शुक्ल विधि महाविद्यालय, के छात्र-छात्राओं ने लोक अदालत की कार्यवाही का अवलोकन किया। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं को न्याय व्यवस्था से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं को समझने तथा लोक अदालत की कार्यप्रणाली को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ।

इस भ्रमण में विद्यार्थियों के साथ महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक अतुल सोनी भी उपस्थित रहे। लोक अदालत में छात्रों को जिला बार काउंसिल के अध्यक्ष मनोज चौधरी द्वारा संबोधित किया गया। जिसमें उन्होंने लोक अदालत की प्रासंगिकता, इसके माध्यम से त्वरित एवं सुलभ न्याय तथा न्यायिक प्रणाली में इसके महत्व पर प्रकाश डाला ।महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने गहनता से कार्यवाही का अवलोकन किया तथा उपलब्ध अवसर का सर्वोत्तम उपयोग किया। इस शैक्षणिक भ्रमण से विद्यार्थियों को न केवल सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप से समझने का अवसर मिला, बल्कि न्याय व्यवस्था के प्रति उनकी जागरूकता भी बढ़ी।

तनुजा बंजारे को उत्कृष्ट प्रधान पाठक का मिला सम्मान

डौण्डी,13 सितंबर (देशबन्धु)। शिक्षा संभाग दुर्ग के द्वारा बीआई टी कॉलेज दुर्ग के सभागार में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बालोद जिले के विकास खंड डौंडी से शा. प्राथमिक कन्या आश्रम शाला डौंडी में पदस्थ श्रीमती तनुजा बंजारे को उत्कृष्ट प्रधान पाठक के सम्मान से सम्मानित किया गया जिसमें नारियल , शाल, श्रीफल, प्रमाण पत्र एव सील्ड भेंट किया गया इस अवसर पर तनुजा बंजारे ने देशबन्धु से कहा की मेरा हमेशा से प्रयास रहता है की बच्चों को शिक्षा के साथ अच्छा संस्कार भी मिले उन्होंने आगे कहा की शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है जिससे मुश्किल से मुश्किल कार्य आसानी से पुरा हो जाता है यही सोच के साथ में व मेरे सभी शिक्षक शिक्षिका बच्चों के प्रति ध्यान देने का कार्य करते हैं, जिससे आगे चल कर जो बच्चा शिक्षा ग्रहण करे वह सुदृढ़ समाज के साथ प्रदेश व देश के विकास में अपना योगदान देने में महत्वपूर्ण दायित्वों का सार्थक भूमिका के साथ निर्वाहन कर सकने में सक्षम बन सके ।यही सोच के साथ में प्रतिदिन शिक्षा के मंदिर विद्यालय में अपनी शुरूआत करती हूं।

तनूजा बंजारे को उत्कृष्ट प्रधान पाठक के सम्मान के लिए जिले के साथ डौण्डी ब्लाक के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं ने बधाई प्रेषित किया है।

डीपीएस राजनांदगांव की बालिकाओं ने जीता सीबीएसई नेशनल बास्केटबॉल का स्वर्ण पदक

महेंद्रगढ़ , 13 सितंबर (देशबन्धु)। दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव की बालिका बास्केटबॉल टीम ने महेंद्रगढ़ में दिनांक 9-13 सितम्बर तक आयोजित सीबीएसई नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता । फायनल में दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव की टीम ने गुरूनानक पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ को 83-46 पांइट से परास्त किया ।

उक्ताशय की जानकारी देते हुए दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव की प्राचार्या श्रीमती निर्मला सिंह ने बताया कि दिल्ली पब्लिक स्कूल पिछले कई वर्षो से इस प्रतियोगिता की विजेता टीम है। अपने पहले लीग मैच में गुरूनानक मिशन स्कूल पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश की टीम को 21-07 अंको से ,दुसरे लीग मैच में दिल्ली पब्लिक स्कूल हैदराबाद को 30-17 अंको से परास्त किया ,तिसरे लीग मैच में ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल निमच को 47-20 अंको से परास्त कर चार्टर फाइनल में प्रवेश किया ।

चार्टर फाइनल में दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव की टीम ने डी ए वी लुधियाना को 37-7 अंको से ,सेमीफाइनल में एपेक्स स्कूल दिल्ली को 61-34 अंको से परास्त कर फायनल में पहुंची। फायनल में दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव की टीम ने गुरूनानक स्कूल चंडीगढ़ को 83-46 से परास्त कर स्वर्ण पदक जीता । दिल्ली पब्लिक स्कूल इस प्रतियोगिता की विजेता टीम स्कूल गेम्स फेडरेशन के नेशनल में सिधे भाग लेगी। कोडापे ,काम्या झा ,सोफी सिका, अंजनी , शेष पृष्ठ 9 पर

होर्डिंग व बैनर पर लगी रोक, मदर्स मार्केट 30 वर्षीय लीज पर दी जाएगी

भिलाईनगर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता एवं आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय की उपस्थिति में आहूत की गई। बैठक में 8 एजेण्डा विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रमुख रूप से स्थायी लीज पर प्राप्त भूमि का हस्तांतरण, नामांतरण, प्रकाशन शुल्क पर चर्चा हुई। भूमि के प्रथम बार हस्तांतरण हेतु अनापत्ति पर हस्तांतरण शुल्क, मदर्स मार्केट को 30 वर्षीय लीज पर दिए जाने के संबंध में चर्चा सहित जलकार्य विभाग हेतु श्रमिक उपलब्ध कराने की स्वीकृति मिली। बीएसपी क्षेत्र के वार्डो की साफ सफाई एवं गोकुल नगर में बायो गैस प्लांट की स्थापना आदि विषय शामिल हैं। नगर पालिक निगम भिलाई एवं पूर्ववर्ती विशेष क्षेत्र प्राधिकरण भिलाई दुर्ग से स्थायी लीज पर प्राप्त भूमि का हस्तांतरण, नामांतरण, प्रकाशन शुल्क लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। भूमि के प्रथम बार हस्तांतरण हेतु अनापत्ति पर हस्तांतरण शुल्क निर्धारण के कार्यो पर विस्तृत चर्चा कर महापौर परिषद के सदस्यों ने अपनी सहमति दी है। मदर्स मार्केट (प्रगति काम्पलेक्स) व्यवसायिक परिसर में निर्मित दुकानों को 30 वर्षीय लीज पर दिए जाने रूचि की अभिव्यक्ति आफर आमंत्रित किए जाने की स्वीकृति मिली। जलकार्य विभाग हेतु कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने के कार्य को सदस्यो ने मंजूदी प्रदान की है। बीएसपी सेवा के अंतर्गत आने वाले 17 1/2 वार्डो की सीवरेज सफाई कार्य को छोड़कर अन्य साफ सफाई व्यवस्था नगर पालिक निगम भिलाई से कराए जाने हेतु प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित की गई है। गोकुल नगर में बायो गैस प्लांट की स्थापना कार्य कराने महापौर परिषद के सदस्यों ने सर्व सम्मति से पारित किया। ऑफरकर्ता के द्वारा बायोगैस प्लांट की स्थापना, रखरखाव एवं संचालन स्वयं के व्यय से करना होगा। जन्मदिन एवं अन्य विशेष समारोह में होर्डिंग एवं बैनर हेतु महापौर सहित सभी परिषद के सदस्यों का पुरजोर विरोध रहा । सभी का एक मत रहा की कोई आगामी समय में शहर के किसी भी स्थल में अवैध रूप से होर्डिंग व बैनर नहीं लगवाने देंगे। शहर में कहीं भी किसी जनप्रतिनिधि का फोटो नहीं लगाया जाएगा। जिससे हमारा शहर इंदौर शहर की तरह स्वच्छ हो सके। शहर के खुबसूरती बढ़ाने के साथ निगम प्रशासन को कार्य करने में आसानी होगी। होडिंग और बैनर के विरोध में राधिका नगर दौरे में आए विधायक वैशाली नगर रिकेश सेन और महापौर नीरज पाल का भी यही सुझाव आया है। विधायक एवं महापौर का कहना है कि सभी जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में पत्र दिया जाए। जिससे हमारा शहर पूरे छत्तीसगढ़ में एक आदर्श रूप में बन सके। नगर निगम के उद्यानों का रखरखाव, संचालन एवं संधारण में लागत की कमी के दृष्टिकोण से विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को रुचि की अभिव्यक्ति के तहत आमंत्रित की जाएगी। सामाजिक संस्था उद्यानों का रखरखाव कर अपने समाज का प्रतीक चिन्ह एवं स्तंभ स्थापित कर सकते है, उक्त संबंध में महापौर परिषद की स्वीकृति मिली है। उमेश निर्मलकर सेवानिवृत्त इलेक्ट्रीशियन को 1 वर्ष हेतु कार्य विस्तार के संबंध में महापौर परिषद की स्वीकृति मिली है। कार्य विस्तार संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। महापौर परिषद की बैठक महापौर परिषद के सदस्य सीजू एन्थोनी, लक्ष्मीपति राजू, संदीप निरंकारी, लालचंद वर्मा, साकेत चंद्राकर, केशव चौबे, एकांश बंछोर, आदित्य सिंह, नेहा साहू, रीता सिंह गेराए मालती ठाकुर सहित अपर आयुक्त राजेन्द्र सिंह दोहरेए जोन आयुक्त अजय सिंह राजपूत, येशा लहरे, अमरनाथ दुबे, कुलदीप गुप्ता, कार्यपालन अभियंता अनिल सिंह, राजस्व अधिकारी जे.पी. तिवारी, उद्यान अधिकारी तिलेश्वर साहू, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, उपअभियंता अर्पित बंजारे एवं अन्य अधिकारी, कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

देहदान के लिए सांसद ने एक्टर रजनीश का किया सम्मान

भिलाईनगर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। भारतीय जनता पार्टी सांसद विजय बघेल ने देहदान का संकल्प लेने वाले लीजेंड एक्टर रजनीश झांझी को सम्मानित किया। सांसद ने कहा कि देहदान समाज के लिए प्रेरणादायी कार्य है और इससे आने वाली पीढ़ियों को नई दिशा मिलती है। सम्मान प्राप्त करते हुए रजनीश झांझी ने बताया कि मृत्युपरान्त उनके अंगों को किसी भी जीवित जरूरतमंद इंसान पर प्रत्यारोपित किया जाये। उन्हें इस कार्य की प्रेरणा स्वर्गीय आनंद अतृप्त से मिली थी तत्पश्चात उन्होंने वर्ष 2016 में आस्था संस्था के माध्यम से देहदान का संकल्प लिया था। इस अवसर पर उन्होंने आस्था संस्था के प्रमुख और समाजसेवी प्रकाश गेदाम और निशु पांडे का आभार व्यक्त किया। जिन्होंने इस अभियान में सहयोग दिया। समारोह में उपस्थित ने देहदान को मानवता की सच्ची मिसाल बताया। झांझी के मार्गदर्शन और आह्वान से अब तक विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ढाई सौ से ज़्यादा लोगों ने देहदान का संकल्प लिया हैं। सांसद विजय बघेल ने कहा कि झांझी जैसे व्यक्तित्व समाज के लिए आदर्श हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर लोग आगे आ रहे हैं। रजनीश झांझी का मानना है कि देहदान से चिकित्सा जगत को सहयोग मिलता है और यह मानवता की सबसे बड़ी सेवा है।

देवांगन समाज का जिला स्तरीय नि:शुल्क युवक-युवती परिचय सम्मेलन एवं सामूहिक विवाह का आयोजन 30 नवंबर को

भिलाई, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। देवांगन समाज के तत्वावधान में आगामी 30 नवंबर को भिलाई में देवांगन समाज का विशाल युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर पहली बार नि:शुल्क सामूहिक सगाई एवं सामूहिक विवाह का भी आयोजन होगा। इस अवसर पर एक स्मारिका का भी प्रकाशन किया जाएगा। जिसमें देवांगन समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों का विवरण, समाजोपयोगी लेख कविताएं एवं अन्य उपयोगी जानकारियां प्रकाशित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस आयोजन में पुनर्विवाह करने के इच्छुक तलाकशुदा, विधवा अथवा विधुर को भी अपना परिचय देकर अपने जीवन साथी चुनने का अवसर मिलेगा उक्त जानकारी देते हुए जिला देवांगन समाज के अध्यक्ष पुरानिकराम देवांगन ने बताया कि इस आयोजन की रूपरेखा तैयार करने बैठक लेकर जिम्मेदारियाँ सौंपी गई। स्मारिका प्रकाशन हेतु समाजोपयोगी लेख कविताएं आदि संकलन के लिए प्रभारी देवांगन जन कल्याण समिति भिलाई के अध्यक्ष घनश्याम कुमार देवांगन, परिचय सम्मेलन के आयोजन हेतु प्रभारी युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष आशीष देवांगन एवं टीम, सामूहिक विवाह आयोजन हेतु प्रभारी महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति देवांगन एवं टीम दुर्ग जिला के बाहर अन्य जिलों में संपर्क के लिए प्रभारी धनुष देवांगन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सम्पूर्ण आयोजन को सफल बनाने हेतु दुर्ग जिला देवांगन समाज के अंतर्गत आने वाले सभी ब्लाक, मंडल एवं ग्राम इकाई के पदाधिकारियों का सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने समाज के सभी वर्ग के अपने परिवार के विवाह योग्य युवक युवतियों को अधिक से अधिक संख्या में इस परिचय सम्मेलन में शामिल अपील की है। उन्होंने बताया कि निशुल्क सामूहिक विवाह में अधिक से अधिक जोड़ों का विवाह हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। सामूहिक विवाह में शामिल होने वाले जोड़ों को नई गृहस्थी बसाने हेतु आवश्यक सामग्री जिला देवांगन समाज की ओर से भेंट की जाएगी।

विश्वकर्मा पूजा के दिन विजीटर्स पास नहीं होगा जारी

भिलाईनगर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। संयंत्र के सुरक्षा की दृष्टि से 17 सितम्बर को होने वाले विश्वकर्मा पूजा में संयंत्र में अनाधिकृत व्यक्तियों तथा आंगतुकों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। संयंत्र प्रबंधन ने इस संबंध में परिपत्र जारी कर विश्वकर्मा पूजा के दिन अर्थात 17 सितम्बर को किसी भी बाहरी अतिथि, पंडित, आगंतुक को संयंत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। साथ ही आयोजकों को यह सलाह दी जाती है कि पंडित की व्यवस्था केवल भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्मिकों में से ही की जाये। इस प्रकार बीएसपी प्रबंधन ने परिपत्र के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि संयंत्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विश्वकर्मा पूजा में 17 सितम्बर को विजीटर्स पास पूर्णतः प्रतिबंधित होगा और 17 सितम्बर को किसी भी प्रकार के विजीटर्स पास जारी नहीं किया जायेगा। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने लोगों से अपील है कि विश्वकर्मा पूजा में व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करें।

मिशन लक्ष्मी के तहत 91 महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण

भिलाईनगर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। संयंत्र के सीएसआर विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग द्वारा संयुक्त रूप से भिलाई महिला समाज की महिला संविदा कर्मचारियों के लिए मिशन लक्ष्मी के अंतर्गत एक व्यापक नि:शुल्क शैक्षणिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कार्यपालक निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डा. रवीन्द्रनाथ एम. द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विनीता द्विवेदी, डॉ.कौशलेंद्र ठाकुर, श्रीमती मोली चक्रवर्ती, श्रीमती स्मिता गिरी, श्रीमती पूनम कुमार, श्रीमती रेणुका रविन्द्रनाथ की उपस्थिति में किया गया। विशेष अतिथि सुरक्षा शाखा रांची के कार्यपालक निदेशक की पत्नी श्रीमती निशा श्रीवास्तव भी उपस्थित रहीं। महाप्रबंधक शिवराजन, उप महाप्रबंधक श्रीमती अपर्णा चन्द्रा, श्रीमती सोनाली रथ, श्रीमती दीपान्विता पॉल, श्रीमती शिखा जैन, श्रीमती रीता तिवारी ने स्त्रीरोग व स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूक हेतु प्रेरित किया। शिविर में कुल 91 महिला कर्मचारियों का नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें स्त्री रोग निदान, प्रजनन अंगों के कैंसर, संतुलित खानपान और स्वस्थ जीवनशैली से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। सेक्टर.9 के चिकित्सा परामर्शदाताओं द्वारा महिला कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण, रक्त में हीमोग्लोबिन, शुगर की मात्रा की जांच और पेप स्मेअर की जांच की गई। प्रश्नोत्तरी के 25 विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। स्वास्थ्य शिविर में नामांकित 91 महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही 87 रक्त नमूनों का संकलन, 20 पैप स्मीयर परीक्षण किया गया। डॉ. माला चौधरी ने बच्चों व किशोरियों के स्वास्थ्य, टीकाकरण व जीवनशैली के विषय में जानकारी दी। एसीएमओ डॉ प्रभदीप कौर ने सतत स्वास्थ्य परीक्षण,स्तन व प्रजनन अंगों के कैंसर के लक्षण, जांच, बचाव और सजगता के बारे में बताया। श्रीमती परोमिता दासगुप्ता ने खानपान में संतुलित आहार के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी।

अवैध कब्जे को हटाने विधायक महापौर ने दिया निर्देश

भिलाईनगर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। नगर पालिक निगम भिलाई जोन क्रमांक -1 नेहरू नगर में नवनिर्मित बैडमिंटन कोर्ट, आकाश गंगा सुपेला सब्जी मण्डी हेतु स्थल चयन, स्लाटर हाउस एवं सुपेला थाना के पीछे अवैध सामाजिक भवन का निरीक्षण वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, महापौर नीरज पाल एवं आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा किया गया है। विधायक महापौर एवं आयुक्त द्वारा नवनिर्मित बैडमिंटन कोर्ट का निरीक्षण कर मैदान में बरसात के पानी के निकासी की व्यवस्था बनाने एवं उखड़े हुए पेवर ब्लाक को बदलने निर्देशित किया गया है। आकाश गंगा सुपेला सब्जी मण्डी का स्थल छोटा होने के कारण उक्त मण्डी को हटा कर अन्य स्थल पर स्थानांतरित किया जाएगा। जिसके लिए स्थल चयन किया जा रहा है। स्थल मिलते ही मण्डी को शिफ्ट किया जाएगा। नेहरू नगर स्थित स्लाटर हाउस संचालन हेतु निविदा जारी किया गया है। उक्त स्लाटर हाउस का अवलोकन कर आयुक्त ने संबंधित ठेकेदार को नियम शर्तो के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य शीध्र प्रारंभ करने निर्देशित किया गया है। सुपेला थाना के पीछे एस.एल.आर.एम. सेंटर के समीप कुछ लोगो द्वारा अवैध रूप से सामाजिक भवन का निर्माण कर संचालित किया जा रहा है। उक्त भवन को तोड़ने जोन के सहायक राजस्व अधिकारी अजय शुक्ला को निर्देशित किया गया है। निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त अजय सिंह राजपूत, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, उपअभियंता बसंत देवांगन, सहायक राजस्व अधिकारी अजय शुक्लाए जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना उपस्थित रहे।

विभिन्न राज्यों के युवाओं का योग कौशल देख दर्शक भी हैरान

भिलाईनगर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। अग्रसेन भवन सेक्टर-6 में चल रही छठवीं राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता के दूसरे दिन देश के विभिन्न राज्यों से आए युवा खिलाड़ियों ने उत्साह और अनुशासन पूर्ण वातावरण में अपने योग कौशल का प्रदर्शन किया। इन नौजवानों के प्रदर्शन देखकर दर्शक भी हैरान रह गए। प्रतियोगिता के इस चरण में सीनियर वर्ग व सीनियर वर्ग अ में आर्टिस्टिक पेयर बैकबेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग स्पर्धाएँ आयोजित की गई। जिनमें प्रतिभागियों ने कठिन आसनों का प्रदर्शन कर दर्शकों और निर्णायकों की सराहना प्राप्त की। निर्णायक मंडल ने प्रतियोगियों के आसन की शुद्धता, संतुलन, लय और एकाग्रता को मूल्यांकन का आधार बनाया। प्रतियोगिता स्थल पर दर्शकों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही और वातावरण योगमय बना रहा। प्रथम चरण के सत्र में अतिथि के रूप राकेश दुबे पतंजलि योग समिति रायपुर और लेखु राम साहू समाज सेवी दुर्ग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सहयोगी के रूप में छत्तीसगढ़ योग एसोसिएशन के 150 से भी अधिक सदस्य सेवा प्रदान कर रहे है। इनमें प्रमुख रूप से धीरेन्द्र वर्माएपीयूष साहूए मधुस्मिता पंडा, उद्धव साहू, अनेश देशमुख, अभय खनंग, आर पी शर्मा, दिनेश मिश्रा, राजेश पवार, शैलेन्द्र विशी और शत्रुघ्न साहू सहित अन्य लोगों का विशिष्ट सहयोग है। दूसरे दिन की प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने फॉरवर्ड बैंड प्रदर्शन से अपना स्थान सुनिश्चित किया। इनमें जयश्री चावड़ा गुजरात, पूजा साहा त्रिपुराए रूबी यादव छत्तीसगढ़एपम्मी कुमारी झारखंड, भूमिका पाटीदार मध्य प्रदेश, सोनिया राजस्थान, एजाज अहमद जम्मू कश्मीर, रितेश खुशली गोवा, जयदीप त्रिपुरा, लोकेश साहू छत्तीसगढ़ और ओमप्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। छठवीं राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ 11 सितंबर की शाम अग्रसेन भवन सेक्टर.6 में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने किया। देशभर से आए अलग अलग प्रतिभागियों ने सामूहिक संगीतमय योगासन प्रस्तुत कर उद्घाटन समारोह को विशेष बना दिया। इस दौरान श्री बघेल ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की धरोहर है, जो युवाओं को स्वस्थ, अनुशासित और आत्मविश्वासी बनाता है। विशिष्ट अतिथि वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने कहा कि योग हमारी सांस्कृतिक पहचान है और इसने पूरी दुनिया को स्वस्थ तन और स्वस्थ मन का विचार दिया है। योगासन भारत के सदस्य शैलेंद्र विशी ने कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। छत्तीसगढ़ योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोस्वामी जयंत विष्णु भारती ने बताया कि विश्व में योग के प्रचार प्रसार हेतु भारत सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में योगासन भारत के निर्देशन में छठवीं राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में आयोजन समिति के अनूप बंसल सह.राज्य प्रभारी भारत स्वाभिमान न्यास, ऋषि अग्रवाल, आनंद जैन, शशि बघेल अध्यक्ष प्रदेश कबड्डी संघ, प्रमोद सिंह सांसद प्रतिनिधि, रचित कौशिक कोषाध्यक्ष योगासन भारत, रोहित कौशिक योगासन भारत सदस्य, श्यामलता योगासन भारत सदस्य, विशेष अतिथि महेश वर्मा पूर्व जिला अध्यक्ष, कल्पना स्वामी सहायक संचालक और नरेंद्र पटेल जिला प्रभारी पतंजलि योग समिति दुर्ग सहित अनेक लोग उपस्थित थे। आभार प्रदर्श सचिव डॉ मेजर सिंह ने किया।

जिला स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन

भिलाईनगर, 13 सितंबर (देशबन्धु)। नायर समाजम स्कूल सेक्टर.8 में दुर्ग जिला स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दुर्ग रोलर स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में रिकॉर्डतोड़ भागीदारी और उत्साही माहौल देखने को मिला। जिले भर से 100 से अधिक युवा स्केटर्स ने हिस्सा लिया। जिससे यह इस साल की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में से एक बन गई। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं में शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और खेल भावना को बढ़ावा देना था। पाँच वर्ष से कम उम्र के नन्हे स्केटर्स ने भी आत्मविश्वास के साथ ट्रैक पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि विधायक रिकेश सेन ने युवा खिलाड़ियों के जुनून और दृढ़ संकल्प की सराहना की। उन्होंने कहा इतने सारे युवा एथलीटों को इतने जोश के साथ देखना सच में प्रेरणादायक है। प्रतियोगिता के बाद सम्मान समारोह में विजेताओं को पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान माता पिता और कोच ने अपने बच्चों की सफलता पर गर्व महसूस किया और उनका उत्साह बढ़ाया। प्रतियोगिता को सफल बनाने में उनके योगदान की सराहना की। अगले साल के आयोजन की योजनाएँ भी अभी से शुरू हो चुकी हैं, जिसे और भी बड़ा और बेहतर बनाने का वादा किया गया है।

अमेरिका में जीवंत हुई भारतीय संस्कृति, शिक्षकों का सम्मान

भिलाईनगर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। इस्पात नगरी भिलाई से अमेरिका में जा बसे जैन दंपति वहां भारतीयता और हिंदी को आगे बढ़ाने में अपना विशिष्ट योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका के सेंट लुइस शहर स्थित हिंदी यूएसए दृहेरिटेज लैंग्वेज स्कूल ने शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह आयोजन भारत के महान दार्शनिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर आयोजित किया गया। जिसमें 14 कक्षाओं के लगभग 200 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों को गुलदस्ते, शुभकामना कार्ड और उपहार देकर अपना आभार व्यक्त किया। इस आयोजन में बच्चों ने स्वयं हस्तनिर्मित ग्रीटिंग कार्ड बनाए और शिक्षकों को उपहार भी भेंट किए। कार्यक्रम ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय मूल के बच्चों को अमेरिका में रहते हुए भी अपनी जड़ों से जोड़े रखना संभव है। बस ज़रूरत है समर्पण, मार्गदर्शन और समुदाय की एकजुटता की। उल्लेखनीय है कि हिंदी यूएसए, सेंट लुइस में पिछले आठ वर्षों से हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में जुटा हुआ है। इस समय स्कूल में कुल 31 शिक्षक और 3 प्रशासनिक सदस्य कार्यरत हैं। यह संस्था अमेरिका की सबसे बड़ी गैर.लाभकारी हिंदी भाषा स्कूलों में से एक है, और पूरे मिडवेस्ट अमेरिका में यह सबसे बड़ी संस्था है। हिंदी यूएसए सेंट लुईस शाखा की स्थापना मयंक जैन और डॉ अंशु जैन जो कि भिलाई से हैं, ने अपने नियमित कार्यों के साथ.साथ समाजसेवा के रूप में 2018 में की थी। आज यह संस्था सैकड़ों बच्चों को न केवल हिंदी पढ़ा रही है, बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति, त्योहारोंए मूल्यों और भाषायी विविधता से भी परिचित करा रही है।

नाराज एमआईसी सदस्य ने इस्तीफे की पेशकश की

भिलाईनगर 13 सितंबर (देशबन्धु)। भिलाई निगम में कांग्रेस पार्षद व महापौर परिषद की सदस्या नेहा साहू ने परिषद में भेदभाव का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की पेशकश की है। एमआईसी मेंबर बैठक में कहा कि कोई पक्ष रखें तो उसे पर सुनवाई नहीं होती । वार्ड 21 कैलाश नगर कुरूद की पार्षद एमआईसी मेंबर नेहा साहू वार्ड में सड़क निर्माण को लेकर जोन आयुक्त व महापौर के समक्ष अपनी भड़ास निकाली। उन्होनें कहा कि साजिश के तहत उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। नेहा का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने बैठक में महापौर आयुक्त को अधिकारी पर कार्यवाही की मांग को लेकर बैठक से बाहर चली गई नेहा साहू ने कहा कि जोन आयुक्त ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है साजिश के तहत उनकी छवि खराब करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यही नहीं एमआईसी सदस्य का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि एमआईसी की बैठक में ही उन्होंने महापौर और आयुक्त से मांग की है कि वे अधिकारियों पर कार्रवाई करें, वरना वह एमआईसी के पद से इस्तीफा दे देंगी। शुक्रवार की शाम 4 बजे महापौर परिषद की बैठक में पर्यावरण एवं उद्यानिकी विभाग की प्रभारी नेहा साहू ने जोन 2 वैशाली नगर की जोन आयुक्त येशा लहरे से वार्ड 21 महावीर मार्ग में मुरूम बिछाने की जानकारी नहीं देने की बात कही किन्तु संतुष्ट जनक जवाब नही मिलने पर वे नाराज होते हुए महापौर परिषद से बाहर निकल गई।

हाजी सिद्दीकी की किताब को सराहा मौलाना शहबाजी ने

भिलाईनगर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। प्रख्यात शिल्पकार हाजी एम एच सिद्दीकी ने मुस्लिम धार्मिक गुरू हजरत अल्लामा मौलाना सैय्यद मुहम्मद अहरार आलम वफा शहबाजी से मुलाकात कर उन्हें अपनी किताब तामीर ए मस्जिद मदरसा व मज़ारात भेंट की। खानकाह शहबाजिया के चश्मो चिराग अहरार आलम ने हाजी सिद्दीकी की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि मस्जिद मदरसा व मजारात के निर्माण पर जानकारी का बहुत ही आसान तरीका और बनावट की बारीकियों को दिया गया है, यह किताब ऐसे तामीरी काम के दौरान एक गाइड का काम कर सकती है। इस दौरान जामा मस्जिद सेक्टर.6 के ईमामो खतीब इकबाल अंजुम हैदर और भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट के सदर मिर्जा आसिम बेग सहित कई आलिमे दीन मौजूद थे। हाजी एमएच सिद्दीकी विगत 4 दशक से स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है और उन्होंने अब तक छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश के अलावा विभिन्न हिस्सों में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सहित प्रमुख इमारतों का निर्माण अपनी विशिष्ट डिजाइन पर करवाया है।

सम्मान समारोह आज

भिलाई। छत्तीसगढ़ जकात फाउंडेशन की ओर से भिलाई.दुर्ग और राजनांदगांव के होनहार स्टूडेंट का सम्मान समारोह 13 सितंबर शनिवार को अपराह्न 3 बजे से जामा मस्जिद सेक्टर.6 के कम्युनिटी हॉल में रखा गया है। इस दौरान जरूरतमंद बच्चो की हौसला अफजाई व उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए वजीफा भी दिया जाएगा। आयोजन में खास तौर पर एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर, भिलाई स्टील प्लांट के सहायक महाप्रबंधक रिजवान खान, सी.जी स्टेट पावर ट्रांसमिशन छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड जी.एम जिल्लूर रहमान और रुंगटा यूनिवर्सिटी भिलाई रजिस्ट्रार डॉ. एजाजुद्दीन मौजूद रहेंगे।

बेमचा खल्लारी में 22 को जलेंगे ज्योत

महासमुंद 13 सितंबर (देशबंधु)। क्वांर नवरात्रि के अवसर पर बेमचा खल्लारी में 22 सितंबर को अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 बजे मनोकामना के अखंड ज्योत प्रज्वलित किए जाएंगे। तेल ज्योत के लिए 701 रुपए की राशि तय की गई है। पंचमी श्रृंगार 26 सितंबर को हवन अनुष्ठान 30 सितंबर को शाम 5 बजे ज्योति की शांति रात्रि 12 बजे किया जाएगा। उक्त जानकारी रविकांत चंद्राकर ने दी है।

जंगलेसर में भाजपा सोशल मीडिया प्रभारी पर हमला, पुलिस ने 7 हथियार जब्त किए

राजनांदगांव, 13 सितंबर (देशबन्धु)। जिले के शांत दिखने वाले जंगलेसर क्षेत्र में बीती रात एक सनसनीखेज वारदात ने लोगों को दहला दिया। भाजपा सोशल मीडिया प्रभारी शत्रुघ्न लाल चंद्राकर पर आधा दर्जन से अधिक हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना उस समय हुई जब वे रोजाना की तरह मजदूरी का काम निपटाकर अपने घर लौट रहे थे। अचानक घात लगाकर बैठे आदतन अपराधियों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शत्रुघ्न लाल चंद्राकर स्वर्गीय बीर सिंह चंद्राकर के पुत्र हैं और। रोजाना की तरह जंगललेसर स्थित अपने घर लौटते समय जैसे ही वे नदियापारा के मुंडन भवन के पास पहुंचे, तभी अचानक धर्मेंद्र चंद्राकर उर्फ पम्मी चंद्राकर निवासी जंगलेसर और लोकेश साहू निवासी लखोली अपने 5-6 साथियों के साथ वहां आ धमके। आरोप है कि इन लोगों ने पहले उन्हें शराब के लिए रकम देने की मांग की। पैसे से इनकार करने पर अचानक उनके ऊपर धारदार हथियारों से हमला शुरू कर दिया गया।

घटना की सूचना पर आसपास मौजूद लोग बचाने के लिए दौड़े, लेकिन हमलावरों ने उन्हें भी धमकाया। दसरथ चंद्राकर, मुकेश, राकेश, शिव और रोशन ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो हमलावरों ने चाकू दिखाकर उन्हें डराने की कोशिश की। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया और लोग सहम गए। गनीमत रही कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति को काबू में कर लिया गया, अन्यथा परिणाम और भयावह हो सकते थे।

हमले में शत्रुघ्न चंद्राकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। चिकित्सकों ने बताया कि समय रहते इलाज मिलने से उनकी जान बच गई।

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि धर्मेंद्र उर्फ पम्मी चंद्राकर और उसके साथी लंबे समय से इलाके में आतंक मचाए हुए हैं। ये लोग आए दिन लोगों को डराकर, धमकाकर अवैध वसूली करते हैं। कई बार छोटे-छोटे विवादों में भी वे हमला कर चुके हैं। गांव में इनकी गतिविधियों से लोग परेशान हैं, लेकिन डर के माहौल के कारण कोई खुलकर शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता।पुलिस ने घटनास्थल की तलाशी के दौरान सात धारदार हथियार जब्त किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हमलावरों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अपराधियों की खुलेआम दबंगई पर लगाम लगाने में प्रशासन को तुरंत कदम उठाने चाहिए।फिलहाल घायल सोशल मीडिया प्रभारी अस्पताल में उपचाररत हैं और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। वहीं, इस हमले ने न केवल इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि आम नागरिकों में भी भय का माहौल बना दिया है।

दुकान से मोबाइल चोरी करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार

आरंग, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। बीते जुलाई माह में आरंग बस स्टैंड स्थित शुभकामना मोबाइल दुकान में हुई चोरी का आरंग पुलिस ने खुलासा करते हुए 01 नाबालिक सहित 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।पुलिस ने आरोपियों से 14 मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकल को जब्त किया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए थाना प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि 04-05 जुलाई 2025 की रात बस स्टैंड के पास स्थित शुभकामना मोबाइल दुकान में चोरी हुई थी। चोरों ने दुकान की शटर तोड़ विभिन्न प्रकार के कंपनी की मोबाइल चोरी कर लिया था। पीड़ित की शिकायत पर आरंग पुलिस में मामला जांच में लिया। पुलिस आरोपियों तलाश कर आसपास के लोगो से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपी पतासाजी करना प्रारंभ किया टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही प्रकरण में मुखबिर लगाये गये।

30 गौवंश को लेकर ग्रामीण पहुंचे थाना

5 घंटे तक थाना में किसान और पुलिस के बीच चली वार्ता

- किसान, दो पर टैग—मालिकों पर होगी कार्रवाई
- सभी गायों को हालेकोसा गौशाला पहुंचाया
- 6 घंटा ग्रामीणों और पुलिस के बीच तीखी बहस चली
- थाना और एसडीएम कार्यालय के सामने किसानों का प्रदर्शन

डोंगरगांव, 13 सितंबर (देशबन्धु)। शनिवार को दोपहर 12 बजे से संध्या 6 बजे तक ग्रामीण किसान और पुलिस के बीच तीखी बहस होते रहे, आखिर में ग्राम चांदों के किसानों ने बेसहारा मवेशियों से तंग आकर शनिवार को 30 गौवंश को दो गाड़ी में सीधे डोंगरगांव थाना पहुंचा दिए। करीब 100 किसानों का जत्था पुलिस थाने पहुंचा और गौवंशों को थाने परिसर में ही बांध दिया।जांच के दौरान 30 में से दो गौवंश पर टैग लगे मिले, जिससे उनके मालिकों की पहचान संभव हुई है। टी आई जितेन्द्र वर्मा का कहना है कि टैगधारी पशुओं के मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी।

किसानों ने बताया कि खुलेआम घूम रहे मवेशी खेतों की खड़ी फसलें चौपट कर रहे हैं। प्रशासन और नगर पंचायत से बार-बार शिकायत के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। ऐसे में अब अन्नदाता मजबूर होकर पुलिस की चौखट तक पहुंच रहे हैं।

जन्माष्टमी में दही हांडी फोड़ने के दौरान तीन साल पहले हुआ विवाद चंद मिनट में समाप्त

पिथौरा में लोक अदालत आयोजित

पिथौरा, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। आज से तीन साल पहले जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडी फोड़ने के दौरान पानी छिटने की बात को ले कर ग्राम ढाबाखार में विवाद हो गया था,देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में लाठी डंडा चलने लगे लिहाजा गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी । मामला पुलिस तक जा पहुंचा ।तब पुलिस के हस्क्षेप से मामला शांत तो जरूर हो गया किंतु पुलिस ने पाँच लोगो के विरुद्ध अपराध दर्ज कर पिथौरा के न्यायालय में मामला पेश किया था । आज आयोजित नेशनल लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी सौरभ बारा के खंडपीठ में मामले को रखा गया और दोनों पक्षों को बुला कर समझाईस दी गई ।तथा आपस में भाईचारा बना कर रहने हेतु कहा गया जिससे दोनों पक्ष सहर्ष तैयार हो गए परिणाम स्वरूप तीन सालों से चला आ रहा विवाद चंद मिनट में समाप्त हो गया ।दोनों पक्ष गले मिल कर घर चले गए । दूसरा मामला पाँच वर्ष पुराना वर्ष 2020 का है ग्राम सोनासिल्ली में अंडा ठेला लगाये जाने को ले कर विवाद होने से पिथौरा के न्यायालय में फ़ौजदारी चल रहा था था,उस मामले में भी न्यायाधीश सौरभ बारा ने दोनों पक्ष को समझा कर मामले में राजीनामा कराया ।बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के दिशा निर्देश में पिथौरा में आज 13 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई थी जिसमे मामलों को आपसी सहमति से तत्काल निपटाने के प्रावधान था लोक लदालत में जो भी मामले का निबटारा होता है, उसमें कोई भी पक्ष हारता नहीं है। बल्कि दोनों पक्ष की जीत होती है। ज्ञात हो कि नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निराकरण के लिए पूर्व में बैठकें आयोजित की गई थी तथा जोर सोर से तैयारी चल रही थी परिणाम स्वरूप 458 प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण हुआ और समझौते शुल्क के रूप में कुल 1287100 ? की वसूली भी हुई है ।

बजरंगपुर नवागांव में ट्रिपल मर्डर पुलिस की लापरवाही

राजनांदगांव, 13 सितंबर (देशबन्धु)। शहर के बजरंगपुर नवागाँव में गुटीय विवाद के चलते हुए दिल दहला देने वाले ट्रिपल मर्डर ने पूरे इलाके को हिला दिया है। चाकू से गोदकर एक के बाद एक तीन युवकों की हत्या ने न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि पुलिस की बड़ी लापरवाही को भी उजागर किया है।इस घटना के बाद कांग्रेस की जांच समिति मौके पर पहुँची। समिति के अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और प्रदेश सरकार से तत्काल आर्थिक मदद की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस समय रहते सक्रिय होती तो यह दर्दनाक घटना टाली जा सकती थी।

कांग्रेस की जांच समिति के अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा

श्री साहू ने आगे कहा कि मृतकों के परिजनों को कम से कम 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और प्रत्येक परिवार से एक-एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाए। साथ ही घायल युवक के उपचार की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाए। उन्होंने ने कहा कि शहर में नशे का बढ़ता कारोबार अपराध की जड़ है। उन्होंने शासन-प्रशासन से मांग की कि नशीली गोलियों और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। नशे एवं अपराध पर सख्त नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। आरोपियों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए। ताकि भविष्य में कोई ऐसी वारदात करने की हिम्मत न कर सके। उन्होंने आईजी से दूरभाष पर चर्चा कर पूरी स्थिति से अवगत कराया और कहा कि यह हत्याकांड राजनांदगाँव जैसे महत्वपूर्ण जिले में हुआ है जो कि तीन बार के मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह का क्षेत्र है। साथ ही यह जिला गृहमंत्री विजय शर्मा के प्रभार में है। ऐसे में यह घटना पूरे प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था को उजागर करती है। कांग्रेस जांच समिति ने मृतक विशाल राजपूत के परिजन संजय राजपूत और अजय राजपूत, मृतक राकेश ढीमर की पत्नी और भाई, तथा मृतक सचिन मलिकपूरी के भाई, भतीजे और ससुर से मुलाकात की और संवेदना प्रकट की। इस मौके पर अध्यक्ष धनेंद्र साहू के साथ पूर्व मंत्री अरुण वोरा, भोलाराम साहू, दलेश्वर साहू, हर्षिता स्वामी बघेल, शाहिद खान, भागवत साहू, कुलबीर सिंह छाबड़, कमलजीत सिंह पिंटू, पंकज बांधव, अमित चंद्रवंशी, आसिफ अली, पार्षद राजा तिवारी, विवेक वासनिक, संतोष पिल्ले, शुभम पांडे, इकरामुद्दीन सोलंकी, छोटेलाल रामटेके, शैलेश ठावरे, राहुल गजभिए, संदीप जयसवाल, शारदा तिवारी, सुरेंद्र देवांगन, अनिल साहू, उमराव साहू, राहुल देवांगन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद रहे।

दो दिवसीय रामधुनी प्रतियोगिता प्रारम्भ,ग्राम गनेशपुर में

जी जामगांव(देशबंधु)। दो दिवसीय रामधुनी प्रतियोगिता प्रारम्भ,ग्राम गनेशपुर में आयोजित हो रहा है ।प्रथम दिवस के मुख्य अतिथि डॉ गंगा प्रसाद मिश्रा जी (सरपंच)अध्यक्षा प्रीतम साहू(पूर्व सोसायटी अध्यक्ष)विशेष अतिथि कृष्ण कुमार साखरे(सोसायटी अध्यक्ष)एवम ग्राम पंचायत होंगे ।एवम समापन समारोह के मुख्य अतिथि सम्मानीय अजय चंद्राकरविधायक कुरुद(पूर्व केबिनेट मंत्री)अति विशिष्ट नेहरू राम निषाद (अध्यक्ष पिछड़ा आयोग(राज्यमंत्री दर्जा)गोकरण साहू(उपाध्यक्ष जिला पंचायत धमतरी),भानु चंद्राकर (अध्यक्ष बोलबम समिति व प्रतिनिधि विधायक),चंदूलाल निषाद (जिला अध्यक्ष निषाद समाज),चंद्रशेखर साहू (जनपद सदस्य),देवचरन चंद्राकर (सरपंच)राकेश साहू (सरपंच)मुरा होंगे।

राष्ट्रीय राजमार्ग 930 का झलमला से शेरपार तक का निर्माण कार्य पूर्ण

बालोद, 13 सितंबर (देशबन्धु)। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के साथ-साथ बालोद जिले में नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 की सौगात मिलने से बालोद जिले का नाम अब बेहतर एवं सुगम यातायात की दृष्टि से देश एवं प्रदेश के नक्शे में शामिल हो गया है। बालोद जिले को पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के रूप में नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग का सौगात मिलना जिले व प्रदेश में सड़क एवं यातायात सुविधाओं की विस्तारीकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सौगात है। विदित हो कि सड़क केवल सुगम यातायात का ही माध्यम नही होता अपितु यह सभ्यता एवं संस्कृतियों का प्रसार तथा मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता का भी महत्वपूर्ण एवं कारगर माध्यम होता है। बालोद जिले में एक और राष्ट्रीय राजमार्ग की सौगात मिलने से जिले में यातायात सुविधाओं के विस्तार होने के साथ-साथ यह मार्ग जिले और प्रदेश की विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के निर्माण के प्रगति के संबंध में जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग बालोद के अनुविभागीय अधिकारी श्री अनिल कुमार छारी ने बताया कि पैकेज 01 के कार्यों के अंतर्गत जिला मुख्यालय बालोद के समीपस्थ ग्राम झलमला से लेकर मोहला मानपुर जिले के ग्राम शेरपार तक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही भारत सरकार के द्वारा पुरूर से झलमला तक शेष सड़क के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पुरूर से झलमला तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य हेतु डीपीआर निर्माण करने की कार्रवाई जारी है। शीघ्र ही इसका डीपीआर तैयार कर लिया जाएगा। श्री छारी ने बताया कि पुरूर से झलमला तक का राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने से संपूर्ण बालोद जिले में इस नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि बालोद जिले के पुरूर से लेकर सीमावर्ती मोहला-मानुपर-अंबागढ़ चैकी जिले के महाराष्ट्र सीमा पर स्थित ग्राम कोहका तक की कुल लंबाई 115.300 है। श्री छारी ने बताया कि पैकेज 02 के अंतर्गत बालोद जिले के सीमावर्ती ग्राम शेरपार से लेकर मोहला-मानुपर-अंबागढ़ चैकी जिले के अंतर्गत महाराष्ट्र सीमा पर स्थित ग्राम कोहका तक के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 का निर्माण कार्य लगभग 90 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है। इस तरह से बालोद जिले के पुरूर से लेकर मोहला-मानुपर-अंबागढ़ चैकी जिले के ग्राम कोहका तक इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य शत पूरा हो जाने पर छत्तीसगढ़ राज्य सहित बालोद एवं सीमावर्ती जिलों में सुगम एवं बेहतर यातायात सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। इस तरह से यह मार्ग सड़क एवं यातायात सुविधाओं की विस्तार के अलावा देश एवं प्रदेश के साथ-साथ बालोद जिले के विकास के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गटकरी द्वारा जिले के प्रभारी मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, लोक निर्माण मंत्री श्री अरूण साव एवं क्षेत्रीय सांसद श्री भोजराज नाग के विशेष प्रयासों से राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 930 के शेष कार्य के अंतर्गत पुरूर से लेकर झलमला तक के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी श्री छारी ने कहा कि कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के सतत दिशा-निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 930 के शेष निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा कराने हेतु तत्परता से कार्य किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप कुछ ही दिनों के पश्चात् राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 930 के रूप में गुणवत्तायुक्त एवं बेहतरीन पूरी तरह से मूर्त रूप ले लेगा।

सीमावर्ती जिलों तथा अन्य राज्यों तक आवागमन हुआ आसान

सुपेला में सात दिवसीय अखण्ड श्री रामनाम सप्ताह यज्ञ रामधुनी सम्मेलन आज से

भखारा ,13 सितम्बर (देशबन्धु)। भखारा तहसील क्षेत्र के ग्राम-सुपेला में विगत 57 वर्षों की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी 58 वीं सोपान तय करने पितृ पक्ष के अवसर पर समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से सात दिवसीय अखण्ड श्री रामनाम सप्ताह यज्ञ रामधुनी सम्मेलन का आयोजन 14 सितंबर से 21 सितंबर तक किया गया है। उक्त आयोजन 14 सितंबर रविवार से ग्राम पंचायत सुपेला की हृदयस्थल नया बाजार चौंक में प्रारंभ होगी इस धार्मिक कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के ख्यातिनाम रामधुनी मंडलियों को रामकथा गायन एवं झांकी के लिए आमंत्रित कर प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी ।जिसमें प्रतिदिन अलग-अलग मण्डलियाँ अपने निर्धारित समय में संगीतमय श्रीराम कथा की प्रस्तुति देंगे इस रामधुनी सम्मेलन में गायन और झांकी मंडलियों के लिए सांत्वना राशि की व्यवस्था समस्त ग्रामवासियों के द्वारा किया गया है ।जिसमें प्रत्येक प्रतिभागी मंडलियों के लिए 2601/- रुपए की सांत्वना राशि विशेष दान-दाताओं की ओर से प्रदान किया जाएगा ।इसके अलावा प्रत्येक मंडलियों को श्रीफल व रामटोकरी अलग से दिया जाएगा। उक्त जानकारी ग्राम विकास समिति अध्यक्ष मूलचंद साहू ने दी।

प्रादेशिकी का शेष...

नवरात्रि के पहले ...

साथ पानी पहुंचे महापौर अलका बाघमार ने राज्य शासन से 15वें वित्त के तहत 24 एमएलडी स्वीकृति के बाद मोटर पम्प खरीदी व नई पानी टंकी निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए है। साथ ही शिक्षक नगर पानी टंकी निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए है इसके अलावा शिवनाथ नदी को प्रदूषण से रोकने पुलगांव नाला व शंकर नाला में बनने वाले ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण कार्य चालू करने प्रक्रिया जल्द पूरी करने कहा हैं।

चेंबर अध्यक्ष थोरानी...

अध्यक्ष नगर पालिका दल्लीराजहरा , महामंत्री भाजपा जिला सौरभ लूनिया बालोद ,अमित कुकरेजा अध्यक्ष छ ग चेंबर आफ कामर्स इकाई दल्लीराजहरा ,कैलाश छाजेड़ अध्यक्ष अनाज किराना व्यापारी संघ , स्वाधीन जैन प्रदेश मंत्री ,छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी , छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स दुर्ग बालोद, दल्लीराजहरा इकाई के पदाधिकारी ,राजहरा व्यापारी संघ के पदाधिकारी सदस्य व राजहरा परिवहन संघ के सदस्य उपस्थित रहे।

डीपीएस राजनांदगांव की बालिकाओं ...

आर्या विजय अवारे ,कैथरिना नजारथ, नंदनी माधो प्रधान ,मुग्धा राजगुरू,एवं सौम्या पांडे ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया ।टीम के कोच अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक कालवा राजेश्वर राव ,सहायक कोच कुशल रजक, एवं मेनेजर फुलमत नेताम थी।

टीम के स्वर्ण पदक जीतने पर टीम उनके प्रशिक्षक को बधाईयाँ दी गई ।

समस्याओं की पहचान कर समाधान विकसित करें

भिलाईनगर, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्यपाल रमेन डेका आज रूंगटा इंटरनेशलन स्कील्स युनिवर्सिटी में नवप्रवेशी विद्यार्थियों के विद्यारंभ समारोह में शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने युनिवर्सिटी के ड्रोन क्लब का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल विधायक वैशाली नगर रिकेश सेन एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पाण्डे भी सम्मिलित हुए। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि जब आप रुगंटा कालेज से स्नातक होंग, तो आपके पास केवल एक डिग्री ही नहीं होगी, बल्कि आपके पास वैश्विक प्रौद्योगिकी परिदृश्य को परिभाषित करने वाली कंपनियों के प्रमाणपत्र भी होंगे। आपका रिज्यूमे एक ऐसी भाषा बोलेगा जिसे दुनिया भर के नियोक्ता समझते और सम्मान करते हैं। राज्यपाल ने कहा आप सभी रोज़गार की तलाश से आगे सोचे, रोज़गार सृजन के बारे में सोचें। समाज में समस्याओं की पहचान करने और ऐसे समाधान विकसित करने के बारे में सोचें जिनसे लाखों लोगों को लाभ हो सके। आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए डिज़ाइन की गई है। राज्यपाल ने कहा कि यहाँ की ड्रोन प्रयोगशाला इस बात का एक आदर्श उदाहरण है। ड्रोन केवल उड़ने वाले उपकरण नहीं हैंय वे ऐसे उपकरण हैं जो कृषि,

आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा वितरण और पर्यावरण निगरानी में क्रांति ला सकते हैं। जब आप इस प्रयोगशाला में प्रयोग और नवाचार करते हैं, तो याद रखें कि प्रत्येक परियोजना में जीवन को प्रभावित करने और समुदायों को बदलने की क्षमता है। राज्यपाल श्री डेका ने विद्यार्थियों से कहा किआज नियोक्ता ऐसे पेशेवरों की तलाश में हैं जो गंभीरता से सोच सकें, टीमों में काम कर सकें, प्रभावी ढंग से संवाद कर सकें राज्य के राज्यपाल के रूप मेंए मुझे कई सफल पेशेवरोंए उद्यमियों और अन्य लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला है। उन्हें सिर्फ़उनका तकनीकी ज्ञान ही नहींए बल्कि समस्याओं को सुलझाने की उनकी क्षमताए जोखिम उठाने की उनकी इच्छाशक्ति, दूसरों का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता और बदलाव लाने की उनकी प्रतिबद्धता भी अलग बनाती है। राज्यपाल श्री डेका ने कहा इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हुए मैं चाहता हूँ कि आप जिज्ञासु रहें हर चीज़ पर सवाल उठाएँ, हर अवसर का लाभ उठाएँ और सीखना कभी बंद न करें, सहयोगी बनें, सर्वोत्तम नवाचार तब होते हैं जब विविध विचार एक साथ काम करते हैं। राज्यपाल ने कहा कि आप कुशल पेशेवर, नवोन्मेषी उद्यमी और ज़िम्मेदार नागरिक बनकर उभरें राज्यपाल श्री डेका ने युनिवर्सिटी के प्रतिभावान छात्रों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। राज्यपाल और अन्य अतिथियों ने एक पेड़ मां के नाम योजना के अंतर्गत युनिवर्सिटी परिसर में वृक्षारोपण भी किए। सांसद श्री बघेल ने कहा कि भिलाई शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम गढ़ने जा रहा है। रूंगटा युनिवर्सिटी में देश ही नहीं विदेश से भी बच्चे यहां पढ़ने आए हैं। जिस भाव से बच्चे यहां आए हैए उनकी सभी भाव की पूर्ति करने में युनिवर्सिटी की शिक्षा पद्धति सहायक हो। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने कहा कि चेष्टा, बको ध्यानं, श्वान निद्रा, अल्पाहारी, गृहत्यागी, विद्यार्थियों को विद्यार्थी के उक्त पांच लक्षणों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उनको उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी।

जिला न्यायालय बेमेतरा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन

बेमेतरा, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। आज जिला न्यायालय बेमेतरा में वर्ष 2025 का तीसरा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री, प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दीप प्रज्जवलन कर लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उपस्थित न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण एवं न्यायिक कर्मचारियों को अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करने हेतु प्रोत्साहित कर शुभकामनाएं दी गईं। अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा ने कहा कि लोक अदालत पक्षकारों के बीच लंबे समय से चली आ रही वैमनस्यता को समाप्त करने का उत्कृष्ट माध्यम है। यह राष्ट्र सेवा का कार्य है, जिसमें सभी को बढ़-चढ़कर सहभागिता करनी चाहिए। न्यायालय में लंबित मामलों का समाधान कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना राष्ट्र के विकास में सहयोग है।

लोक अदालत में जिला न्यायालय प्रांगण में जिलेभर से पक्षकार उपस्थित हुए। उनकी सुविधा के लिए विधिक सहायता डेस्क, स्वास्थ्य डेस्क, स्वचलित चिकित्सकीय वेन तथा बैंक, विद्युत विभाग एवं फाइनेंस कंपनियों के डेस्क लगाए गए। आयोजन हेतु जिला न्यायालय में 8 खण्डपीठ तथा तहसील साजा न्यायालय में 1 खण्डपीठ गठित कर कुल 9 खण्डपीठ का गठन किया गया, जिनमें दो-दो सुलहकर्ता सदस्यों की नियुक्ति की गई। आयोजन में न्यायालयीन कर्मचारी, पैरालीगल वालंटियर्स, जिला प्रशासन, पंचायतें, नगर पालिका, विद्युत विभाग, बैंक सहित अन्य विभागों का सहयोग प्राप्त हुआ।

3 करोड़ 54 लाख 10 हजार रुपये की अवार्ड राशि वितरित

जिले में 9477 प्री-लिटिगेशन व लंबित प्रकरण निराकरण हेतु रखे गए थे। इनमें से राजस्व, विद्युत विवाद, बैंक एवं बीएसएनएल प्रकरणों का निराकरण कर कुल 39,88,867 की वसूली की गई।

न्यायालय में लंबित 35 आपराधिक प्रकरण, 14 सिविल प्रकरण, 28 पारिवारिक प्रकरण, 26 एनआई एक्ट धारा 138 प्रकरण, 22 मोटर दुर्घटना दावा तथा 2319 अन्य प्रकरणों का निराकरण कर कुल 3,14,21,419 का अवार्ड पारित किया गया। इस प्रकार जिले में कुल 3,54,10,286 की समझौता राशि वसूली गई।

जनजागरूकता गतिविधियाँ

नालसा एवं सालसा योजनाओं व अभियानों के प्रचार-प्रसार हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा द्वारा न्याय वृक्ष, द्वार तोरण एवं रंगोली के माध्यम से कानूनी विषयों पर जागरूकता प्रदर्शनी लगाई गई। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह, बलात्कार पीड़िता सहायता, साइबर अपराध जैसे विषयों पर पाम्पलेट वितरित किए गए। प्रेरणादायक सुविचार तख्तियों के माध्यम से पक्षकारों को आपसी विवाद दूर कर समझौता करने हेतु प्रेरित किया गया। परिवार की महत्ता बताते हुए परिवार न्यायालय के पक्षकारों को समझाइश दी गई। साथ ही लघु फिल्मों का प्रसारण कर घरेलू हिंसा, लैंगिक अपराध, महिलाओं से छेड़छाड़, साइबर क्राइम एवं मोटर दुर्घटना से संबंधित विषयों पर विधिक जानकारी दी गई। पक्षकारों की सुविधा हेतु बैठक व्यवस्था, पेयजल तथा प्राधिकरण की गतिविधियों की झलकियां भी प्रदर्शित की गईं। लोक अदालत में आये पक्षकारों को पौधों का निःशुल्क वितरण कर प्रोत्साहित किया गया। साथ ही सेल्फी जोन भी रखा गया।

प्रमुख प्रकरणों का निराकरण

मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण- मृतक मनहरण लहरे की दुर्घटना मृत्यु पर बीमा कंपनी द्वारा परिजनों को 20,00,000 क्षतिपूर्ति दी गई। निष्पादन प्रकरण- श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में 8,32,964 के स्थान पर 50,000 में समझौता। चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी के मामले में 2,46,780 की जगह 1,82,000 में समझौता हुआ।

चेक अनादरण आपराधिक अपील

आरोपी को मूल न्यायालय ने 3 माह कारावास व ?3,50,000 प्रतिकर का आदेश दिया था। लोक अदालत में आपसी समझौते से मामला ?3,00,000 में निराकरण हुआ। पति-पत्नी व भाई-भाई के झगड़े- न्यायाधीशों की समझाइश से आपसी राजीनामा कर लंबे समय से चले आ रहे विवाद समाप्त किए गए। विद्युत विभाग प्रकरण- विष्णु यदु की भैंस करंट लगने से मृत होने पर विभाग ने ?32,800 मुआवजा दिया।

पिता-पुत्र विवाद

भूमि विवाद मामले में पुत्रों ने पिता के जीवनपर्यंत सेवा व साथ निवास का आश्वासन देकर समझौता किया। परिवार न्यायालय में 28 प्रकरणों का निराकरण, 8 परिवार हुए एक कुटुम्ब न्यायालय बेमेतरा में कुल 28 प्रकरणों का निपटारा हुआ, जिनमें से 08 दंपत्तियों को पुनः साथ भेजा गया। 63 वर्षीय विधवा मां ने पुत्रों के विरुद्ध परवरिश का मामला दायर किया था। न्यायालय की समझाइश पर पुत्रों ने मां से माफी मांगकर परवरिश का आश्वासन दिया। 09 वर्ष साथ रहने के बाद तलाक का मामला दायर करने वाले पति-पत्नी ने बच्चों की खातिर विवाद समाप्त किया। 20 वर्ष साथ रहने के बाद अलग रह रहे दंपत्ति ने आपसी सहमति से मामला समाप्त किया। न्यायाधीश श्रीमती नीलिमा सिंह बघेल ने काउंसलिंग व समझाइश देकर दंपत्तियों को पुनः जोड़ा। विदा के समय उन्हें नारियल, तुलसी का पौधा एवं सप्तपदी के सात वचन भेंट किए गए।

राज्यपाल शिक्षक सम्मान प्राप्त करने वाले शिक्षकों का हुआ सम्मान

बेमेतरा, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। शासकीय प्राथमिक शाला कन्तेली में विगत दिनों वर्ष 2024 का राज्य शिक्षक सम्मान राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका श्रीमती सुनीता राजपूत जो शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कन्तेली की शिक्षिका है के साथ वर्ष 2025 हेतु राज्य शिक्षक सम्मान राज्यपाल पुरस्कार हेतु नामित शिक्षिका श्रीमती आंचल वर्मा का जो शासकीय प्राथमिक शाला कन्तेली में पदस्थ है का शाला की प्रधान पाठिका श्रीमती शीतल राजपूत एवं अन्य शिक्षकों के द्वारा सम्मान किया गया सभी शिक्षकों ने दोनों ही राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित एवं चयनित शिक्षकों का पुष्पगुच्छ से अभिनंदन किया तथा उन्हें शाला परिवार की ओर से बधाइयां एवं शुभकामनाएं प्रेषित की इस अवसर पर प्राथमिक शाला एवं पूर्व माध्यमिक शाला परिवार की ओर से पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के लिए कहा गया कि इनके द्वारा जो कक्षा में मेहनत की गई है तथा नवाचार किया गया है साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया गया है उसके लिए राज्य शासन ने जो इन्हें सम्मान दिया है वह बहुत ही गर्व की बात है विशेष रूप से दोनों ही शिक्षक ग्राम कन्तेली से आते हैं जो शाला परिवार को गौरवान्वित करता है कार्यक्रम में प्राथमिक शाला के प्रधान पाठिका श्रीमती शीतल राजपूत पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक परसराम साहु सहित शिक्षक गितेश मिश्रा श्रीमती प्रीति साहू श्रीमती नीता देशमुख प्रकाश सोनी श्रीमती कनक मैडम भी उपस्थित रहे ।

नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई : डॉ रोहलेडर

बेमेतरा, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। स्वास्थ्य विभाग जिला बेमेतरा में संचालित सभी निजी क्लिनिक, लैब एवं हॉस्पिटल को छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापना (अनुज्ञापन) अधिनियम 2010 एवं - नियम 2013 (नर्सिंग होम एक्ट) के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अमृत लाल रोहलेडर ने कहा कि प्रत्येक - क्लिनिक, लैब एवं हॉस्पिटल के लिए अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) और पंजीयन अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति संचालित किसी भी संस्था को अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसे संस्थानों के विरुद्ध नियमित प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस रहित - संस्थानों की जिम्मेदारी सीधे संचालक एवं प्रमुख चिकित्सक की होगी। मरीजों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण - स्वास्थ्य सेवाएं प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएमएचओ ने संचालकों से अपील की है कि वे - नियमों का पालन करते हुए अपने संस्थान को पंजीकृत कराएं और मरीजों को बेहतर - स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में प्रशासन का सहयोग करें।

■ बिना पंजीयन अस्पताल लैब के संचालन पर होगी कार्रवाई

सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

बेमेतरा, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। शहरवासियो की मांग पर विधायक दीपेश साहू एवं नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा ने मुख्य बाजारों का निरीक्षण कर अतिक्रमणकारियों को कड़ी चेतावनी दी।विधायक साहू ने कहा कि शहर में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण सहन नहीं किया जाएगा और न ही यातायात को बाधित होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर गली, हर मोड़ पर हमारा यही लक्ष्य है कि शहर मे स्वच्छ वातावरण, सुचारु यातायात, सुव्यवस्थित दुकाने एवं नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं यही हमारा लक्ष्य है. क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता है कि बेमेतरा का बाजार ना सिर्फ व्यापार का केंद्र बने बल्कि स्वच्छता और व्यवस्था का उदाहरण भी बने. वही नपा अध्यक्ष सिन्हा ने दुकानदारों से कहा कि दुकानों के आगे किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, अन्यथा पालिका प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। सिन्हा ने पालिका के अधिकारियो को भी निर्देश दिए कि समय-समय पर अभियान चलाया जाए ताकि बाजार में किसी तरह का अतिक्रमण न हो तथा दुकानदार अपने सामान को अपनी दुकान की सीमा के अंदर ही रखें।

उन्होंने निरीक्षण के दौरान रेहड़ी लगाने वालों को भी चेतावनी दी कि वे केवल निर्धारित स्थानों पर ही अपनी रेहड़ी लगाएं, अन्यथा उन पर भी कार्रवाई किया जाएगा। उन्होंने शहर को सुंदर बनाने के लिए सभी की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह तभी संभव है जब शहर में अतिक्रमण न हो। उन्होंने दुकानदारों से सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार ही अपना सामान अपनी जगह में रखने का आग्रह किया।

■ विधायक एवं नपा अध्यक्ष ने शहर का निरीक्षण कर लिया जायजा

नेशनल हाईवे में केमिकल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा, बड़ा हादसा टला

कुम्हारी, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। शनिवार सुबह नेशलन हाईवे खारुन ग्रीन कॉलोनी के पास एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया बताया गया कि टैंकर में सोडियम सिलिकेट आयल भरा हुआ था जानकारी लगते ही राहगीर एवं आस-पास निवास कर रहे लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि हादसे की सूचना मिलते ही कुम्हारी थाना प्रभारी योगेश्वर वर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत सड़क को सुरक्षित किया और जाम हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। नगर पालिका की टीम ने कॉलोनी और सड़क पर फैले केमिकल पर रेत की परत डलवाकर रिसाव को नियंत्रित किया। जानकारी के मुताबिक, मिनी ट्रक सीजी 04 एलएफ 7015 रायपुर से दुर्ग की ओर जा रहा था। ट्रक के पीछे डाले में केमिकल से भरा टैंकर था। अचानक टायर फटने से ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के पलटते ही पीछे रखा टैंकर सड़क पर गिर पड़ा और केमिकल सड़क पर फैलने लगा। टैंकर से गिरा केमिकल सड़क के रास्ते खारुन ग्रीन कॉलोनी तक पहुंच गया। जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली, अफरा-तफरी मच गई। यह आशंका बनी रही कि कहीं यह केमिकल ज्वलनशील न हो। लोग घरों से बाहर निकल आए और इलाके में घबराहट का माहौल बन गया। हादसे के चलते रायपुर-दुर्ग मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब एक घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। बाद में ट्रक को किनारे हटाकर यातायात बहाल किया गया। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

कलेक्टर ने कृषि केन्द्र, दुकानों का किया औचक निरीक्षण

कवर्धा, 13 सितंबर (देशबन्धु)। कलेक्टर ने खाद की उपलब्धता और नियमितता के लिए आज कवर्धा शहर के खाद-बीज विक्रय केन्द्रों और दुकानों का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान महावीर बीज भंडार की दुकान में उर्वरकों की उपलब्धता, मूल्य सूची और वितरण व्यवस्था की बारीकी से जांच की। उन्होंने महावीर बीज भंडार में खाद लेने आए किसानों से सीधे चर्चा कर विक्रय की स्थिति जानी और सही मूल्य पर उपलब्धता की पुष्टि की। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने किसानों को आश्वस्त किया कि यूरिया का रैक अगले सप्ताह सभी सहकारी समितियों तक पहुंच जाएगा। किसान अपनी समितियों के माध्यम से आसानी से यूरिया प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, उन्होंने खरीफ फसल की वर्तमान उत्पादन स्थिति की जानकारी भी किसानों से ली।

कलेक्टर श्री वर्मा ने दुकान में डी.ए.पी., यूरिया, पोटाश, एन.पी.के., एस.एस.पी. सहित अन्य रासायनिक उर्वरकों उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने मूल्य सूची का निरीक्षण करते हुए निर्देशित किया कि सभी विक्रेताओं को स्पष्ट और अद्यतन मूल्य सूची दुकान में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करनी चाहिए ताकि किसानों को भ्रम की स्थिति न हो। उन्होंने विक्रेताओं को से कहा कि किसानों को निर्धारित दरों पर ही खाद उपलब्ध कराई जाए, और किसी भी प्रकार की जमाखोरी या अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री वर्मा ने स्टॉक रजिस्टर का मिलान किया और वहां उपस्थित स्टाफ से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। उन्होंने खाद लेने आए किसानों से सीधे संवाद कर मूल्य, उपलब्धता और वितरण प्रणाली के संबंध में उनकी राय ली और संतुष्टि सुनिश्चित की। इस दौरान एसडीएम श्री चेतन साहू, तहसीलदार श्री परमेश्वर मंडावी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

■ कलेक्टर ने किसानों को निर्धारित मूल्य पर खाद विक्रय करने के दिए निर्देश

कलेक्टर ने किसानों से किया सीधा संवाद - कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि किसानों को खाद-बीज की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने किसानों से सीधा संवाद किया और खाद खरीदी की जानकारी ली। उन्होंने किसानों से अपील की कि यदि किसी दुकान में अनियमितता पाई जाती है, तो वे तत्काल जिला प्रशासन को सूचित करें। सभी शिकायतों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

महाविद्यालय में रक्तदान शिविर संपन्न

छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर किया रक्तदान, लगभग 70 यूनिट रक्त एकत्र

खैरागढ़, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। रानी रश्मि देवी सिंह शासकीय महाविद्यालय खैरागढ़ एवं शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 2025 के अंतर्गत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉ. ओ. पी. गुप्ता के निर्देशन में और प्रो. यशपाल जंघेल के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में लगभग 70 छात्र-छात्राओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। एकत्रित रक्त यूनिट्स मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव के ब्लड बैंक में डॉ.नीलम एवं डॉ. राजशेखर सिन्हा की टीम द्वारा सुरक्षित किए गए। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित संस्था के पूर्व रेडक्रॉस प्रभारी जे. के. वैष्णव ने रक्तदान को महादान बताते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं, रासेयो कार्यक्रम अधिकारी प्रो. यशपाल जंघेल ने छात्रों के उत्साह की सराहना करते हुए रक्तदान शिविर की सफलता पर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉ. मेधाविनी तुरे ने छात्र-छात्राओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। महाविद्यालय के स्वयंसेवकों में टिकेंद्र वर्मा ने 16 बार ताम्रध्वज वर्मा 15 बार और लीना वर्मा ने 3 बार ने अपना विशेष योगदान दिया। टिकेंद्र वर्मा एवं ताम्रध्वज वर्मा ने देहदान का संकल्प भी लिया। शिविर को सफल बनाने में सहायक प्राध्यापक सुरेश आडवाणी, सतीश माहला, सृष्टि वर्मा, भबीता मंडावी, मनीषा नायक, मोनिका जत्ती, डॉ. उमेंद चंदेल सहित महाविद्यालय परिवार, राष्ट्रीय सेवा योजना एवं यूथ रेडक्रॉस समिति के स्वयंसेवकों का सहयोग रहा। रक्तदान शिविर में रक्तवीर डॉ. संजय वर्मा, जिन्होंने अब तक 29 बार रक्तदान किया है, साथ ही हिमेश जांगड़े, तुलेश्वर वर्मा, अल्का शेष, गौरी यदु, पूजा वर्मा, सोनी मंडावी, नागेश वर्मा, चुम्मन वर्मा, नितेश साहू, देवेंद्र पटेल, प्रमोद सिन्हा, वर्षा वर्मा, राहुल साहू सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का संचालन रेडक्रॉस प्रभारी प्रो. यशपाल जंघेल ने किया तथा आभार प्रदर्शन डॉ. मेधाविनी तुरे ने किया।

नेशनल लोक अदालत में 27 हजार 152 लंबित प्रकरण का हुआ निराकरण

■ 4 करोड़ 82 लाख 51 हजार 533 रूपए से संबंधित वाद का किया गया निराकरण

■ नेशनल लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन

कवर्धा, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका न्यायालय के स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में आज नेशनल लोक अदालत आयोजित किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे द्वारा उक्त नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ विद्या की देवी सरस्वती माँ के फोटोचित्र पर पूजा, अर्चना, दीप प्रज्जवलित कर किया। तत्पश्चात् अन्य जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण उपस्थित पक्षकारगण एवं अन्य संस्थाओं बैंक, विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा भी दीप प्रज्जवलित किया गया।

नेशनल लोक अदालत में जिले में कुल 10 खण्डपीठ गठित किया गया था, जिसमें से 09 खण्डपीठ जिला मुख्यालय कबीरधाम में तथा 01 खण्डपीठ व्यवहार न्यायालय,पण्डरिया में गठित की गई थी। जिसमें राजीनामा योग्य समस्त दाण्डिक मामले, चेक बाउन्स के प्रकरण, समस्त प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण, मोटर दुर्घटना से उत्पन्न दावा प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय में लंबित वैवाहिक विवाद से संबंधित प्रकरण, इसके साथ ही प्री-लिटिगेशन (मुकदमा पूर्व वाद प्रकरण) यथा बिजली बिल, दूरभाष, बैंक लोन, जलकर से संबंधित प्रकरण रखे गए थे।

उल्लेखनीय है कि नेशनल लोक अदालत के खण्डपीठ क्रमांक 01 में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में कुल 61,40,000 रूपये की अवार्ड राशि पारित की गई। खण्डपीठ क्रमांक 02 परिवार न्यायालय कबीरधाम में पीठसीन अधिकारी लीलाधर सारथी द्वारा परिवार न्यायालय में वैवाहिक विवाद से संबंधित प्रकरण में कुल 30 प्रकरण का निराकरण करते हुए वैवाहिक संबंधो में मधुरता स्थापित करते हुए सुखद दाम्पत्य का पुर्नस्थापन किया गया। खण्डपीठ क्रमांक 03 पीठासीन अधिकारी श्रीमती योगिता विनय वासनिक द्वारा विद्युत प्रकरण में कुल 66,87,26 रूपये की राशि की वसूली करते हुए प्रकरण का निराकरण किया गया। इसी अनुक्रम में राजस्व न्यायालय में कुल 20,372 लंबित प्रकरणों का निराकरण करते हुए 4,964 लाभान्वित हितग्राहियों को कुल 3,93,61,343 रूपये का वितरण किया गया। इस प्रकार जिला न्यायालय कबीरधाम द्वारा उक्त लोक अदालत में वैवाहिक प्रकरणों में 30 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 3,56,450 रूपये का निराकरण, सिविल मामले में कुल 04 प्रकरण का निराकरण करते हुए 8,00,000 रूपये, राजस्व न्यायालय द्वारा 20,372 प्रकरण का निराकरण करते हुए 3,93,61,343 रूपये का निराकरण, नगर पालिका द्वारा जलकर से संबंधित मामलो में 220 प्रकरण में 2,41,164 रूपये तथा बीएसएनएल में 45 प्रकरण का निराकरण करते हुए 48,850 रूपये की वसूली की गई। इस प्रकार इस लोक अदालत में कुल 27,152 लंबित प्रकरण का निराकरण करते हुए 4,82,51,533 रूपये से संबंधित वाद का निराकरण किया गया।

लोक अदालत में समझौता के आधार पर परिवार का एकीकरण

परिवार न्यायालय, कबीरधाम में लंबित एक प्रकरण में एक दम्पत्ति के कुल 06 संतान है, जिनमें से मात्र 01 संतान अपनी माता के साथ निवासरत् है तथा शेष 05 संतान अपने पिता के साथ निवासरत् थे। पति शराब की लत के कारण अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता था, जिससे उसकी पत्नी तंग आकर अपनी एक पुत्री के साथ अपने मायके में निवास कर रही थी और अपने तथा अपनी पुत्री के लिए परिवार न्यायालय में मामला प्रस्तुत की थी। परिवार न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश श्री लीलाधर सारथी द्वारा उभयपक्ष को समझाईश प्रदान की गई जिससे उक्त पति-पत्नी के द्वारा एक-दूसरे की सभी शिकायतों को माफ करते हुए संयुक्त रूप से जीवन यापन करना स्वीकार किया गया। इस प्रकार लोक अदालत के द्वारा एक बिखरे हुए परिवार को समझौता के आधार पर एकीकरण कर संतानों को माता-पिता के संयुक्त वात्सल्य स्नेह की प्राप्ति कराई गई। उक्त नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के अनुक्रम में समस्त न्यायालयीन कर्मचारीगण, अधिवक्तागण, पैरालिगल वालिन्टियर्स, जिला प्रशासन, जिला पंचायत, नगर पालिका, पुलिस विभाग, समस्त बैंको सहित अन्य समस्त विभागों का भरपूर सहयोग रहा है।

नेशनल लोक अदालत की भव्यता बढ़ाने बनाया गया आकर्षक सेल्फी प्वाइंट

नेशनल लोक अदालत को यादगार बनाने सेल्फी प्वाइंट- नेशनल लोक अदालत की भव्यता देखते ही बन रही थी। जिला न्यायालय के प्रवेश द्वार पर यहां सेल्फी प्वाइंट बनाया गया था। जिसमें कोई भी पक्षकार अपनी मनमोहक फोटो तस्वीरों के माध्यम से जीवंत रख रहे थे।

शास. महाविद्यालय पाटन में रजत जयंती पर विकसित छत्तीसगढ़ सेमिनार

पाटन, 13 सितंबर (देशबन्धु)। शासकीय चंदूलाल चंद्राकार कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पाटन में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस च्रजत जयंतीज्ज के अवसर पर विकसित छत्तीसगढ़ 2047 विषय पर आयोजित सेमिनार में मुख्य वक्ता के रुप में भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा, जिला उपाध्यक्ष दिलीप साहू , नगर पंचायत एवं जनभागीदारी अध्यक्ष योगेश निक्की भाले, मंडल अध्यक्ष श्रीमती रानी बंछोर, प्राचार्य डॉ. नंदा गुरुवारा जी, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष प्रवीण मढ़रिया ने मंच पर मंचासिन होकर सेमिनार को संबोधित किया।

भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ एवं विकसित भारत के निर्माण में महाविद्यालय के छात्रङ्कछात्राओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। युवावस्था जीवन का वह चरण है, जहाँ ऊर्जा, उत्साह, नवाचार और कर्मशीलता अपने शिखर पर होती है। यदि इस क्षमता को सकारात्मक दिशा में लगाया जाए तो यह राज्य और राष्ट्र दोनों की प्रगति का सबसे मजबूत आधार बन सकती है। विकसित भारत के निर्माण के लिए सरकार सरकार नई शिक्षा नीति (हश्वक्र2020), आधुनिक पाठ्यक्रम, डिजिटल क्लासरूम और रिसर्च सुविधा, स्टार्टअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल इंडियाज्, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, युवा संसद कार्यक्रम, जैसे अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं चला रहे है। जिसका आप सभी लाभ लेकर आगे बढ़ सकते है और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में योगदान दे सकते है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके माध्यम से आप स्वयं तो मजबूत और आत्मनिर्भर बन सकते है।भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिलीप साहू ने कहा कि मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि योजना के मध्यम से सरकार लोन प्रदान कर रही है जो स्वरोजगार प्रदान करने में मदद कर रहा है। आप सभी देश के वो पीढी है जिसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। पहले जमाने का उदारहरण देकर बताया कि पहले स्कूल दूर होता था, मोबाईल गाड़ी नहीं होता था फिर भी लोग आते थे हम लोग पढ़ते थे।नगर पंचायत पाटन एवं जनभागीदारी अध्यक्ष श्री योगेश निक्की भाले ने कहा कि महाविद्यालय के छात्रङ्कछात्राएं केवल भविष्य के कर्णधार ही नहीं, बल्कि वर्तमान में भी समाज और राष्ट्र के विकास की धुरी हैं। वे ज्ञान, कौशल, अनुशासन और देशभक्ति की भावना से लैस होकर च्विकसित छत्तीसगढ़ज्ज और च्विकसित भारतज्ज के सपने को साकार कर सकते हैं। आप सब भारत की पहचान है और विकसित भारत की शान है।महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. नंदा गुरुवारा जी ने सभी अतिथियों का अभिनंदन कर स्वागत किया। प्राचार्य ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर महाविद्यालय में विभिन्न आयोजन सम्पन्न हुआ है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथङ्कसाथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर विभिन्न आयोजन समयङ्कसमय पर होता है। हस्स्र व रेडक्रॉस माध्यम से भी विभिन्न आयोजन होता है।इस अवसर पर केवलचन्द देवांगन, सागर सोनी, समीर बंछोर, आदित्य सवर्णी, विजयकांत वर्मा, चिरंजीव देवांगन, प्राध्यापकगण डॉ. डी.के. भारद्वाज , जागृत देशलहरे, प्रवीण जैन , डॉ, साधना राहटगांवकर , अन्य प्राध्यापकगण व छात्र-छात्राएं प्रमुख रुप से उपस्थित थे।

खैरागढ़ में सूर्य रथ का शुभारंभ

घर-घर पहुंचेगा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का संदेश

खैरागढ़, 13 सितंबर (देशबन्धु)। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिला कार्यालय परिसर, खैरागढ़ से सूर्य रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह विशेष रथ जिले के शहरी और ग्रामीण अंचलों में भ्रमण कर लोगों को रूफटॉप सोलर प्लांट के लाभ, सब्सिडी और वित्तीय सुविधाओं की जानकारी देगा। जिले में अब तक 340 उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है, जिनमें से 335 को मंजूरी मिल चुकी है। 10 घरों में सौर पैनल स्थापित हो चुके हैं, जबकि 46 घरों में कार्य जारी है। अधिकारियों का कहना है कि योजना से उपभोक्ताओं को मुफ्त और स्वच्छ ऊर्जा तो मिलेगी ही, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

सब्सिडी और वित्तीय लाभ

1 किलोवाट सोलर प्लांट पर 45,000 की सहायता वही 2 किलोवाट पर 90,000 वहीं 3 किलोवाट पर 1.08 लाख तक की सब्सिडी उपभोक्ताओं को केवल 10त्न डाउन पेमेंट करना होगा, शेष राशि 6त्न ब्याज दर पर 10 वर्षों तक की किस्तों में अदा की जा सकेगी। अतिरिक्त बिजली उत्पादन बेचकर उपभोक्ता आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे।

अभियान का दायरा

सूर्य रथ खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, साल्हेवारा, अमलीपारा, जालबांधा, अतरिया, पाण्डादाह और मुढ़ीपार समेत जिले के विभिन्न शहरी और ग्रामीण अंचलों में प्रचार-प्रसार करेगा। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान ऊर्जा आत्मनिर्भरता, प्रदूषण मुक्त बिजली और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम साबित होगा।

गांजा तस्करी पर खैरागढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो गिरफ्तार

खैरागढ़, 13 सितंबर (देशबन्धु)। केसीजी पुलिस के द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शुक्रवार को बड़ी सफलता हासिल की। खैरागढ़ङ्कपिपरिया बाईपास रोड के पास दबिश देकर दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 08 किलोग्राम गांजा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जब्त किए गए, जिसकी कुल कीमत लगभग 1,65,000/- आँकी गई है।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं—

योगेश तामशकर उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम ठाकुरटोला, थाना सोमनी हिमांशु देशलहरे उम्र 19 वर्ष निवासी मोहंदी, थाना भिलाई-3, जिला दुर्ग। पुलिस टीम ने आरोपियों से गांजा की कीमत लगभग 85,000/- परिवहन के लिए प्रयुक्त मोटरसाइकिल की कीमत 70,000/- एवं एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है।आरोपियों के खिलाफ थाना खैरागढ़ में धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। दोनों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

जिले की दुर्गम पहाड़ियों से मैदानी क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने पर जोर

कवर्धा, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। कबीरधाम जिले के सुदूर और वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण बैठक लेकर ठोस कदम उठाए। उन्होंने कहा कि बैगा जनजाति बहुल बोड़ला, पंडरिया और सहसपुर लोहारा जैसे दुर्गम विकासखण्डों से लेकर जिले के मैदानी और शहरी क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कलेक्टर श्री वर्मा ने निर्देश दिए कि जिले का व्यापक स्वास्थ्य रोडमैप (राडपैप) तैयार किया जाए, जिसमें प्रत्येक उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और जिला चिकित्सालय की वास्तविक स्थिति दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि जिले का एक बड़ा हिस्सा पर्वतीय और घने जंगलों से घिरा हुआ है, जहाँ विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा और अन्य आदिवासी परिवार निवास करते हैं। ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ सुलभ कराना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।

कलेक्टर श्री वर्मा ने जिले में भर्ती और मानव संसाधन पर जोर विशेष जोर दिया है। उन्होंने एनएचएम अंतर्गत संविदा पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि पहाड़ी और दूरस्थ गाँवों में स्वास्थ्य केंद्रों की



सुदृढ़ संरचना बनने से ग्रामीणों, विशेषकर बैगा परिवारों तक स्वास्थ्य सेवाएँ सुगमता से पहुँच पाएँगी। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अनुपमा तिवारी ने बताया कि स्टाफ नर्स सहित 33 प्रकार के मानव संसाधन के लिए 59 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इन भर्तियों के पूर्ण होने से वनांचल और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी राहत मिलेगी।

कलेक्टर श्री वर्मा ने बैठक में जिले में स्वास्थ्य केंद्रों भवनों की समीक्षा की। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 31 नए भवनों की आवश्यकता है। इसके अलावा 23 संस्थानों में बाउंड्रीवाल, 5 अतिरिक्त भवन और 7 मरम्मत योग्य भवन चिह्नित किए गए हैं। 10 संस्थानों में बिजली और पानी की समस्या है लेकिन वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध है। बैठक में राज्य शासन द्वारा स्वीकृत मेडिकल कॉलेज की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने कहा कि आगामी सत्र से मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने के लिए आयुष विभाग की इमारत को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर उपयोग किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन द्वारा राज्य शासन को विभागीय पत्र लिखने के निर्देश दिए। साथ ही जिला अस्पताल परिसर में मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने संबंधित विभाग को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने कहा कि जिले की भौगोलिक स्थिति चुनौतीपूर्ण है। बोड़ला, पंडरिया और सहसपुर लोहारा के अधिकांश गांव पर्वतों और जंगलों से घिरे हैं। यहाँ पहुँच मार्ग कठिन है, परंतु ऐसे क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि च्स्वास्थ्य सेवाएँ हर गाँव और हर परिवार तक पहुँचें, यही सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में सिविल सर्जन डॉ. केशव ध्रुव, वरिष्ठ शिशुरोग विशेषज्ञ डॉ. सलिल मिश्रा, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अनुपमा तिवारी, जिला नोडल अधिकारी डॉ. अनामिका पटेल सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी, चिकित्सक और कर्मचारी उपस्थित थे।

महाविद्यालय में पूर्व छात्रों का सम्मेलन

सहसपुर लोहारा, 13 सितंबर (देशबन्धु)। शासकीय गजानन माधव मुक्तिबोध महाविद्यालय सहसपुर लोहारा में छत्तीसगढ़ राज्य की 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती समारोह के अन्तर्गत भूतपूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन महाविद्यालय में किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त भूतपूर्व छात्र-छात्राओं ने अपने वर्तमान व्यवसाय व कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान किया। महाविद्यालय में वर्तमान अध्यनरत छात्र-छात्राओं को समय-समय पर महाविद्यालय में आकर उनके द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण व रोजगार के प्रति जागरूक करने की बात कही गई। इस कार्यक्रम में सत्र 2001 से लेकर 2024 -25 तक के भूतपूर्व छात्र-छात्राएं अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हुये। कार्यक्रम में महाविद्यालय के एन एस एस कार्यक्रम अधिकारी संदीप कुमार सोनकर, सुश्री काजल साहू, सुश्री अंजू महोबिया, डॉ खिलेश्वरी चंद्रवंशी, दीपक कुमार पटेल, डॉ रुपेश कुमार वर्मा , लक्ष्मीकांत वर्मा , गौरव जायसवाल एवं भूतपूर्व छात्र-छात्राओं के आपसी सहयोग से इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया गया।

जिला शिक्षाधिकारी दुर्ग से किया संघ प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकत

पाटन/उतई, 13 सितंबर (देशबन्धु)। मिशन लाइफ पोर्टल पर नोटिफिकेशन अपलोड नही करने वाले दुर्ग,धमधा, पाटन के 44 स्कूलो के प्रधान पाठक व प्रचार्यो का माह अगस्त का वेतन जिला शिक्षाधिकारी दुर्ग द्वारा रोक दिया गया है वही शिक्षकों को अनेक प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों को करने विभागीय अधिकारियो द्वारा लगातार दबाव डाला जा रहा है जिसके कारण शिक्षकों को मानसिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है वही अन्य शासकीय कर्मचारियो को प्रति शनिवार अवकाश शासन द्वारा दिया जाता है वही पर शिक्षक संवर्ग को शनिवार को सुबह स्कूल संचालन को भी विभागीय अधिकारियो द्वारा बंद कर अन्य सामान्य दिनों की तरह 10 से 4 बजे तक स्कूल संचालन का दबाव डालकर शिक्षकों का मानसिक व शारीरिक शोषण किया जा रहा है जिसके कारण शिक्षकों के मन मे शासन के इस निर्णय से अत्यधिक आक्रोश है युक्तिक्तकरण, पुरे दिन शनिवार शाला संचालन, कोर्ट का हवाला देकर पदोन्नति प्रक्रिया बाधित करने, शिक्षक संवर्ग के लिए ही ङ्कस्य हाजरी ऐप डाऊनलोड करने दबाव सहित कई प्रकार के शिक्षकों के हित के विरुद्ध लगातार शासन द्वारा आदेश जारी किया जा रहा है वही कोर्ट के आदेश के बाद भी श्रीमती सोना साहू जी की तरह सभी पात्र शिक्षकों को कर्मोंनती वेतनमान नही दिया जा रहा है अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह 30दिनों के अर्जित अवकाश से शिक्षकों को वंचित रखा गया है जिससे प्रतीत होता है की शासन शिक्षकों के शोषण लगातार कर रहे है अभी तक युक्तियुक्तकरण मे सैंकड़ो गड़बड़ी विभिन्न ब्लाक व जिलों से सामने आया है लेकिन शिक्षकों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को एक सिरे से अमान्य किये जा रहे है जबकि इसके ठीक उलट शासन को गड़बड़ी करने वाले अधिकारियो पर कार्यवाही किया जाना चाहिए नवीन शिक्षक संघ द्वारा लगातार प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह राजपूत के नेतृत्व मे विरोध किया जा रहा है उसी परिपेक्ष्य मे प्रदेश सचिव गिरीश साहू कोषाध्यक्ष अमितेश तिवारी जिला अध्यक्ष संजय मानिकपुरी ब्लॉक अध्यक्ष दीपक साहू के नेतृत्व मे जिला शिक्षाधिकारी दुर्ग से मुलाक़ात कर ज्ञापन सौपकर मिशन लाइफ पोर्टल मे वर्तमान मे नोटिफिकेशन अपलोड कर चुके समस्त प्रधान पाठक व प्रचार्यो का अगस्त माह का रुके हुए वेतन को भुगतान करने, शनिवार सुबह शाला संचालन करने के लिए निर्देश जारी करने, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने, अवकाश के समय किये गए कार्यों को सेवा पुस्तिका मे अर्जित अवकाश को संधारित करने, दुर्ग ब्लॉक के शिक्षकों का त्नक्कन्न कटौती एनपीएस की तरह किया जा रहा है जिसमे सुधार सहित विभिन्न मांगो को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है ज्ञापन सौपते समय प्रतिनिधि मंडल मे नंदिनी देशमुख, रूपा साहू, लक्ष्मीकांत नागवंशी सर, राकेश धनकर, मणिकांत मरकाम, विजयशंकर डहरिया,अशोक साव, ललन प्रसाद, शशिलता साहू आदि उपस्थित थे।

44 प्रधान पाठक व प्राचार्य के रोके गए वेतन को देने व शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने सहित विभिन्न मांगों को लेकर

ठेलकाडीह पुलिस ने ली 30 से अधिक नशेबाजों की परेड, लिखवाया निबंध और दी चेतावनी

खैरागढ़, 13 सितंबर (देशबन्धु)। केसीजी पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ जिला पुलिस की मुहिम लगातार तेज होती जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार 12 सितंबर को थाना ठेलकाडीह पुलिस ने एक विशेष कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग करने वाले 30 से अधिक लोगों को पकड़कर थाने में परेड कराई। थाने में लाए गए इन सभी लोगों को पुलिस अधिकारियों ने सख्त चेतावनी दी और नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया। इसके अलावा उन्हें निबंध लिखवाकर नशा छोड़ने की शपथ दिलाई गई। पुलिस ने सभी को समझाया कि नशाखोरी न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए घातक है बल्कि इससे परिवार, समाज और भविष्य भी प्रभावित होता है। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने युवाओं को विशेष रूप से यातायात नियमों का पालन करने और साइबर फ्रॉड से बचने की हिदायत भी दी। यह प्रयास युवाओं में अनुशासन और जागरूकता लाने की दिशा में एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई नशे के खिलाफ जिलेभर में चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। इससे पहले खैरागढ़ और गंडई थाना क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की कार्यवाही की गई थी। आने वाले दिनों में इस अभियान और भी कड़ा किया जाएगा ताकि जिले में नशाखोरी और इससे जुड़ी आपराधिक गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके।

जिला पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नशामुक्त समाज बनाने में प्रशासन का सहयोग करें और अपने परिवार व बच्चों को नशे से दूर रखने का संकल्प लें।

सेजेस कुगदा में एआई विषय पर संकुल स्तरीय सेमिनार

कुम्हारी, 13 सितंबर। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय कुगदा में विद्यालय के छात्र-छात्राओं व शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) विषय पर संकुल स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में बी.आई.टी. दुर्ग के प्रोफेसर डॉ अभिषेक चक्रवर्ती ने स्लाइड शो माध्यम से इस विषय की बारीकियों से प्रतिभागियों को प्रभावी ढंग से जानकारी दी । उन्होंने यह कहा कि आगामी युग ए.आई. का है इस युग में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी न किसी कौशल विद्या में हमें पारंगत रहने की आवश्यकता है।

लछनाटोला के डुबान क्षेत्र के विस्थापितों से विधायक हर्षिता ने मिल सुनी समस्या

डोंगरगढ़, 13 सितंबर (देशबन्धु)। विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ग्राम पंचायत लछनाटोला में प्रस्तावित नए बांध के डूबान क्षेत्र में आने वाले ग्रामीणों से मिलीं। यह मुलाकात ग्रामीणों के विस्थापन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनके पुनर्वास और उचित मुआवजे के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि यह बांध क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी ग्रामीण को विस्थापन के कारण परेशानी न हो। आपको सरकार की नीतियों के अनुसार पूरा मुआवजा और पुनर्वास की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विस्थापित होने वाले सभी परिवारों का सही से सर्वे करें और उनके पुनर्वास के लिए योजना तैयार करें।इस दौरान नवाज खान पूर्व अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक,भीखम सिंह सुरजीत सिंह मंडल अध्यक्ष चंद्रेश यादव मंडल उपाध्यक्ष महेंद्र वर्मा घासी राम यादव अशोक धुर्वे कमलेश वर्मा सरपंच लछना लालतू राम उप सरपंच लछना दिनेश मरकाम हरेश्वर मांडवी सेक्टर अध्यक्ष प्रकाश मांडवी पूर्व जनपद अध्यक्ष पति परमा समरू सुकू खेदू भूखाऊ ललित बीरेंद्र राजकुमारी लता कांति मोहन रतन सीताराम फुदुक रामावतार परमा जयला नम्मू पन्ना बबलू समस्त कांग्रेसी जन एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने बिजली पोल शिफ्टिंग और पाइप लाइन बिछाने व कनेक्शन कार्य को एक सप्ताह में पूर्ण करने के दिए निर्देश

कवर्धा, 13 सितंबर (देशबन्धु)। कलेक्टर ने नगर पालिका अध्यक्ष के साथ आज कवर्धा में चल रहे 11 करोड़ रुपए की लागत से ठाकुर देव चौक से हाईटेक बस स्टैंड तक सड़क चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने निर्माण कार्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं की बारीकी से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री वर्मा ने निरीक्षण के दौरान बिजली पोल शिफ्टिंग के कार्य को प्राथमिकता से एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही पाइप लाइन बिछाने और पानी के कनेक्शन की समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान तहसीलदार ने जानकारी दी कि श्री गुप्ता ने पहले अपने अतिक्रमण हटाने के लिए सहमति दी थी और घर एवं व्यावसायिक परिसर को स्वयं तोड़ने की बात कही थी, लेकिन अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। उनके साथ अनेक बार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बैठक कर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया। लेकिन श्री गुप्ता द्वारा अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया, इस पर कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए श्री गुप्ता को नोटिस जारी कर शीघ्र अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री वर्मा ने इस दौरान संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य को तय समय सीमा में हर हाल में पूर्ण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क निर्माण कार्य पूरी तरह गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो। निर्माण सामग्री से लेकर लेवलिंग, ड्रेनेज और डामरीकरण तक हर स्तर पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण कार्य की नियमित निगरानी, मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि निर्माण कार्य के दौरान नागरिकों को कम से कम असुविधा हो।

- **अतिक्रमण के दायरे में आए दुकान और व्यावसायिक संस्था को हटाने के दिए सख्त निर्देश**
- **निर्माण कार्य में गुणवत्ता और नियमित कार्यों की मॉनिटरिंग करने के दिए निर्देश**

नगर सौंदर्यीकरण और सुव्यवस्थित विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है कवर्धा

कबीरधाम जिले का प्रमुख नगर कवर्धा, च्समृद्ध कवर्धा - सुव्यवस्थित कवर्धाज्ज के मॉडल शहर के रूप मे कवर्धा को विकसित किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुसार और उपमुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से नगर को सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की गई हैं। 11 करोड़ रूपए की लागत से 4.20 किलोमीटर ठाकुर देव चौक से हाईटेक बस स्टैंड तक की चौड़ी और पक्की सड़क इस योजना का एक अहम हिस्सा है, जिससे आवागमन सुगम होगा और यातायात दबाव कम होगा। इस मार्ग के उन्नयन से शहरवासियों को ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी और हाईटेक बस स्टैंड का बेहतर कनेक्टिविटी से लाभ मिलेगा।

सड़क निर्माण कार्य से कवर्धा शहर के बुनियादी ढांचे को मिलेगी मजबूती

सड़क के निर्माण से क्षेत्र में बढ़ते यातायात दबाव को भी नियंत्रित किया जाएगा, और यह कवर्धा शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। नए सड़क मार्ग से हाईटेक बस स्टैंड तक पहुंचना और भी आसान होगा, जिससे स्कूली छात्रों, व्यापारियों, यात्रियों और अन्य वर्गों को बड़ी सुविधा मिलेगी। यह सड़क कवर्धा के यातायात तंत्र का मजबूत हिस्सा बनेगी, जिससे दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों और अन्य शहरों से जुड़ने वाले मार्ग और भी प्रभावी होंगे। बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापारिक गतिविधियां भी तेज होंगी, स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, और समय की बचत होगी।

उल्टा पुल्टा

पापा - बेटा 5 के बाद क्या आता है...?.बेटा - 6 और 7 पापा....पापा - शाबाश बेटा मेरा तो बहुत इंटेलीजेंट है अच्छा तो 6, 7 के बाद.
बेटा - 8, 9, 10.
पापा- और उसके बाद...?
बेटा - और उसके बादगुलाम, बेगम और बादशाह...!

नाला के ऊपर सड़क पर रेलिंग नहीं डर-डरकर सफर करने मजबूर राहगीर

फिंगेश्वर के सरगी नाला की दुर्घटना को सुनकर लोग आज भी सिहर उठते

राजिम, 13 सितंबर (देशबन्धु)। क्षेत्र के सड़कों की हालात इन दिनों खस्ता हाल है। चाहे वह एन एच हो या फिर गांव व गली मोहल्ले में जाने वाली सड़क सभी में गड्ढे ही नजर आ रहे हैं ऐसे में राहगीरों को मुश्किल भरी सफर करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक से लेकर तहसील ऑफिस तक सड़क में गड्ढे ही गड्ढे नजरआ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा गड्ढे को पाटने का कार्य तो किया जा रहा है लेकिन वह नाकाफी है। तहसील ऑफिस से जैसे ही आगे बढ़ते हैं एक नाला दिखाई देता है जिनके ऊपर पुल बनाकर सड़क बना दिया गया है लेकिन उनके दोनों किनारे विभाग रेलिंग लगाना भूल गए हैं कई लोग गिर भी रहे हैं। परसों एक बाइक सवार साइड नहीं मिलने के चक्कर में सीधे नाले में जाकर गिरे गनीमत है कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई वरना कोई बड़ी हादसा से इनकार नहीं किया जा सकता है। सड़क के दोनों किनारे खुला होने के कारण यहां आते ही यात्री बड़ी सावधानी से गाड़ी चलाते हैं थोड़ी सी भी नजर हटा तो दुर्घटना घटी वाली कहावत चरितार्थ होती है। उल्लेखनीय है कि इसी मार्ग से होकर ब्लॉक मुख्यालय फिंगेश्वर और महासमुंद शहर के लिए यात्रीगण प्रस्थान करते हैं। इसी सड़क से होकर बागबाहरा, झलप, पिथौरा, उड़ीसा भी पहुंच जाता है। इसके चलते हमेशा चौबिसों घंटे आवागमन का दबाव रहता है। वैसे भी इसी मार्ग पर तहसील कार्यालय एवं एसडीएम कार्यालय मौजूद है। कहना होगा कि इस दफ्तर से उनकी दूरी महज डेढ़, दो सौ गज होगी। इन्हीं से लगा हुआ तकरीबन इतनी ही दूरी पर राजिम विधायक का निवास है। कृषि उपज मंडी तकरीबन नाला से 500 गज की दूरी पर है। कॉलेज भी इसी मार्ग से छात्र-छात्राएं पहुंचते हैं। किसान और छात्र-छात्राएं प्रतिदिन आना-जाना करते रहते हैं। इसके अलावा आसपास के गांव के विद्यार्थी बड़ी संख्या में स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए राजिम शहर पहुंचते हैं। इतने व्यस्त होने के बावजूद छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 25 साल बाद भी नाला के ऊपर सड़क पर रेलिंग नहीं लगाया जाना संबंधित विभाग के नासमझी को जाहिर करती है। बताना होगा कि इन 25 सालों में 13 साल तक कांग्रेस के विधायक राजिम विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। 12 साल तक भाजपा के विधायक बन रहे वर्तमान में भी भाजपा के ही विधायक है। इस संबंध में स्थानीय राहगीरों से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि फिंगेश्वर सरगी नाले में कुछ महीने पहले उनके ऊपर बने सड़क में रेलिंग नहीं होने के कारण कार सीधे नीचे जा गिरी। इससे तीन लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी यह घटना सुनते ही आज भी लोग सिहर जाते हैं। नाले के ऊपर बनी सड़क पर रेलिंग लगाना अत्यंत जरूरी हो गया है लेकिन यहां कि शासन प्रशासन और सरकार ध्यान नहीं दे रही है यह चिंता का विषय हो गया है। इन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव, राजिम विधायक रोहित साहू तथा पीडब्ल्यूडी विभाग के शीर्षस्थ अधिकारियों से मांग किया है कि सड़क के दोनों किनारे रेलिंग लगाया जाए।

डेढ़ सौ गज की दूरी पर विधायक निवास, 200 गज की दूरी पर एसडीएम और तहसील कार्यालय मौजूद

शराबी शराब खरीदने इसी मार्ग से होकर पहुंचते हैं

इसी मार्ग से होकर शराब खरीदने के लिए बड़ी संख्या में शराबी पहुंचते हैं। इनमें से साइकिल से आने जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है। अक्सर वह लड़खड़ाते हुए आना-जाना करते हैं कहीं धोखे से भी गिर गए तो जान जोखिम में डालने के बराबर हो जाएगी। यदि सुरक्षा घेरा लगा रहेगा तो गिरने से बचा जा सकता है। बताया जाता है कि एक ही किनारे को लिया जाए तो इनकी लंबाई तकरीबन 100 फीट होगी इस तरह से दोनों ओर को मिला दिया जाए तो 200 फीट की रेलिंग लगाने से राहगीर सेफहो जाएंगे। इन्हें सीमेंटेड या फिर लोहे के राड़ लगाकर सुरक्षा घेरा बनाया जा सकता है। यह भी बताना जरूरी हो जाता है कि राजिम धर्म नगरी है जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटक पहुंचते हैं उन्हें साफसुथरी और अच्छी सड़क देना जरूरी है ताकि पर्यटकों के लिए यह स्थान पसंदीदा बन सकें।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में अल्ट्राटेक कुकुरदी का सराहनीय पहल

बलौदाबाजार, 13 सितंबर (देशबन्धु)। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अल्ट्राटेक कुकुरदी सीमेंट संयंत्र के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) विभाग द्वारा सेम्हराडीह ग्राम पंचायत की महिला प्रतिनिधियों का जागरूकता भ्रमण संयंत्र में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम इकाई प्रमुख पवन कुलकर्णी के दिशा निर्देश व एचआर प्रमुख प्रतीक भटनागर एवं जितेन्द्र सिंह तनवर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

इस प्रेरणादायक भ्रमण में ग्राम पंचायत सेम्हराडीह की सरपंच श्रीमती प्रमिला वर्मा के नेतृत्व में आठ महिला पंचो जिसमें श्रीमती पूनम यदु, श्रीमती धिरजा ध्रुव, श्रीमती प्रमिला शर्मा, श्रीमती नीतू यदु, श्रीमती सरिता यादव, श्रीमती लकेश्वरी साहू, श्रीमती किर्ती गिरी एवं श्रीमती उत्तरा ध्रुव भाग लिए। संयंत्र भ्रमण के दौरान महिला प्रतिनिधियों का स्वागत संयंत्र की महिला कर्मचारियों द्वारा पुष्प भेंट कर किया गया। इसके पश्चात सभी ने मंदिर जाकर सामूहिक प्रार्थना की। संयंत्र की महिला कर्मचारियों ने अपने कार्यों और जिम्मेदारियों की जानकारी साझा कीए जिससे महिला प्रतिनिधियों को प्रेरणा मिली। भ्रमण के दौरान संयंत्र में स्थापित विभिन्न संरचनाओं, उपकरणों और निर्माण प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। साथ ही (ब्ै) विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों की भी विस्तार से जानकारी दी गई। ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती प्रमिला वर्मा ने भ्रमण के पश्चात कहा इस प्रकार के शैक्षणिक भ्रमण से हमें पंचायत में भी अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और संयंत्र के साथ पंचायत का रिश्ता और अधिक मजबूत होगा साथहि सी.एस.आर. (सीएसआर) विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की और संयंत्र को धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस कार्यकम को सफल बनाने में एचआर विभाग से अक्षायनी मोहंती, रितिका गौतम, रिम्पी यादव ईआर विभाग से मेघा पटनायक, अंजली वर्मा प्रोसेस विभाग से चंचल महर मेकेनिकल विभाग से सिमरन इलेक्ट्रिल विभाग से पायल साहू एवं माईंस से तान्या पाल के साथ साथ ईआर विभाग प्रमुख अंतर्यामी समल, संतोष मिश्रा, अरूण पाठक, सुरक्षा विभाग से बलराम सिंग भाटि, अभिषेक तेवतिया, संजीव मिश्र एवं वृजेश दुबे, भूमि एवं विधि विभाग से कार्तिकेश बघमार तथा सीएसआर विभाग से राजेन्द्र कुशवाहा व दया वर्मा का विशेष योगदान रहा।

शतरंज प्रतियोगिता अहमदाबाद के लिए दीपांशु रवाना

महासमुंद, 13 सितंबर (देशबन्धु)। केंद्रीय विद्यालय संगठन की 54 वीं राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन 15 से 19 सितंबर तक अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया है, इस प्रतियोगिता में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय महासमुंद के छात्र दीपांशु पटले पिता संदीप पटले का चयन हुआ हैं। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से पांच छात्रों का चयन किया गया है, जिसमें सत्यम वर्मा राजनांदगांव, दीपांशु पटले महासमुंद, मयंक श्रीवास्तव कोंडागांव, वरुण सोनी सरगुजा, प्रत्यूष ताम्रकार दुर्ग शामिल हैं। विगत 3 वर्षों से दीपांशु पटले शतरंज की जिला व राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर जिले को गौरवान्वित कर रहे हैं। भारतीय शतरंज खिलाड़ी प्रवीण थिप्से जिन्हें थ्क्म् ग्रैंडमास्टर का खिताब प्राप्त है से दीपांशु की 3 साल पहले आयोजन के दौरान मुलाकात हुई थी जिसमें दीपांशु ने प्रोत्साहित होकर खेल में ऊंचाई एवं उपलब्धी हासिल करने में सफलता मिल रही हैं। वर्तमान में दीपांशु का इंटरनेशनल रेटेड 1578 रेटिंग है। दीपांशु के नेशनल शतरंज प्रतियोगिता में शामिल होने पर खेल अधिकारी मनोज धृतलहरे, राज्य व जिला शतरंज संघ हेमंत खूंटे, केंद्रीय विद्यालय महासमुंद के प्राचार्य संजय कंसल, शिक्षक दशरथ राज यादव, खेल शिक्षक सोहनलाल, डॉ एन के मंडपे, कमलकांत लोधी, पूनम पटले, संदीप पटले, सपना अंकुर मेश्राम, संगीता निलेश सोनपिपरे ने हर्ष व्यक्त करते हुए अच्छे प्रदर्शन करने शुभकामनाएं दीं।

रजत जयंती केवल एक पड़ाव नहीं, यह हमारी सामूहिक यात्रा और प्रगति का प्रतीक : विधायक

महासमुंद, 13 सितंबर (देशबन्धु)। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय महासमुंद में शनिवार को छग रजत जयंती समारोह के अंतिम दिवस के रूप में समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, विशेष अतिथि के रूप में देवीचंद राठी उपाध्यक्ष नगर पालिका महासमुंद, सतपाल सिंह पाली अध्यक्ष महाविद्यालय जनभागीदारी समिति, डॉ मंजू शर्मा सजभा समिति, रीतेश गोलछा सजभा समिति, सुजाता विश्वनाथन सजभा, पीयूष साहू पार्षदए रमेश साहू एवं शरद राव आदि उपस्थित रहें। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रमुख प्राचार्य प्रो डॉ अनुसुइया अग्रवाल ने की तथा कार्यक्रम के संयोजक के रूप में वरिष्ठ प्राध्यापक हिंदी श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर रही। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के पूजन अर्चन से हुई। तत्पश्चात कार्यक्रम में आये सभी अतिथियों का क्रमशः पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया गया। स्वागत उद्बोधन की कड़ी में संस्था प्रमुख डा अग्रवाल ने कहा की आज का यह दिन हमारे लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का क्षण है कि हमारे बीच विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा सहित विशिष्ट अतिथि एवं गणमान्यजन पधारे हैं। छत्तीसगढ़ की रजत जयंती केवल बीते 25 वर्षों का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारे राज्य की सामूहिक उपलब्धियों और भविष्य की आकांक्षाओं का प्रतीक है। नगर पालिका के उपाध्यक्ष देवीचंद राठी ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ की रजत जयंती हम सबके लिए आत्ममंथन और नई ऊर्जा का अवसर है। राज्य ने शिक्षा और विकास की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं, उन्हें और आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। श्वहींए जनभागीदारी समिति अध्यक्ष ने कहाकृश्यह रजत जयंती केवल सरकार की नहींए बल्कि हर नागरिक की जयंती है। जब समाज और शिक्षा संस्थान मिलकर काम करते हैं तभी विकास का वास्तविक स्वरूप सामने आता है। हमें मिलकर आने वाले 25 वर्षों को स्वर्णिम छत्तीसगढ़ बनाने का संकल्प लेना होगा। कार्यक्रम को अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। समापन कार्यक्रम में छग रजत जयंती के प्रारंभिक दिवस 08 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक हुए विभिन्न कार्यक्रमों के विजेता छात्र.छात्राओं को अतिथियों द्वारा मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित एवं पुरुष्कृत किया गया। भाषण प्रतियोगिता में ट्विंकल साहू बीएससी तृतीय सेमेस्टर को प्रथम स्थान, हेमलता निषाद बीए तृतीय वर्ष को द्वितीय स्थान, शिवानी दवे बीए तृतीय सेमेस्टर को तृतीय स्थान मिला। पोस्टर प्रतियोगिता में तोशिका प्रथम, ऋतु साहू द्वितीय, श्रद्धा साहू तृतीय स्थान मिला। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में ग्रुप बी और सी ने क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। जिसमें विजयलक्ष्मी साहू, रितु साहू, जिज्ञासा चंद्राकर, हेमलता निषाद, तोशिका सिन्हा, कशिश चंद्राकर, मानसी छत्री, माहेनूर खान, अदिति साहू एवं श्रद्धा साहू रहें। संचालन रवि देवांगन प्रोफेसर अर्थशास्त्र ने किया।

विजयी प्रतिभागियों को दिया गया पुरस्कार

मात्र 5 रुपए में भोजन की सुविधा श्रमिक हितैषी कदम : महापौर

धमतरी, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिलेभर में रजत जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में श्रम विभाग द्वारा आज अग्रसेन भवन धमतरी में श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षण, पंजीयन एवं नवीनीकरण शिविर का सफल आयोजन हुआ।

मुख्य अतिथि नगर निगम महापौर रामू रोहरा ने भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महापौर श्री रोहरा ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में 2.50 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण होना प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने श्रमिकों को श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया द्य उन्होंने कहा कि शासन की श्रम अन्न सहायता योजना के तहत मात्र 5 रुपए में भोजन की सुविधा को श्रमिक हितैषी कदम है।

उन्होंने शिविर में श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना अंतर्गत तीन हितग्राहियों को चेक वितरित किए गए, जिनका भुगतान डीबीटी के माध्यम से होगा।

श्रम पदाधिकारी ने बताया कि शिविर में मोबाइल मेडिकल यूनिट से 75, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से 300, स्वास्थ्य विभाग से 72 और आयुष विभाग से 120 श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां दी गईं। साथ ही 15 नए हितग्राहियों का पंजीयन एवं एक हितग्राही का नवीनीकरण किया गया। शिविर में पंजीयन, नवीनीकरण तथा श्रम अन्न सहायता केंद्र से भोजन वितरण की व्यवस्था भी की गई। श्रम पदाधिकारी एन.के. साहू ने विभागीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए श्रमिक कल्याण की दिशा में की गई उपलब्धियों का उल्लेख किया तथा श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग की जानकारी दी। इस अवसर पर महेन्द्र पंडित, मनसुख अग्रवाल, विजय शर्मा, राजेश गोलछा, श्री सांखला, ईश्वर सोनकर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी व श्रमिक उपस्थित रहे।

- छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव
- श्रमिकों के स्वास्थ्य जांच शिविर में 500 से अधिक श्रमिक हुए शामिल

स्टाम ड्यूटी बढ़ाने से राइस मिलरों पर पड़ेगा 60 करोड़ का अतिरिक्त भार : चोपड़ा

महासमुंद, 13 सितंबर (देशबन्धु)। राइस मिलर्स एसो. के अध्यक्ष पारस चोपड़ा ने कस्टम मिलिंग के अनुबंध में लगने वाले स्टाम शुल्क में छूट देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राइस मिल कस्टम मिलिंग के लिए मार्कफेड के साथ अनुबंध करते है। हमारे द्वारा धान उठाव के लिए विभिन्न बैंकों से जारी गारंटी जमा की जाती है। कस्टम मिलिंग के माध्यम से किसानों द्वारा शासन से व्यापक पैमाने पर खरीदे गए धान का निराकरण होता है और मिलिंग उपरांत प्रत्तद चावल पूरे देश एवं प्रदेश में पीडीएफ के तहत वितरित किया जाता है। इस प्रकार राइस मिलर्स द्वारा शासन के लोकहित कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। अभी तक कस्टम मिलिंग कार्य हेतु जारी बैंक गारंटी में ढाई रुपए का स्टाम डूयटी लगता है लेकिन अब स्टाम शुल्क कोढाई रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दिया गया है जो मिलिंग व्यवसाय के हित में कुठाराघात साथ ही कस्टम मिलिंग गति में अवरोध साबित होगा। श्री चोपड़ा ने छग प्रदेश राईस मिलर्स एसो. के अध्यक्ष क्रांतीलाल बोथरा >> शेष पृष्ठ 9 पर >

बैंक गारंटी में ढाई सौ के स्टाम पर 25 हजार रुपए बढ़ाया गया स्टाम ड्यूटी

रजत जयंती पर शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय, धमतरी में पौधारोपण कार्यक्रम

धमतरी, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय, धमतरी में रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. अनीता राजपुरिया के मार्गदर्शन में समाजशास्त्र विभाग द्वारा आज पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. अनीता राजपुरिया ने किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधों के महत्त्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, हरित और संतुलित पर्यावरण ही मानव जीवन की आधारशिला है तथा वृक्षारोपण से ही हम आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण और जीवनदायिनी संसाधन सुरक्षित कर सकते हैं। समाजशास्त्र विभाग के प्राध्यापकों और छात्राओं ने उत्साहपूर्वक विभिन्न प्रकार के छायादार एवं फलदार पौधों का रोपण किया। छात्राओं ने इस कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन समाजशास्त्र विभाग की प्राध्यापक डॉ जे. एल. पाटले द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सभी प्राध्यापक व छात्राएं उपस्थित थे।

पं. बंगाल में अराजकता और अशांति है जबकि छत्तीसगढ़ शान्त प्रदेश : विधायक घोष

नवापारा, 13 सितंबर (देशबन्धु)। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायक सुशांत घोष ने भाजपा प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज, अभियान के सदस्य श्यामाप्रसाद चक्रवर्ती एवं राजीव चक्रवर्ती के साथ अभनपुर विकासखण्ड के पिपरौद कालोनी दौरा किया। इस कालोनी में बंगाली समुदाय के लोग निवास करते है। श्री घोष ने कहा कि प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी बंगाल में यह दुष्प्रचार कर रही है कि भाजपा शासित राज्यों में बंगाली समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि हमें शासन की ओर से सारी सुविधाएं मिल रही है, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है।

स्थानीय निवासियों ने प्रवासी विधायक श्री घोष को महतारी वंदन योजना, कृषि कल्याण योजना की जानकारी दी। गौरतलब है कि पिपरौद कालोनी एक शरणार्थी बस्ती है, यहां पर बंगाली समुदाय के लोग निवास करते हैं। विधायक श्री सुशांत घोष ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है जबकि पश्चिम बंगाल में अराजकता और अशांति व्याप्त है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को सफल बनाने के लिए सभी देशवासी देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं पर पश्चिम बंगाल व अन्य कुछ राज्य के लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत के अवधारणा के विपरीत कार्य पद्धति बनाये हुये हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है। हम भी उनके कार्यों का अवलोकन करने के लिए छत्तीसगढ़ आये हुये हैं।

श्री घोष ने कहा ममता बैनर्जी बंगाल में दुष्प्रचार कर रही है कि भाजपा शासित राज्यों में बंगाली समुदाय के साथ भेदभाव किया जा रहा ,स्थानीय लोगों ने कहा हमें शासन से सारी सुविधाएं मिल रही हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं

छत्तीसगढ़ में केन्द्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है : अशोक बजाज

वरिष्ठ नेता प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज जी ने शासन व्यवस्था के बारे में बताया कि छत्तीसगढ़ में सबका साथ सबका विकास पर आधारित योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। केन्द्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। इस कारण से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय को लोकप्रियता सूची में देश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।

इस दौरान सांसद प्रतिनिधि अनिल अग्रवाल, आईटी >> शेष पृष्ठ 9 पर >

राष्ट्रभाषा स्वाभिमान काव्य गोष्ठी आज

महासमुंद 13 सितंबर (देशबंधु)। साहित्य समिति आस्था के संयोजन में राष्ट्रभाषा स्वाभिमान काव्य गोष्ठी का आयोजन हिन्दी दिवस पर 14 सितंबर को त्रिमूर्ति कालोनी स्थित जीवन सदन में किया गया है। अपरान्ह 3 बजे प्रारंभ होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेवी दाऊलाल चन्द्राकर होंगे। पूर्व उप संचालक शिक्षा संभाग रायपुर श्रीमती सौरिन चंद्रसेन सभाध्यक्षता करेंगी। गोष्ठी में आमंत्रित कविगण राष्ट्रभाषा हिन्दी के सम्मान में रचनाएं पढ़ेंगे। समिति ने इस अवसर पर समस्त राष्ट्रभाषा प्रेमियों से गरिमामयी उपस्थिति प्रदान करने का अनुरोध किया है। यह जानकारी समिति की जारी विज्ञप्ति में अध्यक्ष आनंद तिवारी पौराणिक ने दी है।

अब आवास योद्धा बनेंगे राजमिस्त्री प्रशिक्षणार्थी, 30 दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न

महासमुंद 13 सितंबर (देशबंधु)। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं व युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं बडौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी महासमुंद द्वारा विकासखण्ड बसना के ग्राम छिर्राबाहरा में 30 दिवसीय राजमिस्त्री प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण में ग्राम पंचायत के 27 ग्रामीण श्रमिकों ने भाग लिया और राजमिस्त्री के व्यवहारिक व तकनीकी ज्ञान अर्जित किया। जनपद सीईओ बसना पीयूष सिंग ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को प्रशिक्षण का समापान समारोह आयोजित हुआ। समारोह में बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानए महासमुंद निदेशक टुटु बेहेरा, पीओ मनरेगा एवं जनपद आवास इन चार्जए अजय भेड़पाल व आशीष असेसर उपस्थित रहें। इस दौरान श्री सीईओ पीयूष सिंग ठाकुर ने प्रशिक्षणार्थीयों से बातचीत कर उनका प्रशिक्षण का अनुभव जाना और सीखी गई तकनीकों के बारे में जानकारी ली। उन्होनें कहा कि इस प्रशिक्षण से आप अब केवल श्रमिक नहीं, कुशल राजमिस्त्री बन गए है, और प्रशिक्षण प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी निर्माण कार्यों को क्रियान्वित करके आवासीय निर्माण योद्धा कहे जाऐगें। प्रशिक्षणार्थीयों ने बताया कि इस प्रशिक्षण से उन्होनें नापना, ईटें की चिनाई, प्लास्टरिंग, लेवरिंग और भवन निर्माण से जुड़ी कई तकनीकें सीखी। अब वह स्वयं आत्मविश्वास के साथ राजमिस्त्री का कार्य कर सकते हैं। समापन अवसर पर सभी प्रशिक्षर्णीयों को प्रमाण पत्र व राजमिस्त्री के टूल किट वितरित किए गए, जिसमें निर्माण कार्य के आवश्यक औजार शामिल हैं। इस प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षणार्थी अपने कौशल का उपयोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यां में करेगें।

पीएम सूर्य घर योजना से हितग्राही महेश का दो माह से बिजली बिल शून्य

महासमुंद 13 सितंबर (देशबंधु)। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम नागरिकों के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो रही है। इस योजना का उद्देश्य देश के आवासीय परिवारों को अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत 5 किलोवाट तक के सोलर रूफ्टॉप सिस्टम पर केंद्र सरकार द्वारा 78000 रुपए तथा राज्य सरकार द्वारा 30,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस पहल से न केवल आम जनता को आर्थिक राहत मिल रही है, बल्कि अक्षय ऊर्जा को भी बढ़ावा मिल रहा है। महासमुंद जिले के अनेक नागरिक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। जिले में अभी तक 583 उपभोक्ता योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसी कड़ी में महासमुंद के

पीटियाझर निवासी महेश पाल ने बताया कि उन्होंने अपने घर की छत पर 5 किलोवाट क्षमता का सौर पैनल सिस्टम स्थापित कराया है। वे पेशे से राज्य शासन में पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। उन्हें अपने मित्रों के साथ चर्चा के दौरान सोलर पैनल और इस योजना के बारे में पता चला और इसके पश्चात उन्होंने योजना की जानकारी जुटाकर आवेदन किया। पंजीकृत वेंडर द्वारा सोलर सिस्टम स्थापित किए जाने के बाद पिछले दो माह से अब उनका बिजली बिल शून्य हो गया है, साथ ही क्रेडिट यूनिट का भी लाभ मिल रहा है। श्री पाल ने कहा कि यह योजना आम जनता के लिए लाभकारी पहल है। इससे न केवल बिजली खर्च से राहत मिली है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देने का अवसर मिल रहा है। हर परिवार को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए।

महाविद्यालय के पुस्तक मेले में गायत्री परिवार ने लगाया स्टाल

महासमुंद 13 सितंबर (देशबंधु)। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की रजत जयंती पर शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य महाविद्यालय में एक विशेष पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। इस आयोजन में गायत्री शक्तिपीठ महासमुंद द्वारा पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित साहित्य एवं वांग्मय का स्टाल लगाया गया। पुस्तक मेले में युग साहित्य विस्तार केंद्र के माध्यम से जीवन मूल्यों को जागृत करने वाले साहित्य की प्रदर्शनी एवं बिक्री की गई। इस अवसर पर व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण को केंद्र में रखकर तैयार किए गए साहित्य, पर्यावरण संरक्षण, कुरीति उन्मूलन, नारी एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा महापुरुषों की जीवनियाँ प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहीं। विशेष रूप से आचार्य द्वारा रचित वांगमय साहित्य, गायत्री माता के चित्र, चालीसा तथा अन्य प्रेरणादायी प्रकाशनों के स्टॉल लगाए गए।

इस विचार क्रांति अभियान के माध्यम से उपस्थित विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को सकारात्मक जीवनदृष्टि अपनाने की प्रेरणा दी गई। कार्यक्रम में साहित्य विस्तार केंद्र के प्रमुख नरेंद्र नायक, वरिष्ठ परिजन ललित मेश्राम, रिखीराम साहू, बोधराम साहू, पूर्णिमा साहू, रंहगडाले दीदी, राम भरोसा साहू, हेमु साहू, रामलाल साहू, भूखन सहित अन्य गायत्री परिवार के सदस्यों का विशेष सहयोग रहा।

गौधाम संचालन हेतु 30 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित

महासमुंद 13 सितंबर (देशबंधु)। पशु चिकित्सा विभाग द्वारा गौधाम संचालन के लिए जिले के स्वयंसेवी संस्था, एनजीओ ट्रस्ट, फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी, सहकारी समितियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर दोपहर 3 बजे निर्धारित की गई है। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं ने बताया कि गौधाम में निराश्रित एवं घुमन्तू गौवंशीय पशुओं के साथ.साथ गृह विभाग द्वारा कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 ;संशोधित 2011 तथा छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण नियम 2014 के अंतर्गत जप्त पशुओं को ही रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि गौधाम स्थापना हेतु आवश्यक भूमि, उद्देश्य, क्रियान्वयन, नियंत्रण, अनुश्रवण एवं अनुशीलनए पात्र संस्थाओं की पात्रता एवं कार्यकाल, चयनित संस्था की जिम्मेदारियां, मानव संसाधन, वित्त पोषण व्यवस्था एवं दंड संबंधी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। आवेदन फार्म कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएंए कचहरी चौक महासमुंद में कार्यालयीन दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक उपलब्ध रहेगा। साथ ही इसकी जानकारी जनसंपर्क की वेबसाईट एवं जिले के वेबसाइट पर अवलोकन किया जा सकता है।

सहकारिता एवं उद्योग विकास समिति की बैठक में अनेक विषयों पर चर्चा

महासमुंद 13 सितंबर (देशबंधु)। जिला सहकारिता एवं उद्योग विकास समिति की बैठक गुरुवार को जिला पंचायत महासमुंद के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति की सभापति श्रीमती रामदुलारी सिन्हा ने की। बैठक में सचिव एवं उपायुक्त सहकारिता तथा उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ महासमुंद द्वारिका नाथ, खाद्य अधिकारी

अजय यादव, महाप्रबंधक उद्योग मोहन साहू, नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या रायपुर प्रक्षेत्र महासमुन्द अविनाश शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या रायपुर की महासमुन्द जिले की सभी शाखाओं के प्रबंधक उपस्थित रहे। बैठक में सहकारिता एवं उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति एवं प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इस दौरान सभापति श्रीमती रामदुलारी सिन्हा ने अधिकारियों को योजनाओं के लक्ष्य निर्धारित समय.सीमा में पूर्ण करने तथा अधिक से अधिक हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग की योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा किसानों, स्व.सहायता समूहों और छोटे उद्योगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रत्येक योजना का पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने कहा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि योजनाओं की सतत निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए समिति की बैठक प्रतिमाह नियमित रूप से आयोजित की जाएगी। साथ ही बैठक में सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिति, ऋण वितरण, पुनर्भुगतान व्यवस्था तथा उद्योग विभाग की नई पहल एवं निवेश संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।

स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास स्थायी समिति की बैठक सम्पन्न

बलौदाबाजार, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास से संबंधित स्थायी समिति की बैठक जिला पंचायत बलौदाबाजार के सभा कक्ष में आयोजित किया गया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग के समस्त विभागीय योजनाओं के बारे में चर्चा की गई।

जिला कार्यक्रम अधिकारी अतुल परिहार ने पूरक पोषण आहार, रेडी टू ईट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महतारी वंदन योजना, बेटी बचाओं एवं बेटी पढ़ाओं योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ 17 सितम्बर से 16 अक्टुबर 2025 तक आयोजन किया जायेगा। जिसमें एनीमिया पर जागरूकता, ग्रोथ मोनिट्रिंग, सही पोषण भी पढ़ाई भी एवं पर्यावरण संरक्षण आदि योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.राजेश अवस्थी ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा 17 सितम्बर से 2 अक्टुबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के बारे में अवगत कराया। जिसमें समस्त महिला वर्ग हेतु स्वास्थ्य जांच कराये जाने की जानकारी एवं अधिक से अधिक महिला जनप्रतिनिधि के सम्पूर्ण स्वास्थ्य जांच करने हेतु आग्रह किया गया। उप स्वास्थ्य केन्द्र चौरंगा के निर्माण कार्य की स्थिति में अवगत कराने का निर्देश दिए गए। निर्माण कार्य का प्रस्ताव राज्य कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है। बैठक में सभापति दीप्ति गोविंद वर्मा, सदस्य शशि आनंद बंजारे, सुश्री इन्दु जांगड़े, सीएमएचओ डॉ.राजेश अवस्थी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एनएचएम सृष्टि मिश्रा, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी आदित्य शर्मा उपस्थित थे।

कार्यकर्ताओं, नागरिकों, विभिन्न समाजों ने मनाया भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना साहू का जन्मदिन

धमतरी, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक रंजना साहू का जन्मदिन भाजपा कार्यकर्ताओं, नागरिकों, व्यापारियों, समाजप्रमुखों द्वारा स्थानीय घड़ी चौक में धूमधाम से मनाया गया। वहीं उक्त अवसर पर रंजना साहू ने कारगिल युद्ध में धमतरी से भाग लेने वाले उस वक्त के कारगिल योद्धाओं का सम्मान किया एवं

युवाओं को सेना में चयनित कराने निशुल्क प्रशिक्षण देने वाले पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया एवं उनके द्वारा मजदूरों का भी सम्मान किया गया। सम्मान पाकर भावविभोर होकर मजदूरों ने रंजना साहू दीर्घायु हो के नारे लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उपस्थित जनसैलाब का धमतरी की नेता के प्रति अपार स्नेह और अपनत्व देखते बन रहा था।

प्रात: श्रीमती साहू ने हनुमान मंदिर, विंध्यवासिनी मंदिर, शीतला माता मंदिर, अंगारमोती माता मंदिर, रुद्रेश्वर महादेव मंदिर पहुंच कर आशीर्वाद लिया उसके पश्चात घड़ी चौक में धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया गया। उक्त अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री राकेश साहू, भाजपा कोषाध्यक्ष चेतन हिंदुजा, विजय साहू, न.नि एम.आई.सी सदस्य नरेंद्र रोहरा, विजय मोटवानी, निलेश लूनिया, पार्षद कोमल सार्वा, घड़ी चौक व्यापारी संघ के अध्यक्ष ज्ञानचंद लूनावत, राजेश पंजवानी, अशोक नंदा, आसानदास जेठवानी, ललित बरडिया, संजू लुंकड़, रोहित वाधवानी, अभिषेक हिरानी, रमेश लुंकड़, अखलाख हाशमी, कल्याणदास मलवानी, चंदू जसवानी, महेश रामरख्यानी, अमर पिंजानी, अशोक वाधवानी, अशोक दुंबा, दिलीप पटेल, भरत सोनी, दयाशंकर सोनी, विनोद रणसिंह, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष देवेश अग्रवाल, महामंत्री जय हिंदुजा, रिक्की गनवानी, सूरज शर्मा, बलराम गुप्ता, दौलत वाधवानी, मनीष आसवानी, दीपक लालवानी, संतोष मादमे, थवाईत, अनीता यादव, रितिका यादव, जागेश्वरी साहू, धनेश्वरी साहू, रीटा बंजारे, साक्षी वाधवानी, अमित साहू, नीरज शुक्ला, अनुज तिवारी, वीरेंद्र साहू, जितेश सिन्हा पंकज साहू, उमेश शाह, शेषु सोनवानी सहित बड़ी संख्या में जनमानस उपस्थित रहे।

कालेज में वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन

सिमगा, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय सिमगा में आज शुक्रवार को शासन के आदेशानुसार पर्यावरण के संवर्धन एवं संरक्षण की दिशा में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ बीरू लाल बरगाह, के साथ सहायक प्राध्यापकगण, क्रीड़ा अधिकारी, समस्त अतिथि व्याख्याता एवं कार्यालय स्टाफ उपस्थित रहे। साथ ही मुकुंद रजक महाविद्यालय जन भागीदारी अध्यक्ष, विकास सोनकर नगर पालिका उपाध्यक्ष, चंद्रमणि तिवारी भाजपा मंडल अध्यक्ष, मुकेश देवांगन पार्षद, छोटू यादव मंडल महामंत्री, नीरज शर्मा, विकास तंबोली अधिवक्ता, तारकेश देवांगन एवं एवन साहू की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया।

धमतरी का नया मुकाम- पशुपालन से आत्मनिर्भरता और खुशहाली की ओर

धमतरी, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। कभी गांवों में पशुपालन को सिर्फ सहायक काम माना जाता था— घर में दूध, अंडा या थोड़ा-बहुत मांस मिल जाए, बस इतना ही। लेकिन आज धमतरी जिले की तस्वीर बदल चुकी है। अब यही पशुपालन किसानों की आर्थिक रीढ़ बन गया है और गांव की खुशहाली की पहचान भी। खेतों के साथ-साथ गोठान और पशु शेड भी किसानों की आय बढ़ाने के बड़े साधन बन गए हैं।

जिले में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) में भी जिले से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों में से बैकयार्ड पोल्ट्री एवं हैचरी, भेड़ एवं बकरी पालन तथा पिगरी (सूकर पालन) जैसे प्रकरण शामिल हैं। अब तक कुल 37 प्रकरण प्रेषित हुए, जिनमें 28 की स्वीकृति मिल चुकी है। भेड़-बकरी पालन के 28 में से 24 प्रकरण एसआईए में लंबित रहे, जबकि 15 प्रकरण बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए।

वहीं, पोल्ट्री और पिगरी उद्यमिता से जुड़े आवेदनों में भी किसानों को लाभान्वित किया गया है। जिनकी लागत लगभग 10 करोड़ रुपये है। यही कारण है कि धमतरी जिले ने पशुपालन के क्षेत्र में प्रदेश में एक नया मुकाम हासिल किया है। पशुपालन क्षेत्र में इतनी बड़ी राशि का हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत प्रदेश में जिला अग्रणी है। यही कारण है कि धमतरी जिले ने कृषि के साथ पशुपालन के क्षेत्र में प्रदेश में एक नया मुकाम हासिल किया है।

ये प्रकरण केवल कागज़ी आंकड़े नहीं हैं, बल्कि गांव-गांव में किसानों के सपनों को पंख देने वाली कहानियां हैं। कहीं कोई किसान दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऋण लेकर आधुनिक डेयरी यूनिट खड़ा कर रहा है, तो कहीं महिलाओं की समिति बकरी पालन से आत्मनिर्भर बन रही है। ये प्रकरण कभी व्यक्तिगत तो कभी सामूहिक स्वरूप में स्वीकृत हुए हैं, लेकिन हर मंजूरी ने ग्रामीण जीवन को नई दिशा दी है।

■ बैंकों द्वारा 10 करोड़ के 15 प्रकरण बैंकों द्वारा स्वीकृत

■ कृषि के साथ पशुपालन के क्षेत्र में में एक नया मुकाम

इसके साथ ही किसानों की सुविधा के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना भी गांवों तक पहुंची है। जिले में 1700 आवेदन तैयार किए गए, जिनमें से 180 किसानों को स्वीकृति भी मिल चुकी है। यह सिर्फ कर्ज नहीं, बल्कि किसान की मेहनत को पहचान और उसके सपनों को सहारा देने जैसा है। चाहे वह खेत में बीज बोने का मामला हो या पशुओं के लिए चारा खरीदने का, किसान क्रेडिट कार्ड ने आर्थिक चिंताओं को कम किया है।

पशुपालन को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के तहत भी किसानों ने बड़ी पहल की है। बैकयार्ड पोल्ट्री, भेड़-बकरी पालन और पिगरी जैसी गतिविधियों से ग्रामीणों की जिंदगी बदल रही है। अब तक 37 प्रकरण भेजे गए हैं, जिनमें से 28 को मंजूरी मिल चुकी है। कल्पना कीजिए, किसी छोटे किसान के घर में पहले दो-तीन बकरियां ही थीं, लेकिन अब उसी के पास दर्जनों बकरियों का झुंड है, जिससे वह न केवल अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा है, बल्कि बाज़ार में भी अपनी पहचान बना रहा है।

धमतरी जिले की यह पहल केवल आर्थिक मजबूती का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का जरिया भी है। महिलाएं अब घर की चारदीवारी से निकलकर समितियों में जुड़ रही हैं, अपने उत्पाद बेच रही हैं और घर की आय में बराबर की हिस्सेदारी निभा रही हैं। युवाओं को गांव छोड़कर शहरों में पलायन नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि उन्हें अब अपने ही गांव में रोजगार और व्यवसाय मिल रहा है।

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा से लेकर बैंक अधिकारी और पंचायत से लेकर समितियां—सब मिलकर इस बदलाव को गति दे रहे हैं। जब कोई किसान अपने पशु शेड से निकलते दूध के कनस्तरों को देखता है या कोई महिला समिति अपने पोल्ट्री फार्म में हजारों चूजों की चहचहाहट सुनती है, तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आती है, वही असली सफलता की पहचान है।

धमतरी ने साबित कर दिया है कि अगर योजनाओं को सही दिशा में लागू किया जाए और किसानों की मेहनत से जोड़ा जाए, तो गांव भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं और किसान समृद्धि की नई गाथा लिख सकते हैं।

गर्ल्स कॉलेज में रजत जयंती पर आयोजित हुआ सेमीनार

धमतरी, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय धमतरी में सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका निगम धमतरी के महापौर जगदीश रामू रोहरा उपस्थित रहे, अध्यक्षता महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य धनेश्वरी साहू एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में नेहरू निषाद अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य वक्ता महेन्द्र पंडित, विशिष्ट अतिथि विनय जैन शामिल हुए कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत रूप से मां सरस्वती एवं छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित करते हुए किया गया। महाविद्यालय परिवार द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं फ्लावर पॉट भेंट कर स्वागत किया गया।

सर्वप्रथम स्वागत उद्बोधन में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. अनिता राजपुरिया ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया एवं उन्होने कहा कि यह आयोजन न केवल महाविद्यालय परिवार के लिए ही नही बल्कि पूरी छात्रा समूह के लिए प्रेरणादायी अवसर है उन्होने छात्राओं से आव्हान किया कि युवा शक्ति शिक्षा, तकनीकी नवाचार के साथ ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक कृत संकल्पित होकर राष्ट्र विकास में योगदान करें तो विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का लक्ष्य हम अवश्य प्राप्त कर सकेंगें। उन्होंने महाविद्यालय की विभिन्न मांगों से अतिथियों को अवगत कराया।

मुख्य अतिथि श्री रोहरा ने कहा कि आज का यह पावन अवसर हम सभी के लिए गौरव और आत्मचिंतन का दिन है। छत्तीसगढ़ राज्य के स्वर्णिम 25 वर्ष की गौरवशाली यात्रा को हम रजत जयंती महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, यह केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह उस संघर्ष, परिश्रम और समर्पण की गाथा है जिसने इस राज्य को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकासशील बनाया है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सुशोभित श्रद्धेय स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के मार्गदर्शन में 01 नवम्बर सन् 2000 में जब छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा मिला, तब यह एक नवोदित स्वप्न था छत्तीसगढ़ राज्य की अपनी पहचान, अपने अधिकार, अपनी संस्कृति और अपने विकास की दिशा में इन 25 वर्षों में हमने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। महापौर द्वारा महाविद्यालय पहुच मार्ग चौडीकरण, पेयजल व्यस्था हेतु वाटर कुलर, स्ट्रीट लाईट व्यवस्था, बाटनिकल गार्डन को व्यवस्थित एवं सुसज्जित कराने सम्बन्धी घोषणा भी की गई।

जनभागीदारी समिति अध्यक्ष धनेश्वरी साहू ने रजत जयंती महोत्सव की सफल आयोजन के लिए महाविद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि हमें अपनी उपलब्धियां पर गर्व करने के साथ-साथ भविष्य की दिशा तय करने का भी समय है, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को प्रत्येक क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना हमारा संकल्प होना चाहिए और इसके लिए हमें मिलकर कार्य करना होगा।

विशिष्ट अतिथि नेहरू निषाद ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा की सरकार 'हमने बनाया है हम ही संवारेंगे' की मूल विचारधारा पर चल रही है क्योंकि स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ को अलग कर राज्य का दर्जा दिया और आज हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश विकसित छत्तीसगढ़ 2047 की परिकल्पना को पूरा करने के लिए संकल्पित है जिसमें छात्राओं व युवाओं की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी।

महेन्द्र पंडित ने कहा की छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुए हुए 25 वर्ष होने जा रहा है, जोकि युवा अवस्था का समय है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, विरासत व संस्कृति हमारी पहचान है। हमारा प्रदेश स्वर्णिम इतिहास को समेटे हुए हैं जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जननी माता कौशल्या का जन्म हुआ और वो हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी है। श्री पंडित ने आगे कहा कि 'छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया' यह शब्द नहीं हमारी भाखा व पहचान है, छत्तीसगढ़ प्रदेश धन संपदा से परिपूर्ण है छत्तीसगढ़ में लोहा कोयला के साथ-साथ सर्वाधिक धान उत्पादन कर पूरे भारत देश को चांवल दिलाने का गौरव मिला है।

विनय जैन ने कहा कि छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। कार्यक्रम का संचालन डॉ रोहिणी मरकाम ने किया, कार्यक्रम प्रभारी डॉ. डी.आर. चौधरी ने आभार व्यक्त किया।

अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेट किया गया। इस अवसर पर जनपद उपाध्यक्ष केशव साहू जिला पंचायत सदस्य अजय ध्रुव, नीतू विशाल त्रिवेदी, आयुष देवान, भूमेश साहू, जनभागीदारी सदस्य एवं फलेन्द्र साहू एवं महाविद्यालय के प्राध्यापकगण सहित बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहे।

बेमचा खल्लारी में 22 को जलेंगे ज्योत

महासमुंद 13 सितंबर (देशबंधु)। क्वांर नवरात्रि के अवसर पर बेमचा खल्लारी में 22 सितंबर को अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 बजे मनोकामना के अखंड ज्योत प्रज्वलित किए जाएंगे। तेल ज्योत के लिए 701 रुपए की राशि तय की गई है। पंचमी श्रृंगार 26 सितंबर को हवन अनुष्ठान 30 सितंबर को शाम 5 बजे ज्योति की शांति रात्रि 12 बजे किया जाएगा। उक्त जानकारी रविकांत चंद्राकर ने दी है।

अग्रसेन जयंती पूर्व बागबाहरा में बैडमिंटन प्रतियोगिताः समाज और संस्कृति का अनोखा संगम

बागबाहरा, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। नगर के इंडोर स्टेडियम में आज अग्रसेन जयंती पूर्व बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन केवल खेल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह समाज, संस्कृति और इतिहास के गौरव का भी उत्सव बन गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन अग्रवाल समाज द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व संसदीय सचिव एवं वर्तमान विधायक द्वारिकाधीश यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अग्रवाल समाज के अध्यक्ष ऋषि अग्रवाल ने की। वहींविशेष अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष खिलेश्वरी ताम्रध्वज बघेल, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ठाकुर एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता गणेश शर्मा उपस्थित रहे। प्रतियोगिता की शुरुआत अग्रवाल समाज की आराध्य देवता महाराजा अग्रसेन की पूजा-अर्चना से हुई। समाजजनों ने सामूहिक रूप से महाराजा अग्रसेन का स्मरण कर उनके आदर्शों को नमन किया और आयोजन की सफलता के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया।

तत्पश्चात उद्बोधन का दौर प्रारंभ हुआ जिसमें कार्यक्रमके अध्यक्ष की आसंदी से अग्रवाल समाज के अध्यक्ष ऋषि अग्रवाल ने विधायक द्वारिकाधीश यादव के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों से नगर को इंडोर स्टेडियम का तोहफा मिला है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि इस स्टेडियम के कारण आज नगर में इस स्तर की प्रतियोगिता संभव हो पाई है। यह केवल एक खेल स्थल नहीं, बल्कि युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा को दिशा देने वाला केंद्र है।

अग्रवाल समाज का गौरवशाली इतिहास : द्वारिकाधीश

मुख्य अतिथि विधायक द्वारिकाधीश यादव ने अपने संबोधन में अग्रवाल समाज के आराध्य महाराजा अग्रसेन की जीवन गाथा और आदर्शों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन केवल 'एक रुपया और एक ईंट' की परंपरा ने समाज में समरसता और आर्थिक सहयोग की नींव रखी। यह नीति इस बात की प्रतीक थी कि समाज का कोई भी व्यक्ति भूखा या बेघर न रहे। यादव कहा कि अग्रवाल समाज का गौरवशाली इतिहास आज भी प्रेरणा देता है। यह समाज शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए हुए है। ईमानदारी, परिश्रम और नैतिक मूल्यों के कारण अग्रवाल समाज न केवल अपने लिए, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। विधायक यादव ने आगे कहा कि व्यापारी वर्ग शासन को टैक्स के रूप में जो राशि देता है, उसी के परिणामस्वरूप नगर को विकास कार्यों की सौगात मिलती है। इसी का प्रत्यक्ष उदाहरण यह इंडोर स्टेडियम है। उन्होंने व्यापारी वर्ग और अग्रवाल समाज के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज का योगदान ही किसी नगर और प्रदेश को समृद्ध बनाता है। यह बैडमिंटन प्रतियोगिता केवल खेल प्रतियोगिता नहीं रही, बल्कि समाज के इतिहास और परंपरा को याद करने का भी अवसर बनी। अग्रसेन जयंती के पूर्व यह आयोजन इस बात का प्रतीक है कि खेल और संस्कृति का संगम समाज की पहचान को और मजबूत करता है। बागबाहरा में हुए इस आयोजन ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब समाज और शासन एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो न केवल खेल और संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, बल्कि नगर की पहचान और गौरव भी नई ऊँचाई पर पहुँचता है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से नगर पालिका उपाध्यक्ष देवेश साहू , नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ताम्रध्वज बघेल सविता दीवान, पार्षद शैलेश साहू,पार्षद प्रीति महेंद्र गुप्ता, पार्षद रमेश ठाकुर,पार्षद मंता यादव,पार्षद मेनका पोखराज साहू,पार्षद मिथुनअमीर, बघेल, खोमेश, दुर्गेश, सृष्टि अग्रवाल संजय, राहुल, यशवंत, विशाल, अविनाश, दिनेश, सुभाष, पीयूष एवं अग्रवाल समाज के सदस्य गण उपस्थित रहे ।

दुकान से मोबाइल चोरी करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार

आरंग, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। बीते जुलाई माह में आरंग बस स्टैंड स्थित शुभकामना मोबाइल दुकान में हुई चोरी का आरंग पुलिस ने खुलासा करते हुए 01 नाबालिक सहित 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।पुलिस ने आरोपियों से 14 मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकल को जब्त किया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए थाना प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि 04 -05 जुलाई 2025 की रात बस स्टैंड के पास स्थित शुभकामना मोबाइल दुकान में चोरी हुई थी। चोरों ने दुकान की शटर तोड़ विभिन्न प्रकार के कंपनी की मोबाइल चोरी कर लिया था। पीड़ित की शिकायत पर आरंग पुलिस में मामला जांच में लिया। पुलिस आरोपियों तलाश कर आसपास के लोगो से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपी पतासाजी करना प्रारंभ किया टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही प्रकरण में मुखबिर लगाये गये। हाल ही में जेल से रिहा हुए चोरी के आरोपियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र करने के साथ ही चोरी के पुराने आरोपियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर उनकी गतिविधियों पर निगाह रखीं जा रहीं थी। तकनीकी विश्लेषण सहित अन्य माध्यमों से भी लगातार अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी में लगी टीम के सदस्यों को प्रकरण में संलिप्त

आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में मंदिर हसौद रायपुर निवासी आरोपी नवीन बंजारे एवं अश्वनी बंजारे उर्फ़ बंटी और एक नाबालिक को पकड़ा गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर तीनों से कड़ाई से पूछताछ करने पर तीनों ने मोबाईल दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। तीनों आरोपी/अपचारी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की विभिन्न कंपनियों के कुल 14 नग मोबाईल फोन तथा घटना में स्प्लेण्डर मोटर सायकल सहित कीमती लगभग 2,20,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही कर जेल भेज दिया गया। कार्यवाही में निरीक्षक राजेश सिंह थाना प्रभारी आरंग, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी निरीक्षक परेश कुमार पाण्डेय, प्र.आर. वीरेन्द्र भार्गव, जसवंत सोनी, म.प्र.आर. बसंती मौर्य, आर. तुकेश निषाद ,अनिल राजपूत, लक्ष्मी नारायण साहू तथा थाना आरंग से सउनि. छबि राम साहू की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।

जन्माष्टमी में दही हांडी फोड़ने के दौरान तीन साल पहले हुआ विवाद चंद मिनट में समाप्त

पिथौरा में लोक अदालत आयोजित

पिथौरा, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। आज से तीन साल पहले जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडी फोड़ने के दौरान पानी छिटने की बात को ले कर ग्राम ढाबाखार में विवाद हो गया था,देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में लाठी डंडा चलने लगे लिहाजा गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी । मामला पुलिस तक जा पहुंचा । तब पुलिस के हस्क्षेप से मामला शांत तो जरूर हो गया किंतु पुलिस ने पाँच लोगो के विरुद्ध अपराध दर्ज कर पिथौरा के न्यायालय में मामला पेश किया था । आज आयोजित नेशनल लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी सौरभ बारा के खंडपीठ में मामले को रखा गया और दोनों पक्षों को बुला कर समझाईस दी गई । तथा आपस में भाईचारा बना कर रहने हेतु कहा गया जिससे दोनों पक्ष सहर्ष तैयार हो गए परिणाम स्वरूप तीन सालों से चला आ रहा विवाद चंद मिनट में समाप्त हो गया ।दोनों पक्ष गले मिल कर घर चले गए । दूसरा मामला पाँच वर्ष पुराना वर्ष 2020 का है ग्राम सोनासिल्ली में अंडा ठेला लगाये जाने को ले कर विवाद होने से पिथौरा के न्यायालय में फ़ौजदारी चल रहा था था,उस मामले में भी न्यायाधीश सौरभ बारा ने दोनों पक्ष को समझा कर मामले में राजीनामा कराया । बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के दिशा निर्देश में पिथौरा में आज 13 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई थी जिसमे मामलों को आपसी सहमति से तत्काल निपटाने के प्रावधान था लोक लदालत में जो भी मामले का निबटारा होता है, उसमें कोई भी पक्ष हारता नहीं है। बल्कि दोनों पक्ष की जीत होती है। ज्ञात हो कि नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निराकरण के लिए पूर्व में बैठकें आयोजित की गई थी तथा जोर सोर से तैयारी चल रही थी परिणाम स्वरूप 458 प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण हुआ और समझौते शुल्क के रूप में कुल 1287100 ? की वसूली भी हुई है ।

प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने 200 शिक्षकों का किया सम्मान

- **प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी विश्वविद्यालय में शिक्षा में नैतिक मूल्यों लेकर कार्यशाला का हुआ आयोजन एवं शिक्षकों का सम्मान**

आरंग, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी विद्यालय अमर ज्योति भवन गुढ़ियारी पारा आरंग में शिक्षक सम्मान समारोह एवं शिक्षा में नैतिक मूल्य आध्यात्मिकता को लेकर कार्यशाला का बड़ा आयोजन हुआ।इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य वक्ता बीके गंगा दीदी ने डॉ सर्वपल्ली राधा कृष्णन को नमन करते हुए शिक्षको को राष्ट्र निर्माता बताया एवं प्रेरित किया कि संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होगा और इसमें शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिक्षक का अर्थ शिल्पकार, क्षमा भाव रखने वाला एवं कर्तव्य निष्ठ बताया साथ ही कहा कि अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने के लिए फॉर्मूला 4 ॥ और रू अपनाना चाहिए जिसका अर्थ हैप्पी, ऑनेस्टी, हंबल , हाइ थिंकिंग एवं मेडिटेशन बताया तथा परमात्मा शिव को ज्योति बिंदु रूप बताया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के तौर पर तहसीलदार आरंग ज्योति मसीयारे एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी दिनेश शर्मा, गरिमा दीदी राजयोग शिक्षिका एवं पेंशनर्स संघ अध्यक्ष अनुपनाथ योगी की सहभागिता रही। वही शिक्षा अधिकारी दिनेश शर्मा ने कहा कि सभी को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वत: ही सबसे प्रेम एवं सहयोग प्राप्त कर लेता है, तथा क्रोध से बचने की सलाह देती हुए कहा कि क्रोधी व्यक्ति से दूसरे ही नहीं अपने भी किनारा कर लेते हैं ,उन्होंने दार्शनिक अंदाज में कहा कि नेगेटिववीटी कहां नहीं है लेकिन खुशनुमा जीवन का आधार खुद को पॉजिटिव बनाए रखने में है उन्होंने आयोजन की प्रशंसा की राजयोग शिक्षिका गरमा दीदी ने राजयोग को परिभाषित करते हुए कहा कि यह जीवन के तनाव, समस्याओं से दूर कर सुंदर जीवन जीने की कला का मार्ग प्रशस्त करता है। साथ ही विद्यालय संचालक लता बड़ी दीदी के मार्गदर्शन में 2ट्ठ2 मिनट का क्रमिक अंतराल में मेडिटेशन करा परमात्मा का संदेश सुनाया गया एवं शिक्षकों ने भी अपने प्रश्न रखे जिसका समुचित जवाब दिया गया एवं एक हफ्ते का राजयोग शिविर में आने के लिए प्रेरित करते हुए 200 से अधिक शिक्षकों का शाल, प्रतीक चिन्ह, एवं लेखनी के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक अरविंद वैष्णव ने किया एवं आभार लता दीदी ने किया तथा प्रमुख रुप से रश्मि दीदी, नंदिनी दीदी, योगिता दीदी, शांति बहन, रेखा बहन मोहन साहू ,जयशंकर यादव, जेपी बिसेन ,सूर्यकांत एवं प्राचार्य सरोजिनी केरकेट्टा व्याख्याता गण दिलीप कुमार राहंगडाले, विजय चंद्राकर, हरमन बघेल, संकुल समन्वयक सुनील पटेल, अमित अग्रवाल, संतोष सोनी, आशीष बघेल तथा सेवा निवृत जी आर टंडन,विनोद गुप्ता, तुलसराम साहू, सी एल साहू, अनुपनाथ योगी, पुष्पा शर्मा,प्रहलाद राय ,अशोक साहूआदि एवं शिक्षक गण महेंद्र पटेल डोमन डहरिया,छोटूराम साहू, अनुसुइया साहू,पूर्णिमा साहू, लोमेश्वरी चंद्राकर, छत्रधर दीवान, रामनारायण कन्नौजे ,नोहर लाल यादव ,के के साहू,तारामती बंजारे ,दौलत राम साहू , ओमप्रकाश साहू ,गणेश साहू, खुशबू जलछत्री, भारती वर्मा आदि की उपस्थिति के साथ संकुल अरंधति आरंग,कन्या आरंग, भिलाई , खमतराई ,निसदा, गोइंदा ,पारागांव आदि के शिक्षक गण की उपस्थिति रही।

दो दिवसीय रामधुनी प्रतियोगिता प्रारम्भ,ग्राम गनेशपुर में

जी जामगांव(देशबंधु)। दो दिवसीय रामधुनी प्रतियोगिता प्रारम्भ,ग्राम गनेशपुर में आयोजित हो रहा है ।प्रथम दिवस के मुख्य अतिथि डॉ गंगा प्रसाद मिश्रा जी (सरपंच)अध्यक्षा प्रीतम साहू(पूर्व सोसायटी अध्यक्ष)विशेष अतिथि कृष्ण कुमार साखरे(सोसायटी अध्यक्ष)एवम ग्राम पंचायत होंगे ।एवम समापन समारोह के मुख्य अतिथि सम्मानीय अजय चंद्राकरविधायक कुरुद(पूर्व केबिनेट मंत्री)अति विशिष्ट नेहरू राम निषाद (अध्यक्ष पिछड़ा आयोग(राज्यमंत्री दर्जा)गोकरण साहू(उपाध्यक्ष जिला पंचायत धमतरी),भानु चंद्राकर (अध्यक्ष बोलबम समिति व प्रतिनिधि विधायक),चंदूलाल निषाद (जिला अध्यक्षा निषाद समाज),चंद्रशेखर साहू (जनपद सदस्य),देवचरन चंद्राकर (सरपंच)राकेश साहू (सरपंच)मुरा होंगे।

मंत्री गजेन्द्र से सौजन्य भेंट

पिथौरा, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव से मंत्रालय में सौजन्य भेट कर भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य स्वप्निल तिवारी युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष विजय नायक पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला महामंत्री दुलिकेशन साहू किसान मोर्चा अध्यक्ष अजय डड़सेना ने शाल श्रीफल व बुक्के भेटकर शुभकामनाएं दिये ।युवा मोर्चा नेता स्वप्निल तिवारी ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय का दायित्व अपने आप में इसलिए अहम है क्योंकि नई शिक्षा नीति का आगाज हो चुका है । और इसके सफल क्रियान्वयन का दायित्व आपके मजबूत कंधों पर सौपा गया है निसंदेह शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन होगा और आपके कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शिक्षा का हब बनेगा द्य शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास की दिशा में हमारा छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ेगा । उन्होंने कहा कि पिथौरा ब्लाक की शैक्षिक समस्याओं को लेकर जल्द ही प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री से पुन: भेंट करेगा ।

ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चयन प्रक्रिया संपन्न, कार्यकर्ताओं में उत्साह

सिमगा, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिमगा में कांग्रेस के सृजन अभियान के अंतर्गत नये ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया आयोजित की गई। इस अवसर पर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक इन्द्र साव एवं ब्लॉक प्रभारी मो. सिद्दीकी विशेष रूप से उपस्थित रहे।कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वर्तमान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डा. के.के. नायक ने तिरंगा गमछा पहनाकर विधायक इन्द्र साव, प्रभारी मो. सिद्दीकी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमित शर्मा बंटी एवं विधायक प्रतिनिधि शैली भाटिया का आत्मीय स्वागत किया। अपने विस्तृत उद्बोधन में विधायक इन्द्र साव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से आम जनता की आवाज रही है और जब-जब कांग्रेस सत्ता में रही, किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूर्व सरकार ने कर्जमाफी, धान खरीदी, बिजली बिल हाफ, निराश्रितों को पेंशन, गरीबों के लिए मकान जैसी योजनाओं से लोगों का जीवन बदलने का काम किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे कांग्रेस की इन उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाएं ताकि जनता फिर से कांग्रेस पर भरोसा कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि नया ब्लॉक अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चले, सबको सम्मान दे और संगठन को मजबूती प्रदान करे। ब्लॉक प्रभारी मो. सिद्दीकी ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि जनभावनाओं का आंदोलन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ताकत उसके कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं की मेहनत और एकजुटता से ही चुनाव जीते जाते हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि वे प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच सेतु का कार्य करेंगे। इस दौरान कुल आठ कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष पद हेतु अपना बायोडाटा प्रस्तुत किया। इस दौरान ,बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे ।

सुपेला में सात दिवसीय अखण्ड श्री रामनाम सप्ताह यज्ञ रामधुनी सम्मेलन आज से

भखारा ,13 सितम्बर (देशबन्धु)। भखारा तहसील क्षेत्र के ग्राम-सुपेला में विगत 57 वर्षों की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी 58 वीं सोपान तय करने पितृ पक्ष के अवसर पर समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से सात दिवसीय अखण्ड श्री रामनाम सप्ताह यज्ञ रामधुनी सम्मेलन का आयोजन 14 सितंबर से 21 सितंबर तक किया गया है। उक्त आयोजन 14 सितंबर रविवार से ग्राम पंचायत सुपेला की हृदयस्थल नया बाजार चौंक में प्रारंभ होगी इस धार्मिक कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के ख्यातिनाम रामधुनी मंडलियों को रामकथा गायन एवं झांकी के लिए आमंत्रित कर प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी ।जिसमें प्रतिदिन अलग-अलग मण्डलियाँ अपने निर्धारित समय में संगीतमय श्रीराम कथा की प्रस्तुति देंगे इस रामधुनी सम्मेलन में गायन और झांकी मंडलियों के लिए सांत्वना राशि की व्यवस्था समस्त ग्रामवासियों के द्वारा किया गया है ।जिसमें प्रत्येक प्रतिभागी मंडलियों के लिए 2601/- रुपए की सांत्वना राशि विशेष दान-दाताओं की ओर से प्रदान किया जाएगा ।इसके अलावा प्रत्येक मंडलियों को श्रीफल व रामटोकरी अलग से दिया जाएगा। उक्त जानकारी ग्राम विकास समिति अध्यक्ष मूलचंद साहू ने दी।

प्रादेशिकी का शेष...

स्टाम ड्यूटी बढ़ाने से राइस...

को पत्र लिखकर पहल करने की मांग करते हुए कहा है कि एक राइस मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग कार्य हेतु औसतन 10 से 15 बैंक गारंटी बनाई जाती है अत: नवीन स्टाम शुल्क डूयटी राइस मिलर्स के लिए आर्थिक क्षति एवं अतिरिक्त आर्थिकभार होगा। एक अनुमान के अनुसार लगभग 60 करोड़ का भार राइस मिलरों पर आएगा।

पं. बंगाल में अराजकता...

सेल प्रदेश कार्यसमिति सदस्य शांतनु सिन्हा, पूर्व एल्डरमैन हेमंत तारक, परगना धीवर समाज अध्यक्ष वेदव्यास तारक, नवापारा मंडल महामंत्री श्री चेतन साहू, पूर्व जनपद सदस्य कमलनारायण साहू, पूर्व सरपंच श्री वाय के साहू, वरिष्ठ कार्यकर्ता कार्तिक राजवंशी, सोसायटी अध्यक्ष किसन साहू, सरपंच प्रतिनिधि भीखम साहू एवं नरेंद्र देव वर्मन आदि उपस्थित थे।

15 सितम्बर तक मेडिटेशन केम्प का आयोजन

नगरी, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। नगरी में चातुर्मास के लिये आचार्य विजयराज जी म .सा. के आज्ञानुवर्ती विराजित महासती वैभव जी आदि ठाणा तीन की प्रेरणा से सर्व समाज हेतु दिनांक 8 सितम्बर से 15 सितम्बर तक मेडिटेशन केम्प का आयोजन कृषि उपज मंडी के प्रांगण में प्रारम्भ हो चुका है। आज केम्प का छठवा दिन लगभग 450 भाई बहनों ने इसमें भाग लिया। आज म सा ने ध्यान की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए बताया कि हम ध्यान से जब जड़ना चाहते है तो संसार की वस्तुओ से ध्यान हटाना पडेगा। आज म सा ने कहा कि नशा दो प्रकार को होता है एक बुरा नशा हमे हर तरह से दुखी करता है हम उससे उबर नही चाहे तो नही उबर सकते,लेकिन अच्छा नशा चाहे भक्ति को हो या ध्यान का हमे अंतरंग की अनुभूति देता है जो आनन्द है। विदुर की पत्नी कृष्ण जी को भाव से भोजन करती है और भक्ति में इतनी तल्लीन होती है केले खिलाते समय केले खुद व छिलके कृष्ण जी को जो वे भाव से ग्रहण करते है। ऐसी भक्ति हम तल्लीनता से करे। हम कह उठते है नही छुटता है , हम कोई अच्छी चीज ग्रहण करे तो स्वमेव बुरी चीज छूट जाएगी। ध्यान की साधना इस तरह से करे तो आनन्द मिलेगा ।कल थायराइड याने थाट चक्र का वात पित्त व कफ पर कंट्रोल करते हुए आज हमारे ज्ञान व आनन्द के इस प्राण शरीर के रहने का स्थान बताया। आप ने बताया कि ब्राह्मण की सिर में शिखा याने छत्तीसगढ़ की भाषा मे जहा माईचोटी रहती है वहा हमारा असीम ज्ञान है जिससे ध्यान के माध्यम से परिचय करते हुऐ अनन्त ज्ञान का आव्हान किया गया जो हमारे मेधावी क्षमता को बढ़ाने का कार्य करेगा। सिर के तलवे स्थान पर अनन्त आनन्द जो अमृत है उसका पृच्य कराया जो हमारे ओहरे को मजबूत बनाता है। ध्यान साधना के पूर्व प्राणायम व पश्चात दोनों हाथ जोड़कर गुरुजन का आभार कर हथेली जा घर्षण करते हुए आँखों पर रखने पर आज्ञाचक्र के नजारे आज लोगो ने अनुभव किये। हथेली का घर्षण कर ध्यान मुद्रा से प्राप्त शक्ति का शरीर के बीमार कमजोर स्थान पर लगाकर ठीक होने का अनुभव कराया गया। बुरे नशे छोड़ने का आव्हान किया गया। आज शान्त क्रांति के अध्यक्ष मनोज छाजेड़ ने 7 उपवास व दीर्घ तपस्या प्रियंका गोलछा धर्मपत्नी प्रिंस गोलछा के चल रहे है।आज विशेष रूप से प्रेरणा दी गई कि किसी भी परिस्थिति में बकबक न करें । शांत क्रांति संघ के व जैन संघ नगरी के सभी सदस्य इस आयोजन को सफल बनाने के लिये अथक सहयोग कर रहे है इस आयोजन के लिए संघ के भाई बहन ने अर्थ दान दिया है व वैभव जी म सा की सांसारिक माता श्रीमती उषा जी सेठिया कलकत्ता द्वारा विशेष सहयोग किया जा रहा है। आयोजन के बाद स्वालपहार की भी व्यवस्था की जाती है। इस आयोजन में आज विशेष रूप से नगर पंचायत नगरी के अध्यक्ष बलजीत जी छाबड़ा , उपाध्यक्ष विकास बोहरा तथा अपने पार्षदों के साथ उपस्थित थे। बाहर से प्रतीक्षा जी की सांसारिक माता पिता व परिजन , अर्जुन्दा से संघ व बालाघाट से संघ आया था। इस आयोजन में नगरी के आस पास ग्रामो से लोग आ रहे हैं ।आज सभा का संचालन अजय छाजेड़ ने किया।

कमल पुष्प की सुगंध से सुवासित हो रहा कमलक्षेत्र

राजिम, 13 सितंबर (देशबन्धु)। धर्म नगरी राजिम का प्राचीनतम नाम कमलक्षेत्र पद्मावतीपुरी है। समय के साथ-साथ इनका नाम परिवर्तित होता गया। पहले तो यह ऊपर लिखित नाम से ही जाना जाता था बाद में पद्मावतीपुरी, देवपुरी, राजीवक्षेत्र, छोटा काशी इत्यादि नाम भी लिया जाता रहा, अब इसे राजिम के नाम से जाना जाता है। जथा नाम तथा गुण वाली कहावत इन दिनों चरितार्थ हो रही हैं। शहर के बरेजहा, दानी, मउराहा तालाब कमल पुष्प से ढ़क गया है। खिले हुए कमल का फूल श्रद्धालु और आम भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। साथ ही एक अच्छा दृश्य क्रिएट हो रहा है। माता लक्ष्मी और राजीव लोचन भगवान को कमल पुष्प अति प्रिय है जो जग जाहिर है। अक्सर चित्रों में मां लक्ष्मी को इसी पुष्प पर विराजमान दिखाया जाता है। भगवान राजीवलोचन के चार हाथों में से एक हाथ में वह कमल के पुष्प को पकड़े रहते हैं। बताया जाता है कि ऐसे में यदि आप पूजा के दौरान लक्ष्मी नारायण के चरणों में कमल का फूल अर्पित करते हैं तो इससे वह प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। कमल कीचड़ में ही खिलता है परंतु वह उसकी गंदगी से परे होते हैं उस पर गंदगी कभी हावी नहीं हो पाती। बताया जाता है कि भगवान विष्णु को कमलनयन के नाम से भी जाना जाता है। जनश्रुति के मुताबिक उन्होंने एक बार कमल का फूल भगवान शिव में चढ़ाने के लिए इधर-उधर बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें नहीं मिला तो भगवान विष्णु ने अपने नेत्र को ही निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया तब भगवान शिव ने उसी समय से ही भगवान विष्णु का नाम कमलनयन रख दिया। इसे हरी और हर की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर भगवान राजीव लोचन की प्रतिमा पर कमलपुष्प चढ़ा होता है

कमल फूल के दो प्रकार- कुमुदिनी और उत्पल

कमल पुष्प खेती का एक अच्छा स्रोत है इससे किसान बहुत ही जल्द मालामाल हो जाते हैं। साल में दो बार आराम से कमल की खेती की जा सकती है। एक्सपर्ट बताते हैं कि एक बार फसल तैयार होने में यानी फूल विकसित होने में करीब 5 महीने का समय लग जाता है इस लिहाज से साल भर में दो बार कमल की खेती कर सकते हैं यदि जून के महीने में कमल का बीज बोते हैं तो अक्टूबर तक फसल तैयार हो जायेगी। आज देशभर के हजारों किसान कमल की खेती कर मोटा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। मछली पालन के साथ-साथ इन्हें भी किया जा सकता है। कम लागत और अधिक मुनाफा की कहावत यही फीट बैठती है। इससे कमल ककड़ी, कमल गट्टे, कमल फूल तथा कमल के पत्ते भी उपयोग में आते हैं। कमल की जड़, बीज और फूल में कई औषधीय गुण भी होते हैं। कमल को पाचन शक्ति बढ़ाने, इनसोम्निया यानी नींद संबंधी रोग को दूर करने और एंजायटी को दूर करने जैसी अनेक मामलों में इनका महत्व है। कमल के फूल दो प्रकार के होते हैं कुमुदिनी और उत्पल। उत्पल को नील कमल भी कहा जाता है। कमल की दोनों किस्में की अधिक चर्चा होती है। वैसे कमल के फूल विभिन्न रंगों के होते हैं जैसे लाल कमल, सफेद कमल, पीला कमल, गुलाबी कमल इत्यादि।

किसानों ने बताया- इनकी खेती आम के आम गुठलियों के दाम

शहर में आसपास के गांव के कुछ किसानों से चर्चा किया तो उन्होंने बताया कि इनकी खेती करना यानी आम के आम और गुठलियों की दाम है। कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर पहुंचने की मार्ग पर भी कुछ किसान कमल पुष्प की खेती कर रहे हैं। इनका साफकहना है कि बाजारों में कमल ककड़ी की हमेशा डिमांड रहती है इसे अच्छी कीमत पर बेची जाती है, कमल का पुष्प भगवान में चढ़ाने के लिए श्रद्धालु खरीदते हैं। कमलगट्टे को तो लोग शौक से खरीदते हैं। इनकी तो हर समय मांग रहती है। वैसे आसपास के गांव के तालाब, पोखर इत्यादि में कमल की खेती करने का रिवाज है। अधिकतर गांव वाले तालाब को कमल की खेती के लिए लीज में दे देते हैं और इससे गांव वालों को भी इनकम होता है खेती करने वाले किसानों को तो मुनाफ़ा का कोई मापदंड नहीं है मनचाहा फायदा कमाते हैं। इस संबंध में कुछ किसानों ने बताया कि कृषि विभाग के द्वारा कमल पुष्प की खेती पर कोई गाइडलाइन नहीं दिया जाता है। यदि किसानों को कमल की खेती पर मोटिवेट किया जाए तो एक अच्छा उत्पादन कर मुनाफा कमाया जा सकता है। इनके लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए।

गायत्री प्रज्ञा पीठ कटगी में बच्चों के लिए एक अनोखा अवसर

व्यक्तित्व विकास को लेकर दी जा रही है प्रशिक्षण

कटगी/बलौदाबाजार, 13 सितंबर (देशबन्धु)। गायत्री प्रज्ञा पीठ कटगी में प्रत्येक रविवार सुबह 9 से 11 बजे तक बच्चों के लिए एक अनोखा अवसर प्रदान किया जा रहा है। व्यक्तित्व विकास को लेकर प्रशिक्षण श्री सी.एल.प्रजापति व श्रीमती सीता देवांगन द्वारा दी जा रही है। इस शाला में बच्चों को न केवल शिक्षा दी जाती है, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य, संस्कार, संस्कृति, नैतिक शिक्षा, परिवारिक मूल्यों का ज्ञान भी कराया जाता है।

गायत्री प्रज्ञा पीठ कटगी में बच्चों के विकास के लिए एक आदर्श स्थान है, जहां वे न केवल शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी विकसित कर सकते हैं। इस शाला में बच्चों को अनुभवी शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, जो उनके भविष्य को आकार देने में मदद करते हैं। आत्मीय अभिभावकगण से अपील की जाती है कि वे अपने बच्चों को इस शाला में जरूर भेजें, ताकि वे अपने बच्चों के विकास में योगदान कर सकें। गायत्री प्रज्ञा पीठ कटगी में बच्चों के लिए एक सुरक्षित और पोषक वातावरण प्रदान किया जाता है, जहां वे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। गायत्री प्रज्ञा पीठ कटगी अखिल विश्व गायत्री शिक्षा संस्थान है, जो बच्चों के विकास के लिए समर्पित है। यहां बच्चों को न केवल शिक्षा दी जाती है, बल्कि उनके व्यक्तित्व को भी विकसित किया जाता है। इस संस्थान के माध्यम से बच्चों को समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार किया जाता है। नि:शुल्क बाल संस्कार शाला गायत्री प्रज्ञा पीठ कटगी में बच्चों के लिए एक अनोखा अवसर प्रदान किया जा रहा है। आत्मीय अभिभावक गण से अपील की जाती है कि वे अपने बच्चों को इस शाला में जरूर भेजें, ताकि वे अपने बच्चों के विकास में योगदान कर सकें। यह जानकारी गायत्री परिवार द्वारा दी गई।

राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी विवेक शर्मा ने शिक्षामंत्री को ईश्वरीय सौगात भेंट की

राजिम, 13 सितंबर (देशबन्धु)। राजिम राष्ट्रीय आई टी सेल प्रभारी (कर्मचारी संगठन) विवेक शर्मा ने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से मुलाकात कर ईश्वरीय सौगात, श्रीमदभगवद गीता भेंट की तथा शिक्षकों की मांगों के लिए ज्ञापन दे कर चर्चा की, तथा शालेय शिक्षक संघ एवं अन्य संगठनों की मांग पर शनिवार सुबह स्कूल करने धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय आई टी सेल प्रभारी एवं शिक्षक विवेक शर्मा को दिए गए शुभकामना पत्र को शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव द्वारा भेंट कर बधाई दी गई।

इस अवसर पर राजिम विधायक रोहित साहू, राष्ट्रीय पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष समीर शर्मा ,शिक्षा विभाग के अधिकारी गण आदि उपस्थित थे।

10 लाख की लागत से बनेगा मुस्लिम समाज का सामुदायिक भवन

मुस्लिम समाज के पदाधिकारीयों ने विधायक द्वारिकाधीश यादव के प्रति जताया आभार

बागबाहरा, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। बागबाहरा नगर में मुस्लिम समाज के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण अतिशीघ्र होने जा रहा है। इस भवन के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति विधायक निधि से दी गई है। यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व संसदीय सचिव एवं विधायक द्वारिकाधीश यादव द्वारा प्रदान की गई है। भवन निर्माण की स्वीकृति मिलने पर मुस्लिम समाज के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर विधायक द्वारिकाधीश यादव से भेंट मुलाकात कर उनके प्रति आभार व्यक्त किया।

इस दौरान विधायक श्री यादव ने मुस्लिम समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सामुदायिक भवन समाज की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों और एकजुटता का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता हर वर्ग और समाज के हित में कार्य करना है। तथा क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास जारी रहेगा।

इस अवसर पर प्रमुख रूप से शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ठाकुर, ताम्रध्वज बघेल, नपा उपाध्यक्ष देवेश साहू, पार्षद मंता राम यादव, मिथुन अमीर, हाजी अमजद मेमन, फिरोज मेमन, हाजी गनी चौहान, हाजी बशीर परमार, समीम खान, हाजी वारिस चौहान, रफीक मेमन, अय्यूब कुरैशी, जावेद खान, युनुश कुरैशी, मौला खान, शब्बीर कुरैशी, सहजाद खान, शेख इमरान, जियाउल कुरैशी, अय्यूब खान, सोहैल मेमन, सद्दाम हुसैन, अय्यूब मेमन, शेख शाहबाज़ खान, सलीम खान, सरफराज खान, शाहरुख़ मेमन, नावेद चौहान, आकिब अहमद और जावेद खान सहित मुस्लिम समाज के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में सदस्य गण उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में उपस्थित मुस्लिम समाज के लोगों ने विधायक यादव के इस निर्णय को समाज के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सामुदायिक भवन उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों का मजबूत आधार बनेगा।

राधाकृष्ण मंदिर के 100 साल, 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन

गायत्री शक्ति पीठ में गोष्ठी सम्पन्न

नवापारा, 13 सितंबर (देशबन्धु)। नगर के मध्य स्थित राधाकृष्ण मंदिर ने इस वर्ष अपने 100 साल पूर्ण कर लिए है। इस उपलक्ष्य में 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में गायत्री परिवार के परिजनों को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें गायत्री परिवार को भी अनुष्ठान का दायित्व सौंपा गया है, जिसकी रूपरेखा के लिए नवापारा गायत्री शक्ति पीठ में गोष्ठी का आयोजन किया गया।

सर्वप्रथम कार्यकर्ता एवं गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं द्वारा परम वंदनीय माता जी के जन्म दिवस पर संध्या कालीन बेला में संक्षिप्त भावपूर्ण दीपयज्ञ कर गोष्ठी का शुभारंभ किया गया। त्रिवेणी संगम के इस पावन धरा नवापारा नगर में स्थित राधाकृष्ण मंदिर के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन 28, 29, 30 नवंबर को किया जाएगा। यह भव्य आयोजन पुरे नगरवासियों के सहयोग से सम्पन किया जाएगा। जिसमें भव्य कलशयात्रा, धार्मिक, अनुष्ठान, भजन-कीर्तन, प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भंडारा आदि शामिल होंगे। जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक आनंद प्रदान करेंगे।कार्यक्रम में कलश यात्रा का दायित्व गायत्री परिवार को सौपा गया है। इसके अलावा नवापारा नगर के सभी समाज से जुड़े भाई बहन एवं मातृ शक्तियां भी इस कलश यात्रा में अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

तीन दिनों तक होंगे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान: तीन दिनों तक मंदिर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान जैसे कि पूजा-पाठ, 5 कुंडीय यज्ञ और मंत्रोच्चार किए जाएंगे। श्रद्धालु भक्तजन भक्तिमय भजनों और कीर्तनों का आनंद ले पाएंगे, जो आध्यात्मिक माहौल को और भी आनंदमय बना देंगे। प्रसिद्ध कथावाचक और प्रवचनकर्ता आएंगे, जो राधा कृष्ण की लीलाओं और भक्ति के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जैसे कि नृत्य और संगीत प्रदर्शन। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद श्रद्धालुओं के लिए भंडारा (भोजन) का आयोजन भी किया जाएगा।

इस गोष्ठी में राधा कृष्ण मंदिर के ट्रस्टी गण एवं गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्ताओं के बीच चिंतन मनन किया गया। जिससे कार्यक्रम सरलतापूर्वक सम्पन्न हो सके। गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में विशेष सहयोग के लिए अपने अपने विचार रखे। साथ ही कुंवार नवरात्रि के पावन पर्व हेतु साधना एवं गायत्री मंत्र लेखन कापी प्रदान किया गया। तत्पश्चात 108 कुंडीय राष्ट्र जागरण गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव 2025 के सफल आयोजन को वार्षिक उत्सव के रूप में मनाने हेतु राधाकृष्ण मंदिर के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया। उन्होंने सहज रूप से आमंत्रण स्वीकार कर सहयोग के लिए सहमति दी।

गिधपुरी में चलाया गया स्वच्छता अभियान

बाजार परिसर हुआ चमकदार

गिधपुरी, भरूवाडीह/बलौदाबाजार, 13 सितंबर (देशबन्धु)। ग्राम पंचायत गिधपुरी के सरपंच कुशलेश साहू के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आज बाजार परिसर और गंगोत्री कुर्रे के नित्तव क्षेत्र में एक व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह अभियान गाँव को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ।

सरपंच ने न केवल इस कार्यक्रम की योजना बनाई, बल्कि स्वयं झाड़ू उठाकर सफाई कार्य में कर्मचारियों और स्वयंसेवकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उनके इस सक्रिय नेतृत्व और जमीनी सहभागिता ने पूरे अभियान में एक नई ऊर्जा भर दी। इस मौके पर सरपंच कुशलेश साहू ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एक नेता का कर्तव्य सिर्फआदेश देना नहीं, बल्कि अपनी टीम का हिस्सा बनकर काम करना भी है। आज हम सभी ने मिलकर यह प्रण लिया है कि हम अपने गाँव की सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों को हमेशा साफ रखेंगे। स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग बने, यही हमारा लक्ष्य है। इस अवसर पर ग्रामींणजन भी शामिल हुए।

भाजपा शहर मंडल का एक दिवसीय सेवा पखवाड़ा

बलौदाबाजार, 13 सितंबर (देशबन्धु)। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल द्वारा एक दिवसीय सेवा पखवाड़ा कार्यशाला का आयोजन भाजपा जिला कार्यालय में आहुत किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्यवक्ता के रूप में भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा के महामंत्री ओमप्रकाश चन्द्रवंशी एवं भाजपा जिला महामंत्री कृष्णा अवस्थी के आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता द्वारा बताया गया कि 17 सितम्बर से दो अक्टूबर तक मंडल के सभी बूथों एवं नगर में सेवा पखवाड़ा चलाया जावेगा। इस पखवाड़ा कार्यक्रम में रक्तदान, स्वच्छता अभियान, बुजुर्गों का सम्मान तथा 25 सितम्बर को पं. दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस, दो अक्टूबर गांधी जी सहित पूर्व प्रधानमंत्री स्व. लाल बहादूर शास्त्री जी का जन्म दिवस मनाने का कार्यक्रम उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं को कहा गया।

इस कार्यशाला में भाजपा के वरिष्ठ नेता टेसूलाल धुरंधर, जिला उपाध्यक्ष श्रीमती सुनीता वर्मा, जिला मंत्री सुशीला वर्मा, चित्तावर जायसवाल, धनंजय साहू, श्रीमती नीलम सोनी, नरेश केसरवानी, मंडल अध्यक्ष राकेश ध्रुव, शिवशंकर अग्रवाल, कृष्णा सेन, महामंत्री द्वय संजय श्रीवास, महेन्द्र वर्मा, पोषण पटेल, मीडिया प्रभारी हरिशंकर सेन, अमितेश नेताम, मनोजकांत पुरेना, श्रीमती रेखा पटेल, मंजू फेकर, रजनी केसरवानी, रीटा केसरवानी, सब्बा अली खान, सरिता मार्के, धनेश्वरी वर्मा, अजय गर्ग, रवि यादव, कुलेश्वर मानिकपुरी, ओमप्रकाश सेन चरौटी, ताराचंद कन्नौजे, भगवानी ध्रुव, गनपत साहू, उमेंद राम, रूपेन्द्र वर्मा, तामेश्वर वर्मा, धनीराम मार्के, धरम चतुर्वेदी, आलोक बघेल, उमाशंकर साहू, वेदांत रजक, लोकनाथ जायसवाल, किसन रजक, वासु ठाकुर, केशकुमार जायसवाल, नरसिंह वर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

बनाब शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेवरा के विद्यार्थियों को दी गई कैरियर संबंधी जानकारी

तिल्दा, 13 सितंबर (देशबन्धु)।रायपुर जिले के जिला प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न प्रोजेक्ट के तहत संचालित च्विजयी भव च्प्रोजेक्ट कार्यक्रम आज बद्रीनारायण नारायण बगिड़या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेवरा के प्रांगण मेंजिला प्रशासन रायपुर और बढ़व संगवारी रायपुर के डाज़्मीरा बघेल सेवानिवृत उपसंचालक स्वास्थय विभाग,डॉक्टर आर एस बघेल सेवानिवृत्त सहायक संचालक शिक्षा विभाग, विष्णु बघेल चार्टर्ड एकाउंटेंट ,रामेश्वरी परगनिहा रायपुर, वासुमती वर्मा सेवानिवृत्त प्राचार्य भाटापारा ने नेवरा के लगभग 360विद्याथियों को कैरियर संबंधी,जीवन कौशल के संबंध में,खुशहाल रहकरअपनी समस्याए हल करना आदि के बारे में मार्ग-दर्शन किया ।कार्यक्रम का शुभारम्भ विष्णु बघेल जी ने उपस्थित समस्त विद्यार्थियों और शिक्षक शिक्षिकाओं को संविधान की उव्देशिका का वाचन करवाकर किया ।उन्होंने सी ए बनने के लिए क्या क्या करना होगा ,किस तरीके से सी ए की पढ़ाई-लिखाई करनी होगी, अनुशासित जीवन के लाभदायक परिणाम ,कला और वाणिज्य के क्षेत्र में कैरियर केअवसर बताए।राधेश्याम बघेल ने बच्चो को अपना विश्लेषण करके अपनी कमजोरियों और मजबूत पक्ष पताकर,साइकोमीटिर्क टेस्ट के माध्यम से अपना कैरियर चुनने की समझाईश दी ।उन्होंने रोचक कहानियों, बहुत सारे उदाहरण देकर, प्रश्नोत्तर के माध्यम से बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत किया ।रामेश्वरी परगनिहा ने दैनिक जीवन के विभिन्न घटनाओं, कहानियों, उदाहरण देकर कैरियर केअवसर कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं बताया ।सभी बच्चें अपना-अपना लक्ष्य तय करते हुए उसे पाने हेतु कड़ी मेहनत ईमानदारी से करें ।डॉक्टर मीरा बघेल ने विद्यार्थि यों को चिकित्सा शिक्षा, विज्ञान व तकनीकी के विभिन्न कैरियर संबंघित जानकारियाँ विस्तार से देते हुए बच्चों को स्मार्ट बनकर अपना कैरियर चुनने कहा ।आप सभी एक अच्छे नागरिक बनकर देश और समाज की सेवा करें ।उन्होंने विद्याधि ?यों को स्वास्थय से संबंधित जानकारियाँ ड्रग्स, तंबाखू से होने वाले नुकसान , डिजिटल ड्रग्स, पाक्सों एक्ट,साईबर सुरक्षा,गुड़टच, बेड़टच,यातायात सुरक्षा,हैलमेट पहनना आदि की जानकारियाँ साझा करते हुए अनुशासित जीवन जीने हेतु प्रेरित किया। विद्यार्थियों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया तब उन्होंने उनका समाधान दैनिक जीवन के विभिन्न उदाहरण के माध्यम से किया ।सेवानिवृत प्राचार्य वासुमति वर्मा ने स्कूल शिक्षा व उच्च शिक्षा के विभिन्न कैरियर क्षेत्र की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को कॉलेज जीवन और स्कूल जीवन के संक्रमण काल से कैसे निकला जाए उसके बारे में समझाये। 12वीं के विद्यार्थी जलज पाल ने जिला प्रशासन रायपुर की प्रशंसा करते हुए कहा आज मेरा जीवन सार्थक हो गया मुझे विभिन्न प्रकार के कैरियर के अवसर, साइबर सुरक्षा व डिजिटल ड्रग्स की जानकारी प्राप्त हुई तथा मेरी बहुत सारी शंकाओ का समाधान हुआ। विद्यार्थी पोषण कुमार ने कहा कि इस तरह का आयोजन विद्यार्थियों के हित में है ।उनके जीवन में आ रही विभिन्न प्रकार की बाधाओं को दूर करेगा ।ऐसे आयोजन के लिए मैं बढ़व संगवारी संस्था व जिला प्रशासन को बधाई देता हॅू।इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हूए छात्रा हिमानी ध्रुव ने कहा कि हमें पाक्सो एक्ट, यातायात सुरक्षा ,गुड टच ,बेड टच और डिजिटल ड्रगस और हमारी छात्राओं की चिकित्सा संबंधी समस्याओं का हमें समाधान प्राप्त हुआ ।आज हुए इस कार्यक्रम से मुझे कैरियर चुनने में भी सुविधा होगी ।मैं पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देती हूं। छात्रा कल्पना यादव ने भी इस कार्यक्रम की बहुत बधाई आयोजकों को इस प्रकार के आयोजन विद्यालय में करने से विद्यार्थियों की बहुत सारी शंकाओ का समाधान होता है कहा। उक्त कार्यक्रम में कैरियर गाइडेंस प्रभारी सुषमा रानी दुबे ,टी खाखा ,अल्का मिश्रा , किरण साहू ,चुरामन लाल निषाद ,सुरेश टंडन न,रेंद्र रात्रे, भगवानसिंह नेताम,खूबचंद कश्यप सविता वर्मा ,खुशबू रामटेके,खिलेश्वरी यदु, सुरेश सेन तुकेंद्र वर्मा ,कांति बड़ा ,कुसुम नाग भी उपस्थित रहे। विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने जिला प्रशासन रायपुर वह बढ़व संगवारी संस्था के टीम की इस तरह के कार्यक्रमों को विद्यार्थियों के हित में बताया ।कार्यक्रम के अंत में संस्था के प्राचार्य डॉ ज़्राजेश कुमार चंदानी ने जिला प्रशासन रायपुर ,जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय,कामिनी बावनकर और बढ़व संगवारी के टीम का ह्दय से धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया ।साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम पूरे जिले में जिला प्रशासन रायपुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है जो निसंदेह विद्यार्थियों के हित में है। विद्यार्थियों को उनके करियर संबंधी जानकारी ,जीवन सुरक्षा ,जीवन कौशल की जानकारी प्राप्त होने से उनका कार्यकबहुत आसान हो जाता है ।उक्त कार्यक्रम च्विजयी भव च्की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ,सदस्य रानी सौरभ जैन ,खुमान वर्मा ,गौरव अग्रवाल, सुरेश लखवानी ,डॉक्टर लक्ष्मण साहू, अनीता सक्सेना ,सौरभ जैन, बेबी गोस्वामी ,गणेश शर्मा अमित अग्रवाल, दीपक चौइथवानी ,आनंद शर्मा ,सागर पंजवानी ,दिलहरण निषाद ,प्रियंक सोनी, निखिल पोपतानी ने भी की ।इस हैतु इन सभी ने जिला प्रशासन रायपुर व बढ़व संगवारी की टीम का पूरे विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापन किया।

आयोग ने फायनेंस कम्पनी को नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रदाय करने का दिया आदेश

बलौदाबाजार, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। सम्पूर्ण किश्त राशि जमा करने के बाद भी फइनेंस कंपनी द्वारा आवेदक को नोड्यूज प्रमाण पत्र देने में आनाकानी करने के मामले में जिला उपभोक्ता एवं प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार द्वारा फायनेंस कम्पनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए आवेदक को नोड्यूज प्रमाण पत्र सहित मानसिक एवं आर्थिक क्षति एवं अन्य व्यय प्रदाय किये जाने का आदेश पारित किया।

प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

पीडीएस चावल बेचने के मामले में कस्तूरबा आश्रम की अधीक्षीका पर गिरी गाज

तत्काल प्रभाव से हटाई गई, जांच के लिए समिति भी गठित

गरियाबंद, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में बच्चो के लिए मिलने वाला सरकारी चांवल बाजार में बेचने की शिकायत सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर बीएस उइके ने आश्रम अधीक्षीका कलिन्द्री मरकाम को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए चार सदस्यी टीम भी गठित कर दी है। जिसमें एसडीएम, मिशन समन्वयक, सहायक खाद्य अधिकारी और पीएम श्री स्कुल की प्राचार्य शामिल किया गया है। कलेक्टर ने समिति सात दिवस के भीतर जांच रिर्पोट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। वही उसकी जगह राजकुमारी दीवान को अधीक्षिका बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि बीते मंगलवार की शाम आमदी रोड स्थित एक दुकान में टाटा मैजिक वाहन सीजी 04 एनजे 0878 से पीडीएस का

कस्तूरबा आश्रम में बच्चों के लिए मिलने वाला सरकारी राशन को बाजार में बेचने की कोशिश नाकाम

चावल उतारा जा रहा था। पीडीएस चावल के कस्तुरबा आश्रम के पुष्टि होने के बाद देशबंधु ने इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर के आधार पर जिला प्रशासन ने मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है। मालूम हो कि प्रारंभिक प्रशासनिक जांच में तहसीदार को राशन दुकान से आश्रम के लिए जारी 19.50 चिंलट की तुलना में महज 10 चिंटल ही चावल आश्रम के भंडार कक्ष में मिला था। करीब 9.50 चिंटल कम पाए जाने के बाद प्रशासन ने इसे बड़ी अनियमिता मानते ही जांच टीम गठित कर दी। इधर चांवल घोटाला सामने आने के बाद आश्रम अधीक्षिका के विरूध्द एक और मामला सामने आ गया है। आश्रम की छात्रो ने भी अधीक्षिका के विरूध्द मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को छात्रो ने कलेक्टर बंगले पहुंच अधीक्षिका के विरूध्द कई बिन्दुओ में शिकायत की है। छात्रो ने अधीक्षिका पर पर्याप्त भोजन, स्कुल ड्रेस, साबुन सहित अन्य सामाग्री नही देने का आरोप लगाया है। इसके अलावा दिनभर मोबाइल में व्यस्त रहने, बच्चो के बीमार होने पर अस्पताल भेजने के बजाय बैगा गुनिया करने और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में जांच समिति को इन आरोपो के भी जांच के निर्देश दिए गए है।

देखे जांच समिति

1. हितेश्वरी बांधे, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
2. शिवेश कुमार शुक्ला, जिला मिशन समन्वयक
3. सुधीर चन्द्र गुरू, सहायक खाद्य अधिकारी
4. वंदना पांडेय, प्राचार्य, पीएश्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय गरियाबंद

कलेक्टर ने बीएस उइके ने अधीक्षिका कलिन्द्री मरकाम को हटाए जाने की पुष्टि की है। कलेक्टर ने कहा कि पीडीएस चावल बेचने की शिकायत मिलने और बालिकाओ की शिकायत पर अधीक्षिका को तत्काल प्रभाव से हटाए हुए जांच के लिए टीम गठित कर

तेवर नारियल भेला के, 320 से 450 रुपए किलो...

◆ विश्वकर्मा पूजा, नवरात्रि और दीपावली के लिए तैयार

भाटापारा, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। पूछ-परख क्या शुरू हुई नारियल भेला के तो तेवर ही बदल गए। किलो पीछे 50 रु की तेजी के बावजूद मांग भरपूर है क्योंकि विश्वकर्मा पूजा, नवरात्रि की खरीदी निकली हुई है। बाद के दिनों में दीपावली जैसे बड़े पर्व भी आने वाले हैं। कम नहीं होगी नारियल कीमत। यह पक्की आशंका इसलिए बन रही है क्योंकि मांग की तुलना में उत्पादक क्षेत्र से आवक महज 60 से 75 फ़ीसदी रह गई है। आवक और भी घटने के आसार इसलिए बन रहें हैं क्योंकि देश स्तर पर मांग का दबाव लगातार बढ़त लेता हुआ नजर आ रहा है।

तेवर नारियल भेला के

था 280 से 400 रुपए किलो। है 320 से 450 रुपए किलो। और

बढ़ सकती है नारियल भेला में प्रति किलो कीमत क्योंकि विश्वकर्मा पूजा, नवरात्रि और दीपावली की तैयारी बाजार ने चालू कर दी है। बाद के दिनों में वैवाहिक तिथियां भी आने वाली हैं, जिसमें नारियल भेला की आवश्यकता अनिवार्य रूप से मानी जाती है। ऐसे में चल रही कीमत में आश्चर्यजनक तेजी देखने में आ सकती है।

अब डिमांड इनकी भी

25 से 30 रुपए नहीं, अब 35 से 45 रुपए पर जा पहुंचे सूखा नारियल में बड़ी डिमांड खोपरा और नारियल तेल उत्पादक इकाइयों की निकल रही है क्योंकि यह ईकाइयां शीत ऋतु की मांग के लिए खोपरा एवं नारियल तेल का उत्पादन बढ़ा रहीं हैं। ऐसी स्थिति में सूखा नारियल का खुदरा बाजार 50 रुपए प्रति नग तक जाने की आशंका बन रही है।

सप्लाई शॉर्ट

संभाग में प्रतिदिन 10 से 15 ट्रक नारियल की आवक होती है। यह अब 7 से 8 ट्रक पर आकर सिमट चुकी है। इतना ही नहीं यह आवक, अब 5000 नग क्षमता वाली छोटी वाहनों से हो रही है। इसके अलावा उत्पादक क्षेत्र ऑर्डर की आपूर्ति में 24 से 48 घंटे तक का समय अतिरिक्त रूप से ले रहा है। ऐसे में तेजी की धारणा लगातार बनी हुई है।

शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान

भाटापारा, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के शिक्षा प्रभाग (ऋश्वऋन्न) के तत्वाधान में शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर ब्रह्माकुमारीज, भाटापारा द्वारा शिक्षक- ज्ञान, संस्कार और प्रेरणा के स्रोत, विषय पर एक विशेष कार्यक्रम दिनांक 14 सितंबर 2025 को संध्या 5-30 बजे से स्थानीय संस्था, प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय नरसिंह विहार कॉलोनी, एल आई सी ऑफिस के पीछे, नांदघाट रोड भाटापारा में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय भ्राता दीपक सोनी जी, कलेक्टर बलौदाबाजार, माननीया भावना गुप्ता जी, पुलिस अधीक्षक जिला बलौदाबाजार होंगे। कार्यक्रम में अतिथियों एवं अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से संबंध राजयोग शिक्षिका बहनों के द्वारा शिक्षक- ज्ञान, संस्कार और प्रेरणा के स्रोत, विषय पर अपना वक्तव्य देंगे। साथ ही मधुर गीत संगीत एवं राजयोग मेडिटेशन का भी कार्यक्रम रखा गया है।अतः समस्त भाइयों, बहनों एवं शिक्षकगणों से विशेष अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की कृपा करेंगे। सधन्यवाद। इस आशय की जानकारी भाटापारा सेवा केंद्र की मुख्य राजयोग शिक्षिका बी के मंजू दीदी, द्वारा दी गई।

चाहे जितनी भी उड़ान भर लो एक दिन जमीं में आनी ही पड़ेगी : प्रो. जगत

बागबाहरा, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन से पहुँचे उप संचालक प्रोफेसर दयाशंकर जगत अपने जन्म स्थान ग्राम पंचायत नर्रा के कुलदीप निगम हायर सेकेण्डरी स्कूल के सभागार मे बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए युवा शक्ति को प्रेरित कर कहा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। आसमा तुम्हारा हैं, पर याद रखो चाहे जितनी भी उड़ान भर लो एक दिन जमीं मे आनी ही पड़ेगी। अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करते हुए खूब उन्नति करें। उच्च शिक्षा के लिए ये मत समझो की पैसा कहाँ से आएगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। उक्त बातें अपने गृह ग्राम पंचायत नर्रा के युवा छात्रों को सम्बोधित करते

हुए बीते दिनों को याद किया। उन्होंने विद्यालय के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए हर संभव मदद करने का वादा किया। इस अवसर पर प्रो. जगत ने छात्रों को एक्टिविटी आधारित अध्ययन करने और वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम को पूरे मन से पढ़ने की सलाह दिया। इस अवसर पर कोमाखान महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉ. पुरुषोत्तम झा ने बच्चो से उच्च शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने अंतर्मन मे ऊर्जा का संचार कर उपभोग करें। देश का भविष्य गांव में तरासी जा रही है। उन्होंने कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के छात्रों को अधिकाधिक संख्या में समीपस्थ कोमाखान महाविद्यालय में उच्च अध्ययन हेतु प्रवेश लेने का आह्वान किया।

प्रधानपाठक डॉ. विजय शर्मा ने आभार प्रदर्शन करते हुए नर्रा के उर्वरा भूमि पर प्रकाश डालते हुए यहाँ के महापुरुषों को स्मरण करते हुए अतिथि के रूप मे पधारे प्रोफेसर जगत एवं प्रोफेसर झा को विशेष धन्यवाद दिया। जिले के नवाचारी व्याख्याता सुबोध तिवारी ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए कहा कि कभी उच्च शिक्षा से जुड़े वैज्ञानिक प्रोफेसरों का दर्शन दुर्लभ रहा। आज गांव मे ज्ञान की गंगा बहने लगी। कार्यक्रम को सफल बनाने मे प्राचार्य भूपेंद्र पड़ियार, व्याख्याता पन्नालाल साहू, योगेश साहू सहित समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर कक्षा ग्यारहवीं एवं बारहवीं के सभी छात्र छात्राएं उपस्थित थे। जिन्हें प्रो. जगत ने कॉपी, पेन स्नेह के रूप में भेंट कर सम्मानित किया। जिससे विद्यार्थियों के मन खिल उठे।

संकुल स्तरीय कबाड़ से जुगाड़ द्वारा टीएलएम प्रदर्शनी

तिल्दा नेवरा, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। संकुल टीएलएम नेवरा में प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार चंदानी सर के मार्गदर्शन में संकुल के शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्रों द्वारा कबाड़ से जुगाड़ द्वारा बनाए गए ञ्जरूप्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसका अवलोकन शिक्षक शिक्षिकाओं व टीएलएम स्कूल के छात्रों द्वारा किया गया सभी ने टीएलएम निर्माण की भूरी भूरी प्रशंसा की। सर्वश्रेष्ठ ञ्जद्यद्व निर्माण करने वाले छात्रों को प्रशस्ति पत्र व शील्ड पहनाकर व शिक्षकों को भी प्रशस्ति पत्र व मेमेन्टो देकर सम्मानित किया गया। चंदानी सर द्वारा अपने उद्बोधन में कहा टीएलएम द्वारा पढ़ाई कराने से छात्रों का स्कूल के प्रति जुड़ाव बना रहता उसे पढ़ाई में आनंद आता है जिससे शिक्षा गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती हैं इस प्रकार के आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार करना है। इसी उद्बोधन कड़ी में संकुल समन्वयक विनोद वर्मा ने कहा कि हम किस प्रकार वेस्ट मटेरियल का कम लागत में ञ्जरूका निर्माण कर छात्रों को बहुत सुन्दर ढंग से समझा सकते हैं, जो शिक्षक अपने शिक्षण में जितना ज्यादा ञ्जद्यरूसे पढ़ाई कराता है उनके छात्र बहुत जल्दी से शिक्षा गुणवत्ता को प्राप्त करता है। कार्य क्रम का संचालन प्रधानपाठक भागीरथी पान्से द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में किरण साहू,अल्का मिश्रा,चुरामन निषाद नरेंद्र रात्रे व संगीता रानी जेहोआश मैडम का विरोध योगदान रहा।

मांठ में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कण्डेय का भव्य स्वागत

खरोरा, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। ग्राम मांठ में आज भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कण्डेय जी का भव्य स्वागत किया गया। अवगत हो कि श्री नवीन मार्कण्डेय जी का भाजपा प्रदेश महामंत्री बनने के बाद प्रथम खरोरा नगर आगमन था। जिस पर बंगोली मंडल के भाजपा पदाधिरियों व ग्राम मांठ के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प वर्षा कर व पुष्प माला व फ़टाके के गूंज के साथ भव्य स्वागत किया गया।श्री मार्कण्डेय जी के साथ में धरसीवां विधान सभा क्षेत्र के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल, भाजपा जिला रायपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष श्याम नारंग जी का भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में अनुसूचित जाति मोर्चा रायपुर

ग्रामीण के जिला अध्यक्ष श्री पाटिल जी,बंगोली मंडल अध्यक्ष चंद्रकांत साहू, महामंत्री मारुतिनंदन वर्मा, खरोरा मंडल महामंत्री घनश्याम चंद्राकर सहित,ग्राम मांठ से युवा नेता शेषनारायण वर्मा,दिनेश साहू,नरोत्तम साहू,पुनीत साहू,चंद्रशेखर यदु, रिंकू सोनवानी,कमलेश वर्मा,विजय यादव,मदन वर्मा,पीतम पटेल,रूपेश वर्मा, सोनू वर्मा, संतोष वर्मा,रोहित भारद्वाज, विशाल गेनड्रे,संजय तिवारी, मानिकपुरी,जग्गू ,रामेश्वर,चेतन, देवा पटेल,विजय मरावी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गण उपस्थित थे ।

छात्र-छात्राओं को गणवेश वितरण

भाटापारा, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। आज दिनांक 12 09 2025 को शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सुर्खी में राज्य शासन द्वारा प्रदत्त गणवेश की द्वितीय सेट गणवेश स्कूल के समस्त छात्र-छात्राओं को ग्राम पंचायत सुर्खी के सरपंच श्रीमती ज्योति धृतलहरे पच श्री मती तुलसी ध्रुव .संकुल प्रभारी श्री दर्शन सिंह ठाकुर एवं संस्था प्रमुख श्रीमती सरोज यादव की उपस्थिति में 105 छात्र छात्राओं को प्रदान किया गया गणवेश की द्वितीय सेट प्राप्त कर सभी छात्र छात्राएं बहुत ही खुश नजर आए ग्राम पंचायत सुर्खी के सरपंच द्वारा बच्चों को मन लगाकर पढ़ने व अनुशासित रहकर शाला के नियमों का पालन करने का संदेश दिया संकुल प्राचार्य के द्वारा उपस्थित शिक्षक व छात्र-छात्राओं को समय पर शाला पहुंचकर अध्ययन अध्यापन करने एवं अच्छा अंक से परीक्षा में सफलता प्राप्त करने का के लिए प्रेरित किया आज के गणवेश वितरण कार्यक्रम में शिक्षक लेखराम साहू चंद्रशेखर वर्मा व भूषण यादव .सावित्री यादव सोमवती उपस्थित रहे।

वार्ड क्रमांक तेरह में सी सी रोड के लिए भूमि पूजन

तिल्दा नेवरा, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। वार्ड क्रमांक तेरह में दावत होटल के बाजु से सिंधी केम्प को जोड़ने वाली सड़क जिसकी लागत दस लाख तेरह हजार रुपए है, बनने वाले सीसी रोड निर्माण के भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ,नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती चन्द्रकला खुमान वर्मा, उपस्थित थीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में सरकार क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सांसद प्रतिनिधि और भाजपा रायपुर ग्रामीण महामंत्री अनिल अग्रवाल भाजपा रायपुर ग्रामीण उपाध्यक्ष राम पंजवानी मण्डल अध्यक्ष मनोज निषाद ,नगर पालिका मुख्य अधिकारी अनीश

ठाकुर,नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमती पलक विकास सुखवानी ,वार्ड पार्षद श्रीमती किरण बाला नायक ,पूर्वनगर पालिका उपाध्यक्ष विकास सुखवानी ,पार्षदगण दिनेश साहू ,धर्मेंद्र डहरिया ,डाक्टर खुमान वर्मा ,नानक छाबड़िया , समस्त वार्ड वासियों ने भाग लिया और भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। भूमि पूजन समारोह के दौरानवार्ड में खुशी और उत्साह का माहौल था, और सभी उपस्थित लोगों ने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया।

सीएमएचओ डॉ निराला ने विद्यार्थियों को आत्महत्या रोकने दिया व्याख्यान

बिलाईगढ़ 13 सितम्बर(देशबंधु)। कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे के निर्देशानुसार जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एफ आर निराला के द्वारा दानसरा के हाईस्कूल में विद्यार्थियों को आत्महत्या के संबंध में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि आत्महत्या क्या है ? स्वयं को मारना या जानबूझ कर अपने मृत्यु का कारण बनना ही आत्महत्या है।

आत्महत्या के कारण

आत्महत्या करने के अनेकों कारण है जैसे तनाव, अवसाद (डिप्रेशन), व्यक्तित्व विकार, नशे की आदत, मानसिक रोग, सामाजिक समस्या। व्यक्ति किसी भी कारण से अत्यधिक डिप्रेशन का शिकार रहता है तब उसके दिमाग में आत्महत्या कर लेने का विचार आता है। व्यक्ति लंबे समय तक बीमार रहता है तब भी दिमाग में इस प्रकार के नकारात्मक विचार जिसमे आत्महत्या कर लेना सोचने लगता है। नशे की आदत में चूर व्यक्ति अंत में मर जाना को सोचता है नशा चाहे तंबाखू का हो ,दारू चरस अफीम ,गांजा आदि का हो यह व्यक्ति अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेना सोचता है। व्यक्ति मानसिक रोगी होता है तब भी अपनी जिंदगी खत्म करने सोचता है। किसी प्रकार की सामाजिक प्रताड़ना होने पर भी व्यक्ति मरने का विचार करने लगता है। कम तनाव एक प्रेरक का कार्य करता है लेकिन यदि तनाव ज्यादा हो या ज्यादा दिनों का हो तब भी आत्महत्या कर लेना सोचता है तनाव तीव्र, प्रासंगिक या दीर्घकालिक हो सकता है। आत्महत्या करने के यदि मूल कारण को पता करें, तब पता चलता है कि पारिवारिक, घरेलू हिंसा, शैक्षणिक असफलता या बेरोजगारी, वित्तीय घाटा, धोखा खाने से परिजन या प्रेमी से प्यार में धोखा खाने के कारण लोग आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या करने के लक्षण* जो व्यक्ति आत्महत्या करने को सोचता है उसमें निम्न लक्षण दिखता है और इसी स्टेज में गंभीरता , सक्रियता से पहचान कर ले तो आत्महत्या के प्रकरण को कम किया जा सकता है। उनको समझाइश देकर, काउंसलिंग करके जान बचाई जा सकती है। लक्षण देखकर कैसे पहचानेंगे।व्यक्ति अपने बारे में झूठ बोलना, लोगो के बीच में रहने से कतराना। अकेला रहना पसंद करता है)। जिंदगी को अच्छा नहीं मानता। खाने और सोने की आदत में बदलाव होना। बात बात में मरने की बात करना।

सुसाइड को कम करने के लिए डॉक्टर से 9098027817 पर संपर्क करें

इसप्रकार के लक्षण दिखने पर तत्काल मदद करने पर उसकी जान बचाई जा सकती है। इसी की जागरूकता अभियान 10 सितंबर से 16 सितंबर तक चलाई जा रही है जिसमें स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को जागरूक करना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। जिले में किसी भी प्रकार की मानसिक रोगों के बारे में जानकारी लेने या सुसाइड को कम करने के लिए मदद चाहिए तो जिला अस्पताल में पदस्थ डॉ नरेंद्र रात्रे चिकित्सा अधिकारी मोबाइल नंबर 9098027817 से संपर्क कर सकते हैं।

आत्महत्या रिकॉर्ड

यदि हम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट को देखेंगे तो वर्ष 2021 में 703000 लोगो ने आत्महत्या दुनिया भर में किए। इसी अवधि में हमारे देश में 164033 लोगों ने आत्महत्या किए, याने हमारे देश में ही प्रतिदिन 450 आत्महत्या हो रही है, प्रति घंटे 18 आत्महत्या अर्थात प्रति 3 मिनट में एक आत्महत्या हो रही है। यह संख्या बहुत ज्यादा होता है। आत्मा हत्या करने वाले में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। आत्महत्या करने वाले में लगभग 38 त्न जहर खुराकी से मरते है। 32त्न लोग फांसी लगाकर आत्महत्या करते है तथा शेष एक तिहाई लोग आगजनी, पानी में डूब कर या अन्य कारणों से मरते हैं। हमारे देश में आत्महत्या करना अपराध की श्रेणी में था और आईपीसी की धारा 309 कायम हुआ था, लेकिन अब इसमें संशोधन हो चुका है दुनिया में एक देश नीदरलैंड ऐसा देश है जहां इच्छा मृत्यु वैध है।

शहर में उदित मुनि नाम साहेब का प्रथम आगमन आज

राजिम 13 सितंबर देशबंधु । नगर के कृषि उपज मंडी प्रांगण में 14 सितंबर रविवार को परम पूज्य नवोदित वंशाचार्य पंथ श्री उदित मुनि नाम साहेब का आगमन हो रहा है। जिनका आशीर्वचन,दर्शन, भेंट, बंदगी कार्यक्रम होगा। मेघनाथ साहू ने बताया कि सुबह 9रू00 से गुरु महिमा पाठ किया जाएगा, दोपहर 12रू00 साहेब का आगमन पर भव्य शोभायात्रा तथा निशान पूजा होगी। शोभायात्रा पंडित सुंदरलाल शर्मा चौंक बस स्टैंड से कबीर आश्रम और कबीर आश्रम से कृषि उपज मंडी पहुंचेगी। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारीयों ने सभी लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस धार्मिक आयोजन का पुण्य लाभ ले।सभी कार्यक्रम श्रीसदगुरु कबीर धनी धर्मदास सेवा आश्रम कबीरधाम राजिम एवं कबीर पंथ समाज जिला गरियाबंद के द्वारा आयोजित है।

गौमाताओ एवं बछड़ों को रेडियम बेल्ट लगाया गया एवं घायल सांड का उपचार

भाटापारा, 13 सितम्बर (देशबन्धु)। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच, ग्रेन सिटी शाखा भाटापारा के तत्वावधान में गौ माता के लिए रेडियम बेल्ट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य रात के समय सड़कों पर विचरण करने वाली गायों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तीन चरणों में तीन दिवसीय यह कार्यक्रम क्रमशः तरेंगा रोड, देवरीरोड तथा बलौदाबाजार रोड में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक कार चालक द्वारा सांड को बुरी तरह से घायल कर दिया गया है। सूचना मिलते ही भाटापारा गौ सेवक भाई अभिषेक मिश्रा एवम उनके साथियों को सूचित कर त्वरित उपचार प्रदान किया गया। साथ ही घायल सांड को भी रेडियम बेल्ट पहनाया गया

ताकि भविष्य में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

कार्यक्रम में मंच के प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रशांत गांधी, शाखा अध्यक्ष कैलाश बंसल, कोषाध्यक्ष अभिषेक टाटिया, उपाध्यक्ष विनोद अग्रवाल, सहसचिव भावेश अग्रवाल, सिद्धार्थ गोलछा सहित अन्य सदस्य गण उपस्थित रहे। कार्यक्रम की पूरी जानकारी मंच सदस्य सिद्धार्थ गोलछा द्वारा दी गई। यह पहल समाज में पशु संरक्षण एवं संवेदनशीलता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।।